3 राजधानी
शरणार्थी से भारतीय बनने का सपना साकार होने के करीब

6 अभिमत
एमएसएमई क्षेत्र का सशक्तीकरण

11 विदेश
डोभाल ने नेतन्याहू से गाजा में युद्ध पर चर्चा की

12 स्पोर्ट्स
पंत आईपीएल के लिए फिट घोषित

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 127
नई दिल्ली, बुधवार, 13 मार्च, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

# पायनियर

www.dailypioneer.com

करदाताओं की संख्या बढ़ाने को परामर्श का सहारा लेना चाहिए

राष्ट्रीय-10

# नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली/चंडीगढ़

**आगामी लोकसभा** चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सैनी के साथ ही कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जय प्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली। सैनी (54) को खट्टर का करीबी माना जाता है। अक्टूबर के अंत में मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर का दूसरा कार्यकाल खत्म होना था।

इससे पहले, भाजपा विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देब मौजूद थे। नेता चुने जाने के बाद सैनी ने खट्टर और अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सैनी ने एक्स पर एक पोस्ट में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य नेताओं का आभार जताया। देब ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मनोहर लाल खटटर के नेतृत्व में शुरू हुए हरियाणा के विकास कार्यों को वह आगे बढ़ाते हुए राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जाएंगे।

चंडीगढ़ में मंगलवार को राजभवन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भाजपा नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्टूबर में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के भाजपा के प्रयास के तौर पर देखा गया था। राज्य में सबसे अधिक आबादी जाट समुदाय की है। माना जाता है कि इस समुदाय का वोट कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच बंट जाता है।

सैनी ने प्रदेश संगठन में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। वह भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। साल 2012 में उन्हें भाजपा ने अंबाला इकाई का जिला अध्यक्ष बनाया था और फिर साल 2014 में वह नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। हरियाणा में मुख्यमंत्री को ऐसे समय में बदला गया है, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को हरियाणा में ही थे। गुरुग्राम में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने खट्टर की जमकर तारीफ की थी। तब किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि अगले ही दिन खट्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और जजपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री बने।

पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खट्टर ने आज जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब राज्य मंत्रिपरिषद में उनको मिलाकर कुल 14 मंत्री थे। इसमें चौटाला सहित जजपा के तीन सदस्य भी शामिल थे। जजपा आगामी लोकसभा चुनाव में हिसार और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा दोनों सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने राज्य की सभी 10 सीट पर जीत हासिल की थी। दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ सीटों के बंटवारे के सिलसिले में बातचीत भी की थी, लेकिन संभवत: वह विफल रही।

(शेष पेज 9)

# एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण सौंपा

**पीटीआई।** नई दिल्ली

**भारतीय स्टेट** बैंक (एसबीआई) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार शाम को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण सौंपा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड के विवरण सौंपने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश के सिलसिले में एसबीआई को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग को 12 मार्च को चुनावी बॉण्ड पर विवरण सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉण्ड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉण्ड जारी किए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया। एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक

(शेष पेज 9)

# जैसलमेर के पास तेजस लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

**पायनियर न्यूज सर्विस।** नई दिल्ली

**स्वदेशी रूप** से डिजाइन और निर्मित लड़ाकू जेट से जुड़ी पहली घटना में तेजस हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया और जमीन पर किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए अनिवार्य कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। भारतीय वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, भारतीय वायु सेना का एक हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस आज एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। जैसलमेर से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। विमान छात्रों के छात्रावास परिसर के पास गिरा।

दुर्घटना पोकरण से लगभग 100 किमी दूर हुई। यहां मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मेगा युद्ध अभ्यास भारत शक्ति चल रहा था। सैन्य सूत्रों ने संकेत दिया कि तेजस जेट को इस अभ्यास का हिस्सा बनना था। यह वायुसेना के 18 नंबर स्क्वाड्रन या फ्लाइंग बुलेट से था। जैसलमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि कल्ला आवासीय कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी के पास हुए हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में एक छात्रावास का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, घटना के समय कमरों में कोई नहीं था। जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां एक मंजिला ईंट की इमारत से गहरा काला धुआं निकलता देखा गया। अधिकारियों ने कहा कि यह दुर्घटना का शिकार होने वाला पहला तेजस जेट था। वायुसेना के अनुसार भारतीय वायु सेना का एक हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस आज एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। इसमें कहा गया, दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है।

जैसलमेर में दुर्घटना का शिकार तेजस लड़ाकू विमान जलकर खाक हो गया

घटना के बाद जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा, पायलट सुरक्षित है और घटना में कोई अन्य घायल नहीं हुआ है। घटना स्थल के सभी दिशाओं में आबादी थी और सौभाग्य से सभी सुरक्षित हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ देर पहले ही पायलट विमान से बाहर कूद गया। उसने बताया, जैसे ही विमान जमीन पर गिरा,

(शेष पेज 9)

# कांग्रेस ने लोस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

**कांग्रेस ने** मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की। इस सूची में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को एक बार फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से और अशोक गहलोत के बेटे वैभव को राजस्थान के जालौर से मैदान में उतारा गया है। लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई को असम के जोरहाट से और प्रद्युत बोरदोलोई को नगांव से मैदान में उतारा गया है। वहीं कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए राहुल कस्वां को राजस्थान के चुरू से मैदान में उतारा गया है।

पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक के एक दिन बाद दूसरी सूची आई है। बैठक में गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 60 से अधिक सीटों पर चर्चा हुई। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार को घोषित सीटों में असम से 13, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, गुजरात से सात और उत्तराखंड से तीन सीटों के अलावा दमन और दीव से एक सीट शामिल है। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता अजय माकन और पवन खेड़ा भी थे।

हालांकि सीईसी से आ रही खबरों के अनुसार खड़गे ने इस साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। खड़गे ने सोनिया गांधी की उपस्थिति में सीईसी को बताया कि वह चुनाव छोड़ना चाहेंगे और अगले कुछ महीनों में आम चुनावों, साल के अंत में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों, पार्टी के अभियान और रोजमर्रा के मामलों पर अधिक समर्पित रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे।

नई दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी नेता सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य के साथ।

पार्टी हाईकमान के दिग्गजों के बीच सोनिया इस साल पहले ही चुनावी राजनीति से किनारा कर चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह गुलबर्गा सीट के लिए खड़गे के नाम पर चर्चा हुई थी। हालांकि, 81 वर्षीय राज्यसभा सांसद अब अपने दामाद राधाकृष्णन डोड्डामणि को उसी सीट से नामांकित कर सकते हैं। पार्टी प्रमुख के बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। खड़गे गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार जीत चुके हैं और 2019 में हार गए थे। वर्तमान में, वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। खड़गे के पास राज्यसभा में चार साल और हैं। जारी की गई पहली सूची में पूर्व प्रमुख राहुल गांधी भी शामिल हैं जो इस साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा की इसमें 16 केरल से, सात कर्नाटक से और छह छत्तीसगढ़ से, चार तेलंगाना, मेघालय से दो और नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्ष्यद्वीप से एक-एक शामिल हैं।

# भारत ने चीन की आपत्ति को किया खारिज

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

**प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी की पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की आपत्ति को भारत ने मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्य 'हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा' था, है और रहेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इस क्षेत्र का नाम ज़ंगनान भी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की पिछले शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की यात्रा के बाद सोमवार को बीजिंग की आपत्ति सामने आई थी। प्रधानमंत्री ने चीन से लगे सीमा की रक्षा करने वाले बलों को सभी मौसम में रसद बैकअप प्रदान करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत ईटानगर में सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह दुनिया की सबसे लंबी ट्विन-लेन सुरंग है। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। कुल 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, सुरंग बालीपारा-चारिद्वार-तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जो सशस्त्र बलों की तैयारियों को बढ़ावा देने के साथ

(शेष पेज 9)

# सांप काटने पर मिलेगी मेडिकल सहायता

**अर्चना ज्योति।** नई दिल्ली

**कर्नाटक** सर्पदंश से होने वाली मौतों की जानकारी रखने वाला देश का पहला राज्य बनने के बाद, केंद्र एक सर्पदंश हेल्पलाइन (15400) जारी करने पर विचार कर रहा है। भारत में सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मौतों में चिंताजनक वृद्धि के बीच प्रभावित समुदायों के लोगों की मदद और संकट के समय उसकी जान बचाने के लिए इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह पहल उस चौंकाने वाले आंकड़ों के मद्देनजर आया है, जिसमें हर साल सर्पदंश के कारण होने वाली 81,000 से 138,000 लोगों की मौतों के साथ-साथ सर्पदंश के परिणामस्वरूप अंग-भंग और स्थायी विकलांगता के 400,000 मामले सामने आए हैं।

यह अभिनव पहल सर्पदंश की आपात स्थिति से जूझ रहे व्यक्तियों और समुदायों के लिए त्वरित हस्तक्षेप और उनके सहायता के समर्थन का वादा करती है और इसे पांच राज्यों-पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में शुरू किया जाएगा। सरकार की योजना भारत में वर्ष 2030 तक सर्पदंश से जुड़ी मृत्यु दर और विकलांगता को आधा करने की है। इस उद्देश्य के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारत में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसई) के साथ-साथ अमूल्य उपकरणों के रूप में काम करने के लिए आईईसी सामग्रियों की एक श्रृंखला भी लॉन्च की। जिसमें लोगों को सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करने और समुदायों को सर्पदंश के खिलाफ सक्रिय उपाय करने के लिए सशक्त बनाने की पहल शामिल है। यह पहल समुदायों में सर्पदंश से जागरूकता बढ़ाने, महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के खिलाफ सक्रिय उपाय करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अमूल्य उपकरण के रूप में काम करेगी।

प्रस्तावित हेल्पलाइन के बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है और वह अनिश्चित है कि आगे क्या करना है, तो वे प्राथमिक उपचार कैसे करें और चिकित्सा सहायता कैसे प्राप्त करें, इस पर तत्काल मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। वे सांप की उपस्थिति और व्यवहार का वर्णन करने के लिए हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं, और प्रजाति की पहचान करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं कि क्या यह जहरीला या हानिरहित है। ऐसी हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आगे बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि कभी-कभी व्यक्ति सांप के सामने आने के बाद घबरा जाते हैं या चिंतित महसूस कर सकते हैं, भले ही उन्हें काटा न गया हो।

(शेष पेज 9)

पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी।

# यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में 100 अरब का बजट पास

## जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रैपिड मेट्रो पर खर्च बढ़ाया, भूमि आवंटन के जरिए 7635 करोड़ रुपये की आय होगी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 80वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण का बजट पास किया गया है।

यमुना अथॉरिटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2024.25 के लिए प्राधिकरण ने 9992 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है। जिसमें प्राधिकरण 9957 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अरबन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और जेवर अंतराष्ट्रीय हवाई.अड्डे पर खर्च करेगा।

बजट के बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीरसिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए मंगलवार को बोर्ड बैठक में बजट पेश किया गया।



यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 80वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बजट प्रस्तावों को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अगले वित्त वर्ष के लिए 9992.24 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान पारित किए गए हैं।

सीईओ ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास प्राधिकरण 9992.24 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां करेगा। इनमें भूमि आवंटन के जरिए 7635 करोड़ रुपये की आय होगी। यह पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 102 प्रतिशत ज़्यादा रहने का अनुमान है। लीज़ रेंट और दूसरे शुल्कों के माध्यम से 706 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। इस मद में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 222 प्रतिशत ज्यादा आय होने का अनुमान है। विकास योजनाओं को रफ़्तार देने के लिए प्राधिकरण एडवांस और लोन लेगा। सीईओ ने बताया 1650 करोड़ रुपये अग्रिम और ऋण लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस तरह अगले वित्त वर्ष के दौरान 9992.24 करोड़ रुपये अथॉरिटी अर्जित करेगी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि बजट में 9957.21 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्राधिकरण 655 करोड़ रुपये कर्ज वापस लौटाएगा। भूखंड आवंटियों की परिसंपत्तियों के सरेंडर और अलॉटमेंट कैंसिलेशन होने के कारण 10.75 करोड़ रुपये वापस लौटाए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नए औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों का विकास किया जा रहा है।

इसके लिए 1948.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के सापेक्ष अगले वित्त वर्ष में विकास और निर्माण कार्यों पर 173 प्रतिशत अधिक खर्च किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान 2031 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गौतमबुद्ध नगर से आगे बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में भूमि अधिग्रहण होगा। वहां विभिन्न आवासीय और औद्योगिक विकास योजनाएं अगले साल के दौरान मूर्त रूप लेंगी। ऐसे में यमुना प्राधिकरण का पूरा जोर भूमि अधिग्रहण पर रहेगा। भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को बोर्ड के सामने पेश किया गया। जिसके लिए 6063 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब, अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण किसानों को कम से कम छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

अगर चालू वित्त वर्ष के सापेक्ष तुलना की जाए तो 227 प्रतिशत अधिक पैसा भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जेवर इलाके में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज पूरा होने वाला है। जल्द दूसरे फेज पर काम शुरू होगा। हवाईअड्डा परियोजना में यमुना प्राधिकरण 17.5 प्रतिशत का हिस्सेदार है। इस बजट में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण जेवर अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 702 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

## संक्षिप्त समाचार

### वीके सिंह ने किया धोबीघाट आरओबी का उद्घाटन



गाजियाबाद। केन्द्रीय राज्यमंत्री व क्षेत्रीय सांसद वीके सिंह ने आज विधिवत रूप से धोबीघाट आरओबी का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित किया। इस आरओबी के शुरू होने से लाइन पार क्षेत्र की 40 साल पुरानी समस्या समाप्त हुई साथ ही पांच लाख लोगों का आवागमन सुलभ हुआ। दो शहरों को आपस में जोड़ता हुआ यह रेलवे ओवर ब्रिज प्रतिदिन 3 से 5 लाख लोगों की आवाजाही में लाभदायक साबित हो रहा है। हालांकि जनता की समस्या को देखते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री ने इस आरओबी को पहले ही खुलवा दिया था। इसके बाद विधिवत रूप से इसका उद्घाटन भी वीके सिंह ने खुद रिबन काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि 1982 से गाजियाबाद के लोगों की विजयनगर से गाजियाबाद शहर को जोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरओबी की एक प्रमुख मांग थी। वीके सिंह के संज्ञान में मामला आने के बाद इस आरओबी को बनाने में तेजी शुरू हुई और फिर इस आरओबी की आधारशिला रखी गई। 110 करोड़ की लागत से 1.34 किलोमीटर लंबे 1500 टन के भार वाले इस आरओबी के कारण विजयनगर और गाजियाबाद शहर को बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनी है और घन्टों की दूरी अब मिनटों में पूरी हो रही है।

### सुप्रीम टावर सोसाइटी में रात को नहीं रुकेंगे बैचलर्स

नोएडा। नोएडा में अब अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने जा रहा है। नोएडा सेक्टर.99 स्थित सुप्रीम टावर सोसायटी का अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने अपने किरायेदारों के घर रात में आने वाले अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसको लेकर नोएडा स्थित इस सोसायटी ने एओए बोर्ड की तरफसे नोटिस भी जारी कर दिया है। नोएडा के सोसायटी के इस फरमान के बाद अब वहां रहने वाले सभी किराएदारों को अपने घर में रात को रुकने वाले अविवाहित अतिथियों के लिए एओए बोर्ड से अनुमित लेनी होगी। इस आदेश के जारी होने करे बाद अब किराएदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही एओए का यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसको लेकर लोग भी एओए के इस फैसला की जमकर विरोध कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोसायटी एओए ने सोसायटी में सुरक्षा स्वच्छता को लेकर कई नई नीति बनाई है। इसके तहत सोसायटी के निवासियों को लेकर कई और भी नियम बनाए गए हैं। जिनमें से किराएदारों के घर आने वाले अविवाहित को लेकर भी नियम है।

### उद्यमियों ने विद्युत विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

नोएडा। नोएडा विद्युत विभाग के उत्पीड़न से शहर के उद्यमी परेशान हैं। उद्यमियों का आरोप है कि विद्युत विभाग एडवांस बिल भेजकर धनराशि जमा करने का दबाव डाल रहा है। नोएडा एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन एनईए ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर प्रोवीजनल बिल पर रोक लगाने की मांग की है। नोएडा के एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने आरोप लगाया कि विगत वर्षों में विद्युत विभाग द्वारा प्रोवीजनल बिल लगभग दोगुना धनराशि के भेजे जा रहे थे। विरोध करने पर विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया था कि अब ये बिल नहीं भेजे जाएंगे। लेकिन फिर उद्यमियों को प्रोवीजनल बिल भेजे जा रहे हैं। प्रोवीजनल बिल के बिना विद्युत विभाग वर्तमान बिल का भुगतान लेने से मना कर रहा है। श्री मल्हन का तर्क है कि जब नियमित बिलों का उद्यमी भुगतान कर रहे हैं तो एडवांस बिल जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है।

# पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले इनामी समेत दो गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान नककरनेवाने वाले दो बदमाशों को उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल एसटीएफ और थाना सेक्टर–39 पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इस गैंग के एक बदमाश को एसटीएफपूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार बदमाश मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, झांसी सहित कई जनपदों से वांछित थे। एक बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल के एसपी नोएडा यूनिट राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश मे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई तथा उत्तर प्रदेश शासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल करने के मामले में एसटीएफ ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके तहत प्रमोद पाठक नामक व्यक्ति को एसटीएफने 4 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके गैंग के अन्य सदस्य मोनू पंडित, मोहन, गौरव, आशीष, अखिलेश, राहुल फरार चल रहे थे।

उन्होंने बताया कि मोनू पंडित की गिरफ्तारी पर झांसी जनपद की पुलिस द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। एसपी ने बताया कि आज एक सूचना के आधार पर एसटीएफने मोनू पंडित और गौरव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मोनू पंडित जनपद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहित कई जनपदों से वाछित था।

# चार लोगों की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

- रुपये को लेन-देन को लेकर हुआ था विवाद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में 4 लोगों की हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने दोषी पाया। मामले में फैसला देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

27 जून 2021 को गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये वारदात हुई थी। टोली मोहल्ला में रहने वाले कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन, पत्नी फातिमा, बेटे अज्जू व इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्जू की पत्नी अफसाना पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो पिस्टल में फंसी रह गई। आरोपी की पहचान अय्यूब के रूप में हुई, जो रईसुद्दीन का ही भतीजा लगता था। उस दिन वो 10 लाख रुपए उधार मांगने के लिए रईसुद्दीन के पास आया था। रईसुद्दीन ने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद विवाद हुआ और अय्यूब ने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। परिवार ने हत्यारोपी के दबाव में आकर मामला लूट और हत्या का दर्ज कराया। लेकिन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से सारी सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि मर्डर लूट के लिए नहीं हुआ, बल्कि वजह रुपयों के लेनदेन की थी।

आरोपी अय्यूब ने पूछताछ में कुबूला की उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इसलिए उसने अपने ताऊ से रुपए मांगे थे। रुपए न देने पर ये वारदात की गई।

मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.3 पवन कुमार शर्मा की अदालत ने अय्यूब को फांसी की सजा सुनाई है। बीते गुरुवार को इसे दोषी करार दिया गया था।


इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक: स्वामी शिवानंद भवन, अमर कॉलोनी मार्केट, लाजपत नगर–IV, नई दिल्ली–110024

**परिशिष्ट – IV नियम–8(1)**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **हमारी अमर कालोनी शाखा** के उधारकर्ता **श्री के सिबाप्रसाद राव और सीमा मोहंती** को एक मांग सूचना दिनांक 13.12.2023 को जारी की गई थी जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **26,96,000 (रु. छब्बीस लाख छियान्बे हजार मात्र) और ब्याज इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है इसलिये एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 07.03.2024 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **26,96,000 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

**हम कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13(8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. ए–1501, ब्लॉक ए, 14वां तल, "आर जी लक्जरी होम्स", प्लॉट नं. जीएच–07ए, सेक्टर 16 बी, ग्रेटर नोएडा (नोएडा एक्सटेंशन), उत्तर प्रदेश में स्थित**

दिनांक: 07.03.2024 | स्थान: नई दिल्ली हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) इंडियन बैंक



ICICI Bank

शाखा कार्यालयः आई सी आई सी आई बैंक लि. तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005

**सार्वजनिक सूचनाः बिल्डर निरस्तिकरण**

आपके ध्यान में लाया जाता है कि विवेक कुमार जैन/हेमलता जैन (उधारकर्ता) ने फ्लैट नं. सी/जी006, खसरा नं. 238, मोती रेजीडेंसी, ग्राम मार्टम, एनएच–58 के पास, प्रदेश गाजियाबाद में स्थित, **सुविधा समझौता सं. LBDEL00002473328** और **LBDEL00002473337** के अंतर्गत गृह ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। उधारकर्ता समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार बिल्डर को संविदागत राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।

बैंक उसकी सूचना कर्जदार को पत्र दिनांकित 14 नवम्बर, 2023 के माध्यम से दे चुका है, जिसमें सूचित किया गया है कि टेकमैन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ने उपरिवर्णित सम्पत्ति का आबंटन निरस्त कर दिया है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि बिल्डर के साथ यह मामला इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के भीतर सुलझा लें।

कृपया यह भी ध्यान दे कि उक्त संपत्ति के आबंटन निरस्त करने के पश्चात आईसीआईसीआई बैंक बिल्डर द्वारा किए गए किसी भी अन्य आवंटन के लिए बाध्य और/या उत्तरदायी नहीं होगा।

**दिनांक : मार्च 13, 2024** **कृते आई सी आई सी आई बैंक लि.**

**स्थानः दिल्ली/एनसीआर** **हस्ता/–**



**SALE NOTICE**

The under mentioned Assets will be sold through auction on **"AS IS WHERE IS BASIS"** and **"AS IS WHAT IS BASIS"** for recovery of dues as per court orders, in the following cases:-

| Case Details | Asset Details |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd. Vs. Rajesh Kumari, CS No. 2356/18 | Vehicle No. HR26DG5479, Make and Model- HONDA ACTIVA 4G, Manu Year- 2017 |

**Auction Date: April 06, 2024 from 11:00 AM to 02:00 PM**

**Place of Auction:-** Godara Yard, Khewat No. 166/1, Near Atul Kataria Chowk, Behind Gyan Devi, School, Sec- 17, Sukhrali, Gurugram- 122022

**Contact Person: Swapnil Upadhyay (8126013708) / Rohit Shrivastava (8657476284)**

**Terms of Sale**

The particulars of the said asset specified herein above have been stated to the best of the information and knowledge of the undersigned, who shall however not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars. The interested participant/s are therefore requested, in their own interest, to satisfy himself / themselves/ itself with regard to the said asset and other relevant details pertaining to it before submitting the bids. All bidders are required to come at auction site with original KYC documents to participate in theauction.

Successful bidder shall have to deposit sale amount within 5 days from the approval date by the way of pay order/demand draft/RTGS/NEFT.

The intending bidders may visit at **ICICI Bank Ltd, Shal tower Plot no. 23, New Rohtak Road Karol Bagh, Delhi- 110005**. for details and inspection of the said hypothecated vehicles.



J&K Bank Serving To Empower

**जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड**

स्पेशल आस्ति पोर्टफोलियो प्रबंधन विभाग

आंचलिक कार्यालय (दिल्ली) प्लॉट नं. 132–134 सेक्टर 44, गुड़गांव

(फोन) 0124-4715800, ई मेल: iapmd.del@jkbmail.com

**ई–नीलामी सूचना**

**(सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु)**

**[परिशिष्ट IV-A, नियम 8(6) परंतुक देखें]**

एतदद्वारा जनसाधारण को एवं विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि नीचे वर्णित सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक है, का **कब्जा, प्रतिभूति लेनदार (जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत लिया गया है, **के कर्जदारों, बंधककर्ताओं और गारंटरों से** सुरक्षित लेनदार की नीचे उल्लिखित राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित तिथियों पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि क्रमशः नीचे वर्णित है।

| | |
|---|---|
| उधारकर्ता / गारंटर का नाम एवं पता | 1. मैसर्स साडी पैलेस, प्लॉट नं. बी–111, बेसमेंट और ग्राउंड, सेक्टर 65, नोएडा, यूपी–201301 (उधारकर्ता) 2. श्री सतिंदर कपूर पुत्र श्री जोगिंदर पाल कपूर निवासी डी–13 आनंद विहार, दिल्ली–110092 (पार्टनर/उधारकर्ता) 3. श्री हरजिंदर सिंह संधु पुत्र श्री सतनाम सिंह संधु निवासी मकान नं. सी–1, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली–110092 (पार्टनर/उधारकर्ता/बंधककर्ता) 4. श्री सुलभ कपूर पुत्र सतिंदर कपूर निवासी डी–13 आनंद विहार, दिल्ली–110092 (गारंटर) |
| सुरक्षित प्रभारित सम्पत्ति का विवरण | साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. बी–17/2 (संपत्ति बी–17/1 से सटी हुई) क्षेत्रफल 451 ½ वर्ग गज, (377.45 वर्ग मी.) जोकि कृष्णा नगर, ग्राम घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 में स्थित यह सम्पत्ति हरजिंदर सिंह संधु पुत्र श्री सतनाम सिंह संधु के नाम पर है। निवासी मकान नं. सी–1, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, शकरपुर, ईस्ट दिल्ली–110092 |
| आरक्षित मूल्य | रु. 427.00 लाख |
| ईएमडी राशि | रु. 42.70 लाख |
| बोली वृद्धि राशि | रु. 2.00 लाख |
| बकाया राशि | रु. 837.41 लाख दिनांक 29.02.2024 तक |
| सम्पर्क व्यक्ति और शाखा का नाम व पता | अल्ताफ अहमद 7006653421 शाखा प्रबंधक: जेएंडके बैंक, द्वारका, दिल्ली |
| ई–नीलामी की तिथि एवं समय | 28–03–2024 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक शाखा प्रबंधक: जेएंडके बैंक, द्वारका, दिल्ली |

**ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:**

1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है" "जैसा है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेज/प्रारूप जिसमें संपत्ति का पूरा विवरण हो और सभी नियम और शर्तें वेबसाइट **"http://sarfaesi.auctiontiger.net"** से प्राप्त और प्रस्तुत की जा सकती हैं (संपर्क व्यक्ति राम शर्मा 9978591888, संपर्क नं.– 079–68136880/68136837 मो. +91 9265562821/18 ईमेल: support@auctiontiger.net)

2.–6. [illegible]

https://sarfaesi.auctiontiger.net

दिनांक: 12.03.2024, ह/– प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय: कॉर्पोरेट मुख्यालय एम.ए. रोड श्रीनगर-190001, जम्मू-कश्मीर, भारत सीआईएन: L65110JK1938SGC000048; फोन: +91(0)194 2481 930-35, फैक्स: +91(0)194 248 1928, ईमेल: info@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.com



**Karnataka Bank Ltd.** 100 Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, 8–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110060

फोन: 011–40591567 (एक्स. 240), ईमेल: delhiarm@kbank.com, वेबसाइट: www.karnatakabank.com, सीआईएन: L85110KA1924PLC001128

**परिशिष्ट IV (नियम 8(1))**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (एक्ट) 2002 (2002 का 54) प्रवर्तन के तहत कर्नाटका बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार / बंधककर्ता और गारंटर (1) मैसर्स फौजदार इंटरप्राइजेज, इसके प्रोपराईर श्रीमती कमलेश देवी द्वारा प्रतिनिधित्व, पता: गांव और पोस्ट जरुआ कटरा आगरा –283102, उत्तर प्रदेश (2) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सचेन्द्र सिंह (3) श्री सचेन्द्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों (2) और (3) पता: जरुआ कटरा, आगरा– 283102, उत्तर प्रदेश को एक मांग सूचना दिनांक **16-08-2023** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु **38,62,179.70** (रु. अड़तीस लाख बासठ हजार एक सौ उनासी और पैसे सत्तर मात्र) अर्थात (i) पीएस ओवरड्राफ्ट ऋण खाता सं. 030700600014201 के तहत रु. **20,84,607.00** साथ में दिनांक 01.08.2023 से भविष्य के ब्याज (ii) पीएस टर्म लोन खाता सं. 030700180007201 के तहत रु. **8,97,733.64** साथ में दिनांक 15.08.2023 से भविष्य के ब्याज (iii) पीएस टर्म लोन खाता सं. 030700180007901 के तहत रु. **5,51,421.06** साथ में दिनांक 01.08.2023 से भविष्य के ब्याज (iv) पीएस टर्म लोन खाता संख्या–030700180008401 के तहत रु. **3,28,418.00** साथ में 01.08.2023 से भविष्य के ब्याज और लागत इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार, बंधककर्ता और गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार, बंधककर्ता और गारंटर, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा(4), उक्त नियमो के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 12 मार्च 2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी कर्नाटका बैंक, आगरा शाखा के प्रभार वास्ते राशि

रु. 41,08,493.70 (रुपये इकतालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरानवे और पैसे सत्तर मात्र) अर्थात (i) पीएस ओवरड्राफ्ट ऋण खाता सं. 030700600014201 के तहत रु. 22,48,055.00 साथ में दिनांक 01.03.2024 से भविष्य के ब्याज (ii) पीएस टर्म ऋण खाता सं. 030700180007201 के तहत रु. 9,35,931.64 साथ में दिनांक 15.03.2024 से भविष्य के ब्याज (iii) पीएस टर्म ऋण खाता सं. 030700180007901 के तहत रु. 5,80,289.06 साथ में दिनांक 01.03.2024 से भविष्य के ब्याज (iv) पीएस टर्म ऋण खाता सं. 030700180008401 के तहत रु. 3,44,218.00 साथ में 01.03.2024 से भविष्य के ब्याज और लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

[illegible]

हस्ता/– कर्नाटका बैंक लि.

स्थान : आगरा

दिनांक: 12.03.2024 मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी


### ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक की हत्या

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मुंशी की पीट.पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को सड़क पर फेंककर हत्यारे फरार हो गए।

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कृष्ण नाम का युवक मुंशी का काम करता था। मंगलवार सुबह उसका शव लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पाया कि उसके सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस द्वारा मौके पर जब जांच पड़ताल की गई तो बताया कि कृष्णा कुछ अपने साथियों के साथ बैठकर रात में शराब पी रहा था। इसी दौरान उन लोगों से उसका विवाद हो गया और विवाद के दौरान ही उन लोगों ने कृष्ण के सिर पर वार भी कियाए जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी उसकी हत्या करने के बाद शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। बीटा 2 पुलिस के द्वारा इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शराब पीने के दौरान कुछ लोगों में विवाद हुआ था।

# रवि काना के अवैध कारोबार का हिस्सेदार सूरज गिफ्तार, बेनामी संपत्ति का है मालिक

- आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 5 करोड़ के 15 ट्रक बरामद किए



पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा में नोएडा स्वाट टीम और ग्रेटर नोएडा के बीटा दो कोतवाली पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना के सबसे करीबी साथी सूरज को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया सूरज स्क्रैप माफिया रवि काना का रिश्तेदार भी है। रवि काना का करीबी आरोपी सूरज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद के गांव भीकनपुर का रहने वाला है। आरोपी सूरज के कब्जे से पुलिस ने 15 ट्रक बरामद किए गए हैं।

बरामद किए गए ट्रक की कीमत पांच करोड़ रुपये है। पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया है कि रवि काना के काले कारोबार में सूरज बराबर का हिस्सेदार है। वह करीब तीन महीने से फरार चल रहा था। अब उसको पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ करने पर यह भी पता चला है कि स्क्रैप के कारोबार में ट्रांसपोर्ट का काम सूरज देखता था। उसके इशारे पर ही सरिया और स्क्रैप से भरे ट्रक धड़ल्ले से फैक्ट्री से निकलते थे। वह ठेका नहीं देने पर फैक्ट्री प्रबंधन को धमकियां भी देता था। पकड़ा गया आरोपी सूरज रावि काना के काले कारोबार में बराबर का हिस्सेदार के अलावा बेनामी संपत्ति का मालिक भी है।

रवि काना ने काले कारोबार से जो अवैध संपत्ति अर्जित उसकी कुछ हिस्सा सूरज के नाम पर है। पुलिस का शिकंजा जब रवि पर कसा तो सूरज ने गोदाम में 15 ट्रक छिपा दिए थे। करीब तीन महीने तक चली छापेमारी के दौरान पुलिस को इन ट्रकों का कुछ पता नहीं चल सका था। अब सूरज की गिरफ्तारी के बाद ट्रक बरामद किए गए है। आपको बता दें कि स्क्रैप माफिया रवि काना अभी भी फरार है। उसकी महिला मित्र काजल झा भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आशंका है कि स्क्रैप माफिया रवि काना और काजल झा दोनों विदेश में भाग गए है। रवि काना पर फिलहाल पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खां ने बताया कि आरोपी सूरज को एटीएस गोलचक्कर के समीप से गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर ही 15 ट्रक बरामद किए गए है।

आरोपी के रिश्तेदार हरवीर द्वारा धर्मवीर से एक करोड़ 65 लाख रुपये में मकान लेना तय किया गया था। 65 लाख रुपये मकान के बैनामे के लिए दिए थे। धर्मवीर द्वारा हरवीर को बैनामे के लिये कहा गया तो हरवीर द्वारा बैनामा नहीं किया गया। उन्होने बताया कि फैसले के बहाने पीड़ित के बेटे को रवि काना की फैक्ट्री ईकोटेक 12 में ले जाया गया था।

आरोप है कि वहां पर सूरज, हरवीर, हरवीर के बेटे विवेक, विकास के अलावा आजाद नागर, राजकुमार नागर, अवध बिहारी, विकास नागर द्वारा पीड़ित के बेटे को बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित के बेटे को मकान व रकम भूल जाने की धमकी दी। सिर्फ यही नहीं 45 लाख रुपये की और रंगदारी भी मांगी। इस संबंध में बीटा दो कोतवाली में केस दर्ज किया गया। इसी मामले में अब सूरज को गिरफ्तार किया गया है।

# नोएडा के पार्क में 10 करोड़ से बनेगा ग्लास हाउस

- डिजाइन तैयार, संरक्षित पौधे उगाए जाएंगे, फ्लावर शो और कल्चरल प्रोग्राम हो सकेंगे

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

आपने ग्लास ब्रिज के बारे में सुना होगा। नोएडा में अब ग्लास हाउस बनाया जाएगा। ये पूरी तरह से कांच होगा। इस हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेस्ट और फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा।

इसमें उन पेड़ पौधों को उगाया भी जाएगा जिनको संरक्षित किया जा सके। पहले फेज में दो स्थानों को चिह्नित किया गया है। जिसमें एक सेक्टर.54 वैटलेंड और दूसरा सेक्टर.94 में प्रस्तावित जापानी पार्क। इसमें किसी एक स्थान पर ग्लास हाउस बनाया जाएगा। तापमान को किया जाएगा मेंटेन सलाहकार कंपनी की ओर से इसका डिजाइन प्राधिकरण को दिया गया है।


प्रतीकात्मक फोटो

इसमें किसी को एक अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद यहां निर्माण होगा। हालांकि इसके निर्माण में एक समस्या सबसे ज्यादा है वो है तापमान की। नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि जिस ग्लास फ्रेम की बात हो रही है। उसमें से धूप की रोशनी सीधे अंदर आएगी और बाहर की तुलना में अंदर का तापमान करीब 10 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में तापमान को किस तरह से मेंटेन किया जाए इस पर काम किया जा रहा है। प्राधिकरण ने बताया कि कई तरह के ग्लास आते है जो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते। लेकिन उनका असर अंदर के पौधों पर क्या होगा। बिना इसे जाने ग्लास पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। प्राधिकरण ने बताया कि जिस कंपनी को सलाहकार के रूप में चुना गया है। उसने उत्तराखंड और अन्य प्रदेश ठंडे स्थानों पर ग्लास हाउस बनाए है। जिससे वहां तापमान का इतना असर नहीं होता। लेकिन नोएडा में तापमान 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है।

इसलिए यहां पूरी रिसर्च के बाद ही ग्लास हाउस बनाया जाएगा। इस ग्लास हाउस को बनाने के लिए प्राधिकरण 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें अनेक शो कराए जाएंगे। जिससे होने वाली आमदनी से इस ग्लास हाउस का रखरखाव किया जाएगा। जल्द ही इस ग्लास हाउस को लेकर कंपनी अपना प्रेजेंटेशन करेगी। जिसके बाद इसे अप्रूवल देकर काम शुरू कराया जाएगा।

# शरणार्थी से भारतीय बनने का सपना साकार होने के करीब

## कानून लागू होने बाद दिल्ली में बसे पाक हिंदू शरणार्थियों में जश्न का माहौल, गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई, पाकिस्तान से एक दशक पहले भारत आए थे

नागरिकता संशोधन अधिनियम

**संजय राय।** नई दिल्ली

शरणार्थी के बीच पहुंची विहिप की कार्यकर्ता।


सीएए लागू होने पर बाद पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी होली मनाते हुए।

ननकी, निवासी मजनू टीला


सोना राम दास, निवासी मजनू टीला

पाकिस्तान में ढाए गए अत्याचारों से खौफजदा हिंदू परिवार भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने से बेहद उत्साहित हैं। उत्तरी दिल्ली के मजनूं का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में ना केवल नई उम्मीद जगी है बल्कि उन्होंने राहत की भी सांस ली है। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि उन्हें काफी मुश्किलों और संघर्ष के बाद भारतीय नागरिक कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीएए-2019 को लागू करने का शनिवार को ऐलान किया था। इसके बाद से पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों ने एक दूसरे को होली से पहले गुलाल लगाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। साथ ही जय श्रीराम के नारे भी लगाए। उन्होंने सीएए लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।

मजनूं का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों के प्रधान के नाम से चर्चित धर्मवीर सोलंकी ने को पायनियर से बातचीत में कहा कि कि समुदाय के लगभग 500 लोगों को अब भारतीय नागरिकता मिलेगी। वह और मेरा परिवार एक दशक से अधिक समय से इसका इंतजार कर रहा था। वह बेहद खुश हैं कि आखिरकार पाक हिंदू शरणार्थियों को अब भारतीय नागरिक कहा जाएगा। उन्हें बेहद खुशी है कि उन्होंने 2013 में घर वापसी का फैसला किया। अब ऐसा लगता है जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। सीएए के लागू होने से यहां रहने वाले लगभग 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को नागरिकता मिल जाएगी।

एक अन्य पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी सोना दास ने कहा कि वह वर्ष 2013 से भारतीय नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं और सीएए के लागू होने से उन्हें भारत में नया जीवन मिलेगा। कई हिंदू परिवारों के साथ वह वर्ष 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेला में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से जोधपुर के रास्ते भारत आए थे। तब सिर्फ 25 दिन का वीजा मिला।

महिला हिंदू शरणार्थि ननकी ने बताया कि वीजा खत्म होने के बाद भारत सरकार ने उन्हें पाकिस्तान भेजना का फैसला किया था लेकिन वह लोग वहां नहीं जाना चाहते थे। इसके मद्देनजर सभी लोग जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे।

बाद में मोदी सरकार ने नरम रूख अपना और सभी दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे रोहिणी सेक्टर 11, 25, आदर्श नगर, सिग्नेचर ब्रिज और मजनूं का टीला रहने लगे। बेहद खुश है कि अब उन्हें भारतीय नागरिक कहा जाएगा। ननकी ने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, भारत की नागरिकता प्राप्त करना एक सपने के सच होने जैसा है।

नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वह भारत सरकार की आभारी है कि उसने हमारी पीड़ा और परेशानी को समझा। एक अन्य पाक हिंदू प्रवासी ने बताया कि तंगहाली के बावजूद हर परिवार के बुजुर्गों, जवानों, महिलाओं और बच्चे यही चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें बसने की इजाजत दे और उनके लिए उचित स्थान मुहैया कराए। दिल वालों की दिल्ली इनके मन को भा गई है और यहां मिल रही मदद से उनकी आंखें नम हैं। यहां रहे सभी परिवार पाकिस्तान में बिताए उन बुरे दिनों की तरफ पलटकर देखना भी नहीं चाहता जब उनका घर से बाहर निकलना दूभर था।

## दिल से हिंदुस्तानी थे अब कानूनी मान्यता मिलेगी: पाकिस्तानी हिंदू

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

### ● पाकिस्तान से आए हिंदू और अफगानिस्तान से आए सिखों ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ मनाई होली-दिवाली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पाकिस्तान से आये हिन्दू और अफगानिस्तान से आये सिख शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद सम्मानित किया और उनकों गुलाल लगाकर होली खेली। शरणार्थियों ने सचदेवा को एक पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पाकिस्तान से आकर वर्षों से मजनूं का टीला पर रह रहे बुजुर्ग गोविंद राम ने कहा की वह गत 4 दशक से दिल से भारतीय थे आज पीमए मोदी की कृपा से कानून भारतीय हो जाएंगे। अब उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर प्रधान मंत्री के सपनों को पंख लगाएंगे। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा भारत सरकार ने आज से शरणार्थियों को भारतीय नागरिक का दर्जा दे दिया है, अब यह घरवाले हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो लोग पाकिसातन से आए उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि बंटवारे के समय उनके हिस्से में पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि वह इस दर्द को समझते है क्योंकि मेरे माता पिता ने 1947 के बंटवारे का दंश झेला और देखा है। सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हम सभी आभारी हैं क्योंकि जो कहा वह करके दिखाया। एक सिख युवक का परिचय कराते हुए भाजपा नेता ने कहा की आज हमारे देश में ऐसे भी शरणार्थी हैं जिन्हें सीएए लागू होने के बाद अब 30 वर्ष की आयु में पहचान मिलेगी। आज लाखों लोगों की आंखों के आसूं पोछने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। यह भावुक पल है और यह कानून जब संसद में पास हुआ तो उसी दिन तय हो गया था कि शरणार्थियों को रहने में जितनी भी कानूनी बाधाएं आ रही थी, अब वह सभी खत्म हो गई है। भारत के विकास में अब पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आए लोग भी अपना योगदान कानूनी रूप से दे सकते हैं। अफगानिस्तान से आ कर तिलक नगर में रह रहे सरदार प्यारा सिंह ने कहा की कभी वे अफगानिस्तान की अर्थ व्यवस्था का पहिया था लेकिन अब पीएम मोदी ने भारतीय नागरिक बना कर भारत की अर्थ व्यवस्था में सहयोग देने का मौका दिया है। वह भारत को अपना सब कुछ देंगे।

# जामिया इस्लामिया विवि के आसपास सुरक्षा कड़ी

### ● राजधानी के अनेक हिस्सों में अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया गश्त और फ्लैग मार्च

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं, दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अर्धसैनिक बल के जवान गश्त और फ्लैग मार्च कर रहे हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि देश में सीएए लागू होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्रों ने सोमवार की शाम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र समूहों ने सीएए लागू किए जाने के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की।

छात्रों ने विश्वविद्यालय के एक गेट के पास संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रदर्शनकारी छात्रों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को रद्द करने और लगभग चार साल पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने की मांग की। सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित हुआ था। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। सीएए के खिलाफ विरोध का केंद्र रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग इलाकों में 2019-20 में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे।

उत्तर-पूर्व दिल्ली में शुरुआत में इस कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा घायल हो गए थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मद्देनजर पुलिस ने उत्तर पूर्व जिले में 43 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सोमवार की रात शाहीन बाग, जामिया नगर और उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। वहीं, मंगलवार को भी गश्त जारी रहा। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) जॉय टिर्की ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बल कड़ी नजर रख रहे हैं। हमने उत्तर पूर्व दिल्ली में 43 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है और इन स्थानों पर रात में गश्त अपेक्षाकृत बढ़ा दी गई है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस का साइबर प्रकोष्ठ सोशल मीडिया मंचों पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों को रोकने के लिए कड़ी नजर रख रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शांति समिति के सदस्यों के साथ कम से कम 29 बैठकें की हैं ताकि लोग सीएए के खिलाफ किसी भी अफवाहों में न आएं।

# अधिसूचना से शाहीन बाग के निवासी नाखुश

**नई दिल्ली।** दिल्ली के शाहीन बाग के निवासियों ने अप्रसन्नता जताते हुए इसके मुस्लिमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से मुस्लिम जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रमजान के पहले दिन इलाके में शांति रही तथा कुर्ता-पायजामा और टोपी पहने लोग दोपहर की नमाज के लिए स्थानीय मस्जिद गए। कई निवासियों ने यह कहते हुए मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया कि वर्तमान शासन के खिलाफ बोलने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक किसी भी अशांति की आशंका को टालने के लिए इलाके में करीब 500 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इलाके में तैनात एक पुलिसकर्मी ने कहा, हमने नियमित गश्त के लिए इलाके में अलग-अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों की टीम तैनात की है। अबतक स्थिति रमजान के कारण भी नियंत्रण में है। हमें किसी आंदोलन की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस अलोकतांत्रिक कानून के खिलाफ उनके अनथक संघर्ष के बाद भी सीएए को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले से वे नाखुश हैं। एक स्थानीय निवासी ने अपनी पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर कहा, रमजान शुरू हो गया है, इसलिए इलाके के अधिकतर लोग तैयारी में व्यस्त हैं। लेकिन अपने दिल में, हमें इस बात की नाराजगी है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

## प्रदर्शन से पहले डीयू में 55 छात्रों को हिरासत में लिया

**नई दिल्ली।** नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में एकत्रित हुए लगभग 55 छात्रों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। वामपंथ से संबंधित ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कई विद्यार्थियों ने सोमवार को केंद्र द्वारा लागू सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। आइसा की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष माणिक गुप्ता ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया, कई छात्र जो विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे और कला संकाय के बाहर सिर्फ खड़े थे उन्हें भी संदेह के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने दावा किया कि विद्यार्थियों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एम के मीणा ने को बताया, हमने एहतियाती कदम उठाते हुए डीयू की सेंट्रल लाइब्रेरी से लगभग 50 से 55 छात्रों को हटाया, जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

## संक्षिप्त समाचार

### पावर ग्रिड ने राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह उत्साह से मनाया

**नई दिल्ली।** पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम ने 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह क्षेत्रीय मुख्यालय, फरीदाबाद में उत्साह के साथ मनाया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के विषय में कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए मानव संसाधनों की संरक्षा पर जोर दिया गया। पावरग्रिड, उत्तरी क्षेत्र प्रथम के कार्यकारी निदेशक एके मिश्रा ने सभी कर्मचारियों को संरक्षा शपथ दिलाई एवं रवीन्द्र नाथ गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक ने संरक्षा दिवस के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी अपील को पढ़ा, जिसके द्वारा सभी कर्मचारियों से सुरक्षा के नियमों विनियमों, कार्य विधियों का अनुपालन पूरी दृढ़ता के साथ करने का आग्रह किया गया।

### गायन और संतूर की जुगलबंदी प्रस्तुत की

**नई दिल्ली।** प्राचीन कला केन्द्र द्वारा त्रिवेणी कला संगम में केंद्र में कलाकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर केंदा के सचिव सजल कौसर भी उपस्थित थे। पारम्परिक द्वीप प्रज्वलन के पश्चात इस सुरीली संध्या का आरम्भ किया गया। कार्यक्रम में निराली कार्तिक (गायन) एवं प्रकृति एवं संस्कृति वहाने (सितार संतूर) जुगलबंदी से दर्शकों को मोहित कर दिया पीजी शिंदे ने सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक में निराली को हिंदुस्तानी संगीत से परिचित कराया। बाद में उन्हें प्रमुख हिंदुस्तानी गायक विकास पारिख से संगीत सीखने का मौका मिला। निराली को पंडित संजीव अभ्यंकर से भी संगीत प्रशिक्षण मिला। शास्त्रीय गायिका निराली कार्तिक द्वारा ने राग पूरिया कल्याण से शुरुआत की गई।

### संजय सिंह की याचिका पर 19 को सुनवाई

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह संजय सिंह की एक याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति, दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि वे सिंह की याचिका पर आज जवाब दाखिल करेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 26 फरवरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

## काला जठेड़ी व अनुराधा चौधरी ने लिए सात फेरे

**नई दिल्ली।** गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज मंगलवार को दिल्ली में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सात फेरे लिए। चौधरी हरियाणा के सोनीपत से एक एसयूवी कार में विवाह स्थल पर पहुंचा।

पुलिस ने द्वारका सेक्टर-3 के संतोष गार्डन इलाके में स्थित बारात घर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। संदीप के वकील ने 51,000 रुपए में बारात घर बुक किया है। पुलिस अप्रिय घटना से बचने के लिए एक योजना बनाई थी। एक समय वांछित अपराधी और सात लाख रुपये के ईनामी रहे संदीप को अपनी शादी के लिए दिल्ली की एक अदालत से छह घंटे की पैरोल मिली थी।

# सरकारी इमारतों पर लगेंगे सोलर प्लांट

### ● ऊर्जा मंत्री ने सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की परियोजना को दी मंजूरी



**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के 500 वर्ग मीटर से बड़े 645 इमारतों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इन सभी सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को इस परियोजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि, सरकारी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने की पहल केजरीवाल सरकार की दिल्ली सोलर पॉलिसी का हिस्सा है। इसके साथ सरकार लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देना है।

दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की इमारतें जिनमें शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो, डीटीएल सबस्टेशन और अन्य इमारतें शामिल हैं, पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएँगे। इस विषय में साझा करते हुए ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि, 29 जनवरी, 2024 को कैबिनेट द्वारा पारित दिल्ली सोलर पॉलिसी को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील पॉलिसी में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पॉलिसी सौर ऊर्जा के रूप में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगी।

यह परियोजना सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस तरह की पहल से सरकारी इमारतों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं हमारा लक्ष्य वर्ष 2027 तक शहर की 25 फीसदी बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न करना है। इस प्रयास का लक्ष्य सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दिल्ली को देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अव्वल बनाना है।

## दावा: पांच के बजाय चार साल में ही लगा दिए दो करोड़ पौधे

### ● दिल्ली में अब ग्रीन कवर बढ़कर 23.6 फीसद हुआ : गोपाल

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि दिल्ली में पांच के बजाए चार साल में ही दो करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। इस तरह केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को दी अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पांच साल के अंदर दो करोड़ पौधे लगाने की गारंटी थी।

पिछले चार साल में 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए हैं। वहीं, बीते वर्ष 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, इसे पूरा करने के साथ ही 35 लाख अधिक पौधे लगा दिए हैं। गोपाल राय पौधारोपण को लेकर सभी सम्बंधित विभागों के साथ मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद राय ने कहा कि दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाकर भी प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर 23.6 फीसद हो गया है, जबकि वर्ष 2013 में यह 20 फीसद था। अगले साल दिल्ली में 63 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 21 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले वित्त वर्ष में पौधारोपण महाअभियान के तहत लगभग 63 लाख पौधे लगाने एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

# डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में डीयू ने बढ़ाये कदम

### ● एनसीडब्ल्यूईबी छात्राओं को रोजगारपरक कौशल बढ़ाने के लिए समझौता साइन

**पायनियर समाचार सेवा।** नई दिल्ली


एमओयू साइन करने के दौरान एनसीडब्ल्यूईबी चेयरपर्सन बलराम पाणी व निदेशक गीता भट्ट व अन्य।

दिल्ली विश्वविद्यालय और एशिया फाउंडेशन ने नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) की छात्राओं के लिए डिजिटल दक्षता और रोजगारपरक कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता साइन किया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस-रीगल लॉज में आयोजित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह में इस महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया जहां सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। साझेदारी का लक्ष्य 20 घंटे के फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एनसीडबल्यूईबी की 1500 छात्राओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करना है जो डिजिटल साक्षरता, रोजगारपरक सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित है।

प्रो. बलराम पाणि (चेयरपर्सन, एनसीडब्ल्यूईबी) ने कहा कि यह पहल हमारी छात्राओं के डिजिटली दक्षता प्राप्ति में सहायक होगा। प्रोफेसर गीता भट्ट (निदेशक, एनसीडब्ल्यूईबी) ने कहा कि कुलपति प्रो. योगेश सिंह के सानिध्य में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु लिए गए प्रयासों में यह समझौता एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। डॉ. विकास गुप्ता (रजिस्ट्रार) ने कहा कि यह समझौता डिजिटली सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। प्रोफेसर संजीव सिंह (निदेशक, दि.वि. कंप्यूटर सेंटर) ने इस तरह की साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला जो रोजगार के नजरिए से महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थायी प्रभाव पैदा करने की अपनी क्षमता पर जोर देता है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न)
सीआईएन : L74899DL1999GOI101707
LiFE

आईआरसीटीसी निम्नलिखित के लिए बोलियां आमंत्रित करता है:–
1. खुली ई-निविदा : विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम के नवीनीकरण, संचालन, रखरखाव और स्थानांतरण हेतु। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.03.2024, 15:00 बजे तक है। और इसे 27.03.2024 पर 15:15 बजे खोला जाएगा।
2. GeM-पोर्टल के माध्यम से दो चरण की खुली ई-निविदा : 500 एमएल रेल नीर की बोतलों के उत्पादन के लिए 2,40,00,000 पीसी पेट प्रीफॉर्म (13.5 ग्राम) की आपूर्ति के लिए। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय 20.03.2024 को 15:00 बजे। ई-मेल: railneemangloi@irctc.com
3. खुली ई-निविदा : दो (02) वर्ष की अवधि के लिए रेल नीर प्लांट, दानापुर के लिए अतलस्का 27 मिमी एचडीपीई कैप की आपूर्ति के लिए। अनुमानित निविदा मूल्य 1.67 करोड़। जमा करने की अंतिम तिथि 23.03.2024 को 15:00 बजे तक। ई-मेल: ggmrailneer@irctc.com
विस्तृत विवरणों के लिए क्र.सं. (1–3) के लिए www.irctc.com, क्र.सं. (1) के लिए www.tenderwizard.com/IRCTC और क्र.सं. (2-3) के लिए eprocure.gov.in/cppp एवं gem.gov.in को देखें। निविदा दस्तावेज डाउनलोडिंग एवं प्रतिभागिता केवल क्र.सं. (1) के लिए www.tenderwizard.com/IRCTC एवं क्र.सं. (2-3) के लिए www.gem.gov.in पर की जा सकती है।
शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे क्र.सं. (1–3) के लिए केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com, क्र.सं. (1) के लिए www.tenderwizard.com/IRCTC और क्र.सं. (2–3) के लिए eprocure.gov.in/cppp एवं gem.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
ecatering.irctc.co.in
कार्यालय का पता: आईआरसीटीसी 11वां तल, स्टेटसमैन हाउस, बी-148, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001, दूरभाष: 011-23311263-64, फैक्स: 011-23311259

# मनोहर लाल के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रगति करेगा हरियाणा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

## मुख्यमंत्री सैनी को नवीन गोयल ने दी शुभकामनाएं

**भारतीय** जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी को व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा अब और अधिक तरक्की करेगा।

नवीन गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए छछरौली से भाजपा विधायक कंवरपाल गुर्जर, बल्लभगढ़ से भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा, रानियां से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला, लोहारू से भाजपा विधायक जेपी दलाल व बावल से भाजपा विधायक डा. बनवारी लाल को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नवीन गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि संगठन में जमीन से जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समय आने पर संगठन बड़ा सम्मान देता है।

सांसद रहते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के पीछे उनका काफी संघर्ष भी है और संगठन में कार्यकर्ता के रूप में कड़ी मेहनत भी है। नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। नवीन गोयल ने बताया कि वर्ष 1996 से लेकर 2000 तक नायब सिंह सैनी ने संगठन के लिए काम किया। वर्ष 2002 में वे बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला से जिला महामंत्री बने थे। वर्ष 2005 में वे अंबाला भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनें। वर्ष 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने थे। वर्ष 2012 में अंबाला भाजपा के जिला अध्यक्ष बनें।

नायब सिंह सैनी का स्वागत करते नवीन गोयल। फाइल फोटो।

वर्ष 2014 में नारायणगढ़ से वे विधायक चुने गए। वर्ष 2016 में हरियाणा में राज्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 2019 में वे भाजपा की टिकट पर ही कुरुक्षेत्र से सांसद बने। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए कही उन्हें पार्टी ने हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें कमान सौंपी। अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। नवीन गोयल ने कहा कि नायब सिंह सैनी पार्टी के लिए सदा वफादार रहे हैं। इसलिए पार्टी ने उनका सदा मान-सम्मान किया है।

# नायब सैनी के सीएम बनने पर बांटी मिठाई, कराया हनुमान चालीसा पाठ

## प्रदेश में बदलाव करके भाजपा ने बड़ा संदेश दिया

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

**कुरुक्षेत्र** से सांसद एवं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में यहां गुरुग्राम सैनी युवा जागृति मंच ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस खुशी में सैनी समाज की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया गया।

नायब सिंह सैनी के सीएम बनने की घोषणा होते हुए यहां जैकबपुरा स्थित सैनी धर्मशाला में गुरुग्राम सैनी युवा जागृति मंच की ओर से मिठाई बांटकर खुशी मनाने का निर्णय लिया गया। संस्था और समाज के मौजिज लोगों की सलाह पर तुरंत समाज के लोगों को धर्मशाला में खुशी मनाने का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्य-संरक्षक सूबे सिंह, सलाहकार बुधराम सैनी, चेयरमैन नरेश कुमार, समाजसेवी नीलम सैनी, समाजसेवी कमलेश सैनी सुरेश गौड़ लक्ष्मी देवी, विनोद सैनी बहादुरगढ़, प्रधान तेजिंदर सैनी, मोहित, तुलसी राम, नानक चंद,काले, हितेश महावीर, कुलवंत, महेंद्र सिंह, भाई गौतम, दुलीचंद ओर समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। गगन दीप सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सैनी समाज ही नहीं, यह ओबीसी समुदाय के लिए खुशी की बात है।

गुरुग्राम के जैकबपुरा स्थित सैनी धर्मशाला में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी मनाते सैनी समाज के लोग।

हरियाणा में यह बड़ा बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संदेश भी दिया है। सैनी समाज की ओर से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ हरियाणा के उन विधायकों का भी आभार जताया है, जिन्होंने विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर सहमति जताई।

# पूजा व करण ने जीती राष्ट्रीय मीडिया फेस्ट में न्यूज रिपोर्टिंग प्रतियोगिता

## विकास कुमार की फोटोग्राफी रही सर्वश्रेष्ठ

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

**राजकीय** महाविद्यालय सेक्टर-9 के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने आर्य कॉलेज पानीपत में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया उत्सव में न्यूट रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी में प्रथम पुरस्कार जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। पूजा कार्की ने रिपोर्टर के तौर पर और करण ने कैमरामैन के रूप में न्यूज रिपोर्टिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन किया।

बीएजेएमसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी विकास कुमार ने फोटोग्राफी में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में लव कुमार ने लेआउट डिजाईनिंग, तरूणा ने आरजे हंट, निधि ने कैप्शन लेखन तथा वरूण ने शार्ट फिल्म प्रतियोगित में भाग लिया तथा बढ़िया प्रदर्शन किया।

राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-9 में विजेता छात्रों के साथ स्टाफ।

महाविद्यालय की प्राचार्या मधु अरोड़ा ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय की गरिमा को उज्ज्वल किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में इसी प्रकार मेहनत करने और शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जनसंचार विभाग के प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों की जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी पुरस्कार हासिल नहीं कर सके वह भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।

इस अवसर पर डॉ. मीनाक्षी दलाल, डा. मीनू शर्मा, डा. ललिता गौड, डॉ. संजय कात्याल, डॉ. राजेश, डा. हरीश कुमार, डॉ. प्रदीप, रवि श्योराण, डा. मुकेश, रीना, विकास बंसल सहित महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों एवं स्टाफ सदस्यों ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

# प्रॉपर्टी मालिक जल्द टैक्स का भुगतान करके पाएं ब्याज माफी व छूट का लाभ

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

**नगर** निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे जल्द से जल्द अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी व छूट का लाभ प्राप्त करें।

निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा एरियर सहित वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट देने का सुनहरी मौका दिया गया है।

जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे तुरंत एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी से प्रॉपर्टी डाटा का अवलोकन करें तथा डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ

निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़।

लेकर टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष कैंप भी लगातार लगाए जा रहे हैं।

इन कैंपों में प्रॉपर्टी डाटा की त्रुटियों को दूर करने, प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने सहित मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ब्याज माफी व छूट सहित उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के औद्योगिक, रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत भवनों तथा खाली प्लाटों वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है।

अगर कोई व्यक्ति हर वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो सरकार द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही लंबे समय तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टीज को सील करके उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके एक ओर जहां आपको ब्याज माफी व छूट का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीलिंग व नीलामी जैसे दंड प्रावधानों से भी बचाव होगा। असकजए 31 मार्च से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जरूर कर दें।

# नायब सिंह सैनी को प्रदेश का सीएम बनाए जाने पर मिठाई बांटकर मनाई खुशियां

सोहना में मंगलवार को नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं जाने पर सैनी समाज के लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हुए।

**सोहना।** हरियाणा में प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनाएं जाने पर सैनी समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। डीजे पर जमकर नाचे और एक दूसरे को बंधाइयां दी।

मंगलवार की सुबह जैसे ही प्रदेश सरकार में राजनीति उठक पटक की हलचल सोशल मिडिया पर आने लगी। वैसे ही सभी की नजरें पूरा दिन लोगों ने राजनीति घटना क्रम को सुनने व देखने के लिए अपना ध्यान टीवी चैनल, सोशल मिडिया पर लगा लिया। दोपहर दो बजे के बाद जैसे ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएं जाने की खबरें आई और मंगलवार की सायं पांच बजे नायब सिह सैनी द्वारा प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने की घोषणा हो गई। वैसे ही स्थानीय सैनी समाज के लोगों ने शहर के शहीद भगत सिंह फव्वारा चैक पर एकजुट हो गए। एक दूसरे को लड्डू खिलाना शुरु कर दिया। आतिशबाजी चलाई गई। डीजे पर जमकर डांस किया। इस अवसर पर नरेश सैनी, तरुण सैनी, हरिओम सैनी, सुरेश सैनी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

# अब सैनी को बनाओ या शाह को जनता अब बदलाव करके रहेगी

**गुरुग्राम।** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने भाजपा द्वारा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि आज हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है यह सब भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा को एक दिन पहले मोदी की फ्लॉप रैली से ही अंदेशा हो गया कि प्रदेश की जनता अब बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया है।

डावर ने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव का मूड बना चुकी है। भाजपा कोई भी बदलाव कर ले उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा अब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए या खुद शाह को, यहां से मुख्यमंत्री बना दे उसका कोई असर अब हरियाणा की जनता में पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि प्रदेश की जनता ने दो बार भाजपा को

पंकज डावर।

मौका देकर देख लिया। यहां की आम जनता को धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। पंकज डावर ने कहा कि एक रणनीति के तहत भाजपा ने गठबंधन छोड़ा है। भाजपा ने उसे अब कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो इस जजपा पार्टी के साथ ना घर के रहे ना घाट के वाली कहावत चीरतार्थ हो रही है। इस पार्टी को अब अपने विधायकों को भी बचाना मुश्किल हो रहा है।

# मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा : कमल यादव

## नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर यादव ने दी हार्दिक बधाई

**गुरुग्राम।** जिला अध्यक्ष कमल यादव ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा समग्र विकास एवं सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा।

कमल यादव ने नायब सैनी के सफल एवं उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत मंगलकामनाएं भी दी हैं। जिला अध्यक्ष ने नवनियुक्त मंत्री कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और डा. बनवारी लाल को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कमल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। भाजपा में कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनते हैं।

कमल यादव ने कहा कि नायब सैनी ने भी कार्यकर्ता से राजनीति में शुरूआत की थी। कार्यकर्ता से नायब सैनी राज्य में मंत्री बनें, सांसद बनें, प्रदेश अध्यक्ष बने और अब शीर्ष नेतृत्व में नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी

नायब सिंह सैनी का स्वागत करते कमल यादव। फाइल फोटो।

है। कमल यादव ने कहा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी सरल स्वभाव के नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यशैली से जल्द ही नायब सैनी कार्यकर्ताओं के दिल की धडक़न बन गए। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों और योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को तरक्की की नई राह पर लेकर जाएंगे।

# प्रदेश सरकार में हुई उथल-पुथल का असर सोहना नगर परिषद तक

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

**प्रदेश** सरकार में हुआ सत्ता परिवर्तन की आहाट का स्थानीय नगर परिषद कार्यालय तक असर हुआ है। जिससे नगर परिषद कार्यालय में इस सत्ता परिवर्तन से दिल की धड़कने तेज हो गई है। राजनीति गतिविधियां गर्म होने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री परिवर्तन घटना कर्म से जहां राज्य की राजनीति में भूकंप आया है। इस भूकंप की आहाट स्थानीय नगर परिषद कार्यालय तक असर हुआ है। जैसे ही मंगलवार की दोपहर दो बजे प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने और नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा हुई। वैसे ही नगर परिषद में राजनीति करने वालों की दिलों की धड़कने तेज हो गई है। राजनीति के इस घटना क्रम होने से स्थानीय नगर परिषद में जनहित में राजनीति करने वालों की नजरें अब नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा गठित किया जाने वाला नया मंत्रिमंडल पर टकटकी लग गई है। क्षेत्रीय राजनीति करने वाले अब अपने आकाएं तलाश में जुट गए हैं। जिससे नगर परिषद कार्यालय में राजनीति गरमाने लगी है।

नगर परिषद के 21 वार्डों में राजनीति करने वाले नेताओं नए आकाओं की कयाश लगाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं मंगलवार की रात को ही नये मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों के वाहनों ने चंडीगढ़ के लिए वाहनों में बैठकर उड़ान भर दी है। कुछों ने तो प्रदेश सरकार में अपना वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जिला व प्रदेश स्तरीय नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाने और फोन से मुबारकबादें देना शुरू कर दिया है।

**खुशी और गम का माहौल :** राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वालों के लिए प्रदेश सरकार की सत्ता परिवर्तन में हुई उथल पुथल से खुशी और गम का माहौल बना गया है। यह उथल पुथल की लहरे नये मंत्रीमंडल बनने तक बरकरार रहेगी। खुशियां मनाने वालों के लिए जश्न मनाने का अवसर है तो गम में डूबने वालों की राजनीति दांव पर लग गई है। यह तो आने वाला समय ही बताएंगा। आगे होता क्या-क्या-क्या ,,,, ।

# प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड शाखा मात्र दो कर्मियों के सहारे

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

**स्थानीय** प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मात्र दो बिक्रेता कर्मचारियों के सहारे खंड स्तरीय शाखा चल रही है। प्रबंधक समेत 7 पद रिक्त पड़े हुए है। जिसके चलते किसानों को दिया ऋण की वसूली करना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड शाखा में प्रबंधक समेत कुल 9 पद स्वीकृत है। जिमसें पांच पद बिक्रेता और एक-एक पद बाबू, सेवादार का स्वीकृत है। जिनमें से मात्र दो ही बिक्रेता शाखा में है। शाखा के अधीन आने वाले 23 गांवों में किसानों की सुविधा के लिए पांच बिक्री केन्द्र है।

जहा से किसान सरकार के द्वारा दी जाने वाले बीच व खाद् को ब्रिकी करते है। जबकि 23 गांवों में 6180 सदस्य ऋण लेने वाले है। जिनसे दिया गया ऋण की तय किस्त की वसूली करनी होती है। सरकार द्वारा समिति के माध्यम से किसान को एक लाख तथा दुकानदार को 10-10

सोहना अनाज मंडी में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड शाखा।

हजार रुपये के ऋण कम से कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं।

**5 करोड़ रुपये की बकाया :** खंड शाखा के अनुसार समिति द्वारा क्षेत्र के दिए गए ऋणों का करीब 5 करोड़ रुपये बकाया है। वसूली करने के लिए कर्मचारी न होने से दिए गए ऋणों की राशि का समय पर वसूनी नहीं हो पा रही है। वहीं शाखा के तैनात कर्मचारी दिए गए ऋणों की राशि में से 85 फीसदी की वसूली करने का दावा कर रहे है।

**स्टाफ का टोटा :** समिति में वर्षों से स्टाफ का टोटा है। उक्त समिति के अंतर्गत 5 बिक्री केन्द्र है। जिसमें अलीपुर, सांप की नंगली, सोहना, खाईका, खेड़ला शामिल हैं। विभाग में मात्र 2 बिक्री कर्मचारी हैं। जबकि एक पद प्रबंधक, 1 बाबू, 1 बिक्री कर्मी, 1 सेवादार का पद वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है। उक्त समिति सी ग्रेड में आती है।

> **समिति** में वर्षों से स्टाफ की कमी है। जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा समिति में ने इस साल रिकॉर्ड 85 प्रतिशत की वसूली की है।
>
> **( अमर सिंह-पैक्स शाखा प्रबंधक )**

# हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनेक ऋण योजनाओं के तहत दे रहा लोन

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

**उपायुक्त** धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। ऋण सहायता से योजनाओं के तहत अनेक प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। जरूरतंद लोगों को इन ऋण सहायता योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एंव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये तक हो तथा उनका नाम बीपीएल सर्वेक्षण सूचि में अंकित होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार के लिए पशुपालन, हथकरघा, किरयाणा की दुकान, कपड़े की दुकान, ऑटो रिक्शा/साइकिल मुरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाना,

चमड़ा और चमड़े के कार्य, फोटोग्राफी तथा ओटो रिक्शा इत्यादि के कार्य शुरू करने के लिए 1.50 लाख रुपये तक के ऋण सब्सिडी के साथ दिलवाया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तिय सहयोग से राज्य के सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रित जो किसी प्रकार के सैनीटेशन यानि सफाई कार्य में लगे हुए हैं उनको ऋण मुहैया करवाया जाता है। इसी प्रकार से बैंडबाजा, फोटोग्राफी, ब्यूटीपार्लर, बुटिक, दवाईयों की दुकान, स्टेशनरी/किताबों की दुकान, फर्नीचर अथवा ईमारती लकड़ी का कार्य, मुर्गी पालन, आटा चक्की, कम्प्यूटर का कार्य, फोटोस्टेट-कम-एसटीडी और ओटो रिपेयर के लिए दो लाख रूपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भैंस पालन, सूअर पालन व भेड़ पालन के लिए भी ऋण मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए जैसे मोटर साइकिल के पुर्जे बनाना, आटा चक्की, माचिस बनाना, चमड़ा व चमड़े के कार्य, लेद्दर कार्य, लकड़ी का काम-आरा मशीन, साबुन बनाना, मोमबती बनाना, टायर रिट्रेडिंग, दरी बनाना, पॉलीथीन व कागज आदि के कार्य करने के लिए भी ऋण सहायता मुहैया करवाया जाता है।

उन्होंने बताया कि व्यापारिक क्षेत्र में चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, पान की दुकान, आटो रिक्शा की दुकान, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, कपड़े की दुकान, दवाईयों की दुकान, फलों की दुकान, खेल के सामान की दुकान, क्रोकरी की दुकान, सीमेंट की दुकान, जूता मरम्मत, किरयाणा की दुकान आदि के स्वरोजगार अपनाने हेतू ऋण सहायता दी जाती है। यह ऋण सहायता पर सब्सिडी भी दी जाती है और आसान किश्तों में देय करनी होती है।

# ऑनर किलिंग मामले में आरोपियों का दो दिन रिमांड और बढ़ा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

## पुलिस गहनता से कर रही पूछताछ

**अदालत** ने ऑनर किलिंग मामले में हत्यारोपियों का रिमांड दो दिन और बढ़ा। ऑनर किलिंग मामले में संलिप्त आरोपियों को अदालत ने तीसरी बार रिमांड बढ़ाया है। पुलिस संदिग्ध हालात में हुई 18 वर्षीय युवती की मौत को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है।

सदर थाना पुलिस ने खेड़ला निवासी 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालत में हुई हत्या के आरोप में आरोपी पिता, पिता का चचेरा भाई और भतीजे को तीन दिन के रिमांड के बाद मंगलवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की मांग पर दो दिन रिमांड पर भेजा दिया है। पुलिस ने हत्यारोपियों को अदालत से तीसरी बार रिमांड बढ़वाया है। आरोपियों को अदालत गुरुवार को दो दिन के रिमांड के बाद चैथी बार अदालत में पेश करेगी। पुलिस ने हत्यारोपियों को पहली बार 6 मार्च को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करते हुए चार दिन की रिमांड पर लिया था। चार दिन तक पूछताछ करने के बाद अदालत ने 9 मार्च को अदालत में पेश किया। लेकिन मामले में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने पर तीन दिन का रिमांड मांगा गया।

अदालत ने शनिवार को पुलिस की मांग को स्वीकारते हुए तीन दिन का रिमांड दे दिया था। सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को तीसरी बार अदालत में पेश किया। लेकिन ऑनर किलिंग मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपियों की गई पूछताछ में भी एक बार फिर से पुलिस के हाथ खाली रह गए और दो दिन का रिमांड माग लिया। अब पुलिस गुरुवार को फिर से दो दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश करेगी। अब देखा यह होगा कि पुलिस दो दिन में ऑनर किलिंग मामले के आरोपियों से की जाने वाली पूछताछ में संतुष्ट हो पाएगी या और रिमांड मांगेगी।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 13 मार्च, 2024



# क्रिकेट लीग-2024 में आरएस राठौड़ एकादश ने जीती ट्रॉफी

## श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में स्टाफ क्रिकेट लीग-2024 आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



**श्री विश्वकर्मा** कौशल विश्वविद्यालय में स्टाफ क्रिकेट लीग-2024 का आयोजन किया गया। प्रोफेसर आरएस राठौड़ एकादश ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि कुलपति डॉ. राज नेहरू एकादश दूसरे स्थान पर रही। सुंदर खुटेला ने मैन ऑफ दा सीरीज की ट्रॉफी जीती और वह दो मैच में मैन ऑफ दा मैच भी रहे।

कुलपति डॉ. राज नेहरू चार विकेट लेकर मैन ऑफ दा मैच बने। समापन पर सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। इससे पूर्व फाइनल मुकाबले में डॉ. राज नेहरू एकादश ने 20 ओवर में विरोधी टीम के समक्ष जीत के लिए 96 रनों का लक्ष्य रखा। प्रोफेसर आरएस राठौड़ एकादश ने 17वें ओवर में इस लक्ष्य को 2 विकेट रहते हुए पूरा कर लिया। कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में विश्व स्तरीय खेल परिसर बनकर तैयार हो गया है। आने वाले दिनों में स्टाफ और विद्यार्थियों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। डॉ. राज नेहरू ने विजेता टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल से टीम भावना बढ़ती है। इसी भावना का कार्यस्थल पर भी विकास करना जरूरी है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ यह आयोजन करवाया गया है। अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर आर एस राठौड़ ने जीत पर अपनी टीम की पीठ थपथपाई। छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं खेल निदेशक प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली चारों टीमों के सदस्यों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए विकासात्मक गतिविधियों को और तेज किया जाएगा। उप कुलसचिव डॉ. ललित शर्मा ने सभी का आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर मैच रेफरी डॉ. जलबीर सिंह आदि मौजूद थे।

# संक्षिप्त समाचार

## शिकायतों का समयबद्ध तरीके से हो निपटान



**पलवल।** मुख्यमंत्री के सलाहकार सेवानिवृत्त देवेंद्र सिंह ने जिला सचिवालय के सभागार में जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के तत्परता से समाधान को लेकर जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन सभी शिकायतों का समय पर निपटान करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र सिंह ने भी अधिकारियों के साथ जनसंवाद पार्टल के संबंध में चर्चा की। समीक्षा बैठक में देवेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपस में तालमेल बनाकर पूर्ण करवाएं। वहीं विभागीय अधिकारी विकास कार्यों को पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट करते रहें। इस अवसर पर जिला के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रागी, एसडीएम पलवल नरेंद्र सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संजय सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, जिला सिविल सर्जन डॉ. नरेश गर्ग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

## वेट लिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन 18 से



**पलवल।** जिला खेल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय सिविल सेवा वेट लिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक महिला एवं पुरूषों की प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 18 मार्च से 22 मार्च तक गृह कल्याण केंद्र राजा बाजार 79-बंगला साहिब लेन ब्लॉक-58 कनॉट प्लेस नई दिल्ली में करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य की ओर से भाग लेने वाले वेट लिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों का चयन 13 मार्च को जिला भिवानी में किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया है कि इच्छुक अधिकारी अथवा कर्मचारी इस चयन स्पर्धा में सुबह 10 बजे तक निर्धारित स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। हरियाणा सिविल सेवा प्रतियोगिता से संबंधित सभी हिदायतें सिविल सर्विस की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।

## ट्रेनों से यात्रियों का लैपटॉप, मोबाइल और कैश चुराया

**पलवल।** ट्रेनों में यात्रा करने वालों के बैग, सामान व पर्स चोरी होने की वारदात दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। जीआरपी थाना फरीदाबाद ने इसी प्रकार तीन यात्रियों की शिकायतों परचलती ट्रेन से बैग, नकदी, मोबाइल फोन व पर्स चोरी होने के मुकदमे दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जीआरपी थाना प्रभारी राजपाल के अनुसार, सेक्टर-सात विकार कॉलोनी आगरा निवासी मधुर सोलंकी ने दी शिकायत में कहा है कि वह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फगवाडा जंक्शन से आगरा कैंट जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी आंख लग गई और जब पलवल स्टेशन पर आंख खुली तो देखा की उसका सामान चोरी हो चुका था। जिसमें उसका एक एचपी लैपटॉप और जरूरी कागजात थे।

# जॉब फेयर के साथ दीक्षांत समारोह और सम्मिट का होगा आयोजन

## एमवीएन में तीन कार्यक्रमों के लिए प्रेस कांफ्रेंस आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। पलवल



**एमवीएन** विश्वविद्यालय में 14,15,16 मार्च को होने वाले तीन कार्यक्रमों अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस, जॉब फेयर कम एचआर सम्मिट और दीक्षांत समारोह के लिए प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मीडिया प्रभारियों के द्वारा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराना था। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र में नए अवसरों के बारे में अवगत कराना है। कांफ्रेंस के मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद दत्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, सिस्टॉपिक, बीके सीकरी, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेनर, डॉक्टर मोंटू पटेल, अध्यक्ष पीसीआई, धनेश अधलक्खा, अध्यक्ष एचएसपीसी, डॉक्टर अतुल नासा, अध्यक्ष आईपीजीए रहेंगे। दूसरे कार्यक्रम जॉब फेयर कम एचआर सम्मिट के बारे में बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य न केवल एमवीएन बल्कि दूसरे संस्थानों के विद्यार्थियों को भी रोजगार दिलाना है। उन्होंने बताया कि तीसरे कार्यक्रम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केके अग्रवाल, विद्यार्थियों को डिग्री और मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल देंगे। प्रबंधक संचालक कांता शर्मा, कुलाधिपति वरुण शर्मा, उप कुलपति डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, फार्मेसी डीन डॉक्टर तरुण विरमानी मौजूद थे।

# फरीदाबाद की 20 कॉलोनियां होंगी वैध, मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

## डीटीपी ने वैध करने का प्रस्ताव भेजा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



**केंद्रीय** नगर योजनाकार द्वारा शहरी क्षेत्र से बाहर बसी हुई कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने हाल में ही राजस्व संपदा में बसी 30 कॉलोनियों को नियमित किया था। ताकि, लोगों को वहां पर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अब जिला नगर योजनाकार की ओर से सरकार को 20 नई कॉलोनियों का प्रस्ताव भेजा गया है।

यह कॉलोनी गांव की राजस्व संपदा में बसी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है सरकार की ओर से 20 कॉलोनियों को जल्द ही वैध कर दिया जाएगा। इससे पहले सरकार नगर निगम की जमीन पर बसी 104 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है।

गांव की कृषि जमीन पर बसने वाली कॉलोनियों में लोगों को प्लाट तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जगह अप्रूव नहीं होने की वजह से तोड़फोड़ का डर सताता रहता है। ऐसी कॉलोनियों में जिला नगर योजनाकार की ओर से आए दिन तोड़फोड़ कर दी जाती है। इससे लोगों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

वहीं ऐसी कॉलोनियों में प्रदेश सरकार की ओर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इन कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइन नहीं डाली जाती। जिला नगर योजनाकार की ओर से जिन कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 25 से 30 प्रतिशत की आबादी बसी हुई हैं।

इन कॉलोनियों को वैध करने के बाद सरकार की इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू करवाएं जाएंगे। इन कॉलोनियों को लेकर जिला नगर योजनाकार की ओर से सरकार को यह भी जानकारी भेजी गई है कि किन किन चीजों की कमी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कॉलोनियों को वैध करने के बाद इन कॉलोनियों में सीवर, पानी, बिजली का प्रबंध हो इसके अलावा सामुदायिक भवन, पार्क आदि की भी व्यवस्था की जाए। उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों के बाद इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू हो सकता है।

# टेढ़े पैर वाले बच्चों का किया जाता है इलाज : डॉ. रामेश्वरी



**पलवल।** राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वाधान में सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार गर्ग के दिशा निर्देशन व डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामेश्वरी के मार्गदर्शन में डीईआईसी द्वारा क्लब फुट यानी पैर के पंजे का अंदर की तरफ मुडा होना से ग्रस्त बच्चों के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नोडल अधिकारी एवं हड्डी रोग सर्जन डॉ. दिनेश सोनी की देखरेख में डॉक्टर लितेश मलिक द्वारा क्लब फुट वाले बच्चों के पैरों में प्लास्टर लगाए गए तथा अनुष्का फाउंडेशन द्वारा बच्चों को ब्रास व जूते वितरित किए गए। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामेश्वरी ने बताया कि क्लब फुट एक ऐसी विकृति है, जिसमें बच्चा बड़ा होकर चल फिरने, खेलकूद व दौड़ लगाने में असमर्थ रहता है तथा दैनिक कार्य करने में असमर्थ रहता है। लेकिन क्लब फुट की विकृति को ठीक होने के बाद बच्चा अपने दैनिक कार्य व खेलकूद में भाग लेकर व अपने सारे दैनिक कार्य करने में समर्थ हो जाता है व सामान्य जीवन जीता है। इस अवसर पर डॉ. साक्षी शर्मा ने माताओं व अभिभावकों को जन्मजात रोगों के बारे में भी जागरूक किया तथा अभिभावकों को प्रत्येक सोमवार क्लब फुट वाले बच्चों का इलाज करवाने की सलाह दी।

# धूम्रपान से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



**धूम्रपान** से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व में हर साल 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। धूम्रपान से हृदय को होने वाले नुकसान पर जानकारी देते हुए मैरिंगो एशिया अस्पताल फरीदाबाद से कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. राकेश सपरा ने कहा कि धूम्रपान केवल फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपके हृदय में रक्त के प्रवाह को भी कम कर देता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग से कोरोनरी धमनियों में रुकावट और सिकुडन बढ़ जाती है। धूम्रपान के कारण धमनियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करने से हृदय की कार्यक्षमता समय के साथ खराब हो जाती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग (धूम्रपान करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े गए धुएं के संपर्क में आना) भी आपके हृदय को प्रभावित कर सकती है। दुनियाभर में ई-सिगरेट पीने का चलन बढ़ रहा है, जिसे धूम्रपान के नए ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है। ई-सिगरेट का इस्तेमाल भी आपके दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि निकोटिन केवल सामान्य सिगरेट के अंदर ही होता है और ई-सिगरेट में नहीं होता है, तो ऐसा सोचना गलत है।

# जीवन ज्योति स्कूल का मनाया 25वां स्थापना दिवस

पायनियर समाचार सेवा। पलवल



**जीवन** ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल का 25वां स्थापना दिवस पूजा-हवन कर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जीवन ज्योति शिक्षा समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र गहलौत, चेयरमैन बीरपाल गहलौत, रंजीत गहलौत, बलजीत गहलौत, अशोक गहलौत, प्रदीप गहलौत, वेदवती, सविता देवी, दीपिका, बिंदिया, सुमन तथा शालू ने पूजा-हवन में भाग लेकर संस्था तथा स्कूल की चिरायु की कामना की, सभी ने आहुति दी।

पूजा-हवन में यजमान की भूमिका प्रदीप गहलौत व उनकी पत्नी शालू ने निभाई। पूजा-हवन में 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर चेयरमैन के पिता श्याम सिंह गहलौत व उनकी माता भी उपस्थित रही। पूजा-हवन में स्कूल प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार, जितेंद्र फोगाट, अभिनंदन गुप्ता तथा स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने स्कूल की मंगल कामना की और पूजा-हवन में समस्त स्टाफ ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रबंधक ने स्कूल के स्टाफ को स्कूल के स्थापना दिवस के विषय में विस्तार से बताया। जीवन ज्योति स्कूल का अंतरण दिवस 12 मार्च 1999 था। तभी से जीवन ज्योति स्कूल निरंतर जिला पलवल में रिजल्ट के माध्यम से पहचान बनाऐ हुए है। यह स्कूल लगातार प्रगति के पथ पर कार्य करता जा रहा है। जीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल बेहतर सुविधाएं दे रहा है।

# पुलिसकर्मियों पर चालान काटने के दौरान मारपीट का आरोप

**फरीदाबाद।** हार्डवेयर चौक पर सोमवार देर शाम यातायात पुलिस ने एक युवक को वाहनों की जांच के लिए रोक लिया। युवक की कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। युवक का आरोप है पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उत्कर्ष नाम के युवक ने बताया उसे पुलिस ने कार के शीशे पर काली फिल्म लगे होने के कारण रोका था। उसने चालान काट रहे पुलिसकर्मियों से कहा उसके पास नकद पैसे नहीं हैं। वह अदालत में चालान का भुगतान कर देगा।

# सूर्य नमस्कार के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा

## एस्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद




**एस्लॉन** इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद ने गर्व से हर घर परिवार सूर्य नमस्कार प्रोग्राम का आयोजन किया। जो हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है। जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली के गहन ज्ञान को अपनाना है।

इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समग्र कल्याण और परंपरा के मूल्यों को स्थापित करने के लिए सूर्य नमस्कार के कालातीत अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। आयुष संगठन के योग शिक्षक पूनम शर्मा और अभिषेक शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार के महत्व के बारे में बताया और विभिन्न योग आसनों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। प्रदर्शन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा, संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल में स्थापित एक नए सौर वॉटर हीटर के उद्घाटन के साथ यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह सतत योगदान के साथ एकरूपता रखता है, जो एस्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पर्यावरण चेतना और प्रौद्योगिकी नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।समारोह में प्रथम वर्ष के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील वर्मा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर एमके सैनी, सोशल क्लब कोऑर्डिनेटर डॉ. पूनम मल्होत्रा और सभी विभागों के अध्यक्षों की उपस्थिति रही। जिन्होंने योग शिक्षिका और शिक्षक को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया। अपने समापन भाषण में, एस्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक (प्रथम वर्ष) प्रोफेसर वर्मा ने भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।


**PUBLIC NOTICE**

To, be known to all that my client, **SHRI VIRENDER MOHAN KACHROO alias V.M. KACHROO S/O LATE TRILOKI NATH KACHROO alias T.N. KACHROO R/O HOUSE NO.863, BLOCK-I, ANSAL PALAM VIHAR, GURGAON, CHOMA (62), HARYANA-122017. and others, are the owners of DDA SFS FLAT NO.456, THIRD FLOOR ALONGWITH SCOOTER GARRAGE, POCKET-GH-13, CATEGORY-II, SITUATED AT PASCHIM VIHAR, NEW DELHI, VIDE DDA FILE NO.** F.136(47)89/SFS/PA/II. The original documents i.e. Original **DEMAND LETTER, ALLOCATION/DEMAND LETTER, 5TH & FINAL POSSESSION LETTER, NOC FOR WATER & ELECTRICITY CONNECTION and SITE POSSESSION SLIP** of the above said property have been lost or misplaced by my client and is not traceable inspite of his best efforts. An F.I.R./NCR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi (LR No.1522653/2024 dated 07.03.2024). Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.99868563938 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (LAB Housing) SFS or Director (Housing), Vikas Sadan, New Delhi.

**Naveen Aggarwal (Advocate)**
Ch.No. M-7, Near SBI, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

**PUBLIC NOTICE**

To be known to all that **I MADHU MALHOTRA W/O SH. T.N. MALHOTRA R/O HOUSE NO. 64, POCKET-7, SECTOR-2, ROHINI, DELHI-110085 is the owner of Property No.64, PKT-7, SEC-2, IN ROHINI RESIDENTIAL SCHEME,ROHINI,** DELHI has applied for conversion of the aforesaid property from lease hold to free hold in DDA. The original 'D' Form of the above plot have been lost. An FIR/NCR to this effect has lodged in P.S. Crime Branch,Police Station, New Delhi, vide FIR/NCR S.O.No.430/2014 dated 11.03.2024, LR No.1535323/2024. Any person (s)claiming any right,interest,having any objection or found in possession of original documents,may write/contact with above named person at above address/phone No. 9716032478 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to **Dy. Director(LAB) R, Block C-3, 3rd Floor, or Director(R),A Block,Vikas Sadan,INA,New Delhi.**

**PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to public at large that my client Smt. Sarika Devi who is the owners of Plot area measuring 68.66 Sq.Yds , Property ID No. 1CT1B241, Situated at Khasra No. 24//16/6, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14 waka Siwana Mauza Village Kadipur Hal Colony Gandhi Nagar, Sub-Tehsil Kadipur Distt. Gurugram, Haryana , by virtue of Sale Deed dated 27.09.2023 and intend to get the financial assistance from Shriram Housing Finance Limited. If any person(s) /Institution has/have any objection(s) or claim(s) with respect to the right, title or interest in the said property may please contact us within 07 days from the date of this notice on the address mentioned herein below, failing which my client(s) shall not be held responsible in any manner whatsoever.

**Khaitan & Khaitan**
**A-38 Kailash Colony, New Delhi-110048, Ph. No: 011-49774545**

**LOST & FOUND**

I, Mr. Manuj Chaudhary S/O Surendra Singh, R/o H.No. 751, South Civil Lines, Gulab Niwas, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India-251001 allottee of flat no. 904, Tower-07 in Project namely Urban Homes (Customer id-UB/1377 ) in Village-Palra, Sector-70A, Gurugram, Haryana, India, PIN-122001. I am residing at H.No. 751, South Civil Lines, Gulab Niwas, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India-251001. I have lost my original documents Allotment Letter. For which FIR has been lodged. If found Please contact Manuj Chaudhary at +919650012062

**सार्वजनिक सूचना**

मेरी मुवक्किल, श्रीमती लक्ष्मी देवी मंगला पुराने नंबर वाली दुकान 1729, और नई संपत्ति आईडी: 3पी6जी54टी2, जिसका क्षेत्रफल 41 वर्ग गज, वाका मौजा मोती बाजार, (सदर बाजार किशनगंज का मीनार गेट), लाल डोरा की आबादी के अंतर्गत पलवल नगर निगम, तहसील और जिले पलवल, हरियाणा के अंतर्गत स्थित संपत्ति की मालिक हैं। श्री राजेंद्र कुमार गौर, डॉ. रवींद्र कुमार गौर और श्री शैलेन्द्र कुमार गौर द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर दस्तावेज संख्या 7914, दिनांक 02.11.2023. यह संपत्ति विक्रेता के स्वामित्व में थी, पंजीकृत वसीयत दिनांक 25.04.2013 के तहत श्री लालचंद शर्मा द्वारा विक्रेता के पक्ष में दस्तावेज संख्या 55 के तहत निष्पादित की गई थी। यह संपत्ति एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के पास बंधक होने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/अधिकार, ग्रहणाधिकार, कोई आपत्ति है, तो उसे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर पंजीकृत अधिवक्ता के माध्यम से सलाहकार/अधोहस्ताक्षरी विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092 के पते पर सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर दिया गया माना जाएगा। **एडवोकेट विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092, मोबाइल 9811215181**

**PUBLIC NOTICE**

THIS IS INFORMED TO PUBLIC AT LARGE THAT MY CLIENT ASHOK SAMRAT BAKSHI S/O LATE G.R.BAKSHI R/o G-176, PALAM VIHAR, GURUGRAM, HR.122017, PRESENTLY AT DELHI HAS DEBARRED AND DISOWNED HIS SON SUMIT BAKSHI R/o 901-902, LAVENDER TOWER, OMAXE GREEN VALLEY SOCIETY, FARIDABAD, HR. FROM ALL HIS MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES AND ALSO SEVERED RELATIONS FROM HIS SAID SON. IF ANYBODY DEALS WITH SAID SUMIT BAKSHI, THEN HE/SHE SHALL DO SO AT HIS/HER OWN RISK, COST AND CONSEQUENCES. MY CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACT OF SAID SUMIT BAKSHI.

**S.K.TYAGI ADVOCATE**
Ch. No. K-7, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

**PUBLIC NOTICE**

To be known to all that **I, AMIT SAIN TULI, S/o SH. RANJIT SAIN TULI, R/o MIG FLAT NO. AG-I/53-D,THIRD FLOOR,VIKAS PURI,NEW DELHI-110018 has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide File No.M.18(1605)85/VP/NP in DDA.** The original documents i.e. Demand-cum-allotment Letter of the above said flat has been lost.An NCR/LR No.1522286 dated 07.03.2024 to this effect has been lodged in P.S.Crime Branch,Delhi.Any person(s) claiming any right,interest,having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9990066691 within 15 days from the date of publication of this notice.The person claiming any right, interest,objection with respect to this property, can personally inform or write to **Deputy Director(LAB) Housing or Director (Housing),D Block, Third Floor,Vikas Sadan, New Delhi**

**PUBLIC NOTICE**

Be it known to all concerned that my Client Mayank Pant S/o Nityanand Pant R/o. A-6, First Floor, Anand Vihar Colony, Delhi-110092 (Aadhar Card No. 6737 9298 6906) has lost the Original Interim Possession Letter, Allotment Letter, Share Certificate of CCSE Sahkari Awas Samiti Ltd Area 1770 Sq. Ft. (super built up) of this Flat No. H-704, (which is injoint possession of Shri Malay Pant and Shri Mayank Pant) Vrinda Society, CCSE Sahkari Awas Samiti Ltd, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, UP. My Client also lodged an online FIR for the same in the P.S. Crime Branch, Delhi on Dated 06.08.2021 vide LR No. 549100/2021.

If anybody finds it please return or call at Mob. No. 9871972207 or contact me at the following address. If any person (s) has/have any claim/objection in the above said property he/she/they should contact with valid document proof within **15 days** from the date of publication. Any claim therefore shall be treated as null and void. **Sd/-**

**PRAVEEN RASTOGI (Advocate)**
**ENRL.No.D-244/06**
**RZ-97, Khushi Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, Mob: 9810986643**

**सार्वजनिक सूचना**

मेरा मुवक्किल, श्री सौभाग्य सिंह यादव पुत्र स्व. हरनंद सिंह निवासी सी-2, महारानी एन्क्लेव हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के मालिक है और उसके पास प्लॉट नंबर 261, क्षेत्रफल 325 वर्ग गज. खसरा नं. 47/3/4, से ग्राम हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित की संपत्ति है। नोटरीकृत जीपीए के आधार पर दिनांक 15.09.1992। यह उपरोक्त संपत्ति श्री नागेंद्र पंडित को बेची जा रही है और इसके लिए पार्टियों के बीच दिनांक 22.01.2024 को एटीएस निष्पादित किया गया है। उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के लिए मेरे मुवक्किल द्वारा निष्पादित यह एकमात्र समझौता है और यह संपत्ति एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के पास बंधक होने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/अधिकार, ग्रहणाधिकार, कोई आपत्ति है, तो उसे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर पंजीकृत अधिवक्ता के माध्यम से सलाहकार/अधोहस्ताक्षरी विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092 के पते पर सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर दिया गया माना जाएगा। **एडवोकेट विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092, मोबाइल 9811215181**

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that my client Munish Abrol is in process to purchase the Entire First Floor without roof rights built on Property bearing No. G-15, area measuring 127 sq. yards situated at Block-G, Village Basaidarapur, colony known as Mansoarover Garden, New Delhi (availing loan from TCHFL) from Vimmy Joshi, who acquired the same vide Relinquishment Deed dated 02.01.2024 (Doc. No. 2024/22/167) executed by Mr. Vidith Joshi and Relinquishment Deed dated 29.9.2016 (Doc. No. 9403) executed by Divyanshu Joshi (all are the legal heirs of late Deepak Joshi, who acquired the same vide Sale Deed dated 03.05.2005 (doc. no. 13059)
All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned. **Kamal Kant Gupta (Advocate)**
Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that my client Kartik Mittal is in process to purchase (availing loan from TCHFL) the House no D-647 (property id is 619B 200310500) area measuring 91.66 sq. yds out of 128 sq. yds. situated in Ballabhgarh (Chawla colony Ballabhgarh), Tehsil Ballabhgarh, District Faridabad, Haryana from Gurdev Singh, whereas he has lost an Original Sale Deed dated 12.07.1972 in favour of Gurdev Singh (doc no 2532) pertain to the said property, an FIR has already been lodged for that on dated 11/3/2024
All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned.

**Kamal Kant Gupta (Advocate)**
Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

**भौतिक कब्ज़े की सूचना**

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

**जबकि**

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्जदार और डीएचएफएल के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध में प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में, निम्नवर्णित कर्ज़दारों को (बुनियादी समूह दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित किए जाने पर) माँग सूचनाएँ जारी की थीं, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की माँग की गई थी।

कर्ज़दार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्ज़दार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

| क्र. | कर्ज़दार का नाम/ (ऋण खाता नंबर) (डीएचएफएल पुराना ऋण खाता नंबर एवं आईसीआईसीआई नया ऋण खाता नंबर) | संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि | माँग सूचना की तिथि/ माँग सूचना में राशि (रु.) | शाखा का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संतोष कुमार सिंह/ ब्यूटी सिंह (26600001408 और QZDEL00005022237) और आरजेड सी 10, पहली मंजिल, विष्णु गार्डन, दिल्ली- 110018 | एफ-159-ए, बिना छत वाली पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 159, ब्लॉक-एफ में स्थित, गली नंबर 2, खसरा नंबर 31/19, 22, ग्राम ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली)/ मार्च 08, 2024 | अगस्त 20, 2020 रु. 18,77,000/- | दिल्ली/ एनसीआर |

उपरोक्त दर्शाए गए कर्जदार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

**दिनांक: मार्च 13, 2024**
**स्थान :** दिल्ली/ एनसीआर

**प्राधिकृत अधिकारी**
**आईसीआईसीआई बैंक लि.**

**भौतिक कब्ज़े की सूचना**

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020 सीआईएन नंबर: 65190199402101 2, www.icicibank.com

**जबकि**

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

| क्र. सं. | कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र. | संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि | डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.) | शाखा का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निरंजन सिंह/ गुरिया देवी/ ग्राम एवं पो. सैद सराय, पी.एस. गरखा जिला छपरा, सारण बिहार, छपरा- 841301/ LBPTN00002925544 | तौजी नंबर 4042, वार्ड नंबर 36, सर्किल नंबर 6, होल्डिंग नंबर 482, मुहल्ला आर्यनगर इमामगंज, मौजा आर्यनगर इमामगंज, पी.एस. छपरा टाउन, पीआर. चिरांद, नगर पालिका छपरा, ब्लॉक और उप-रजिस्ट्री छपरा, जिला छपरा सारण, बिहार, छपरा- 841301/ क्षेत्रफल 03 कथा 08 धुर 1360 वर्ग फीट में एक मंजिला भवन निर्माण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि 07.03.2024 | 12-06-2019 रु. 28,18,328/- | दिल्ली |

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

**दिनांक : मार्च 13, 2024**
**स्थान :** दिल्ली

**प्राधिकृत अधिकारी**
**आईसीआईसीआई बैंक लि.**

# मुक्त व्यापार समझौता

## महत्वपूर्ण कदम

**यूरोपीय** मुक्त व्यापार एसोसियेशन द्वारा भारत के साथ 'असाधारण' समझौते पर हस्ताक्षर करने से लगभग एक मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे। 'कभी नहीं से देर भली' कहावत पर अमल करते हुए भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार असोसियेशन-ईएफटीए ने 16 साल लंबी चली वार्ता के बाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय समूह के चार सदस्य देशों-स्विटजरलैंड, नार्वे, लिकेन्स्टीन तथा आइसलैंड के साथ 100 बिलियन डालर का यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। समझौते के अंतर्गत भारत अगले 15 वर्षों में निवेश के बदले में इन देशों के औद्योगिक उत्पादों से अधिकांश आयात कर हटा लेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अनेक विश्लेषकों ने इस समझौते को 'असाधारण' बताया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों में व्यापार शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार की बाधायें तोड़ना, नियामक ढांचे को सहज बनाना तथा भारत और ईएफटीए सदस्य देशों के बीच वाणिज्य का ज्यादा बेहतर परिवेश बनाना है। लंबे समय से जारी वार्ता प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ यह समझौता खासकर भारत में रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक मिलियन रोजगार सृजित होंगे। इसलिए यह समझौता भारतीय कार्यबल के लिए ऐसे समय खासकर बहुत महत्वपूर्ण है जब विश्व अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। रोजगार सृजन की संभावना समझौते में अंतर्निहित अनेक आयामों के कारण है। इस समझौते से भारतीय बिजनेसों को ईएफटीए सदस्य देशों की बाजारों तक बेहतर पहुंच बनेगी जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस विस्तारित बाजार से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेशों के लिए बेहतर माहौल बनाने से यह समझौता भारत में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आकर्षित करेगा। निवेश का प्रवाह बढ़ने से आर्थिक वृद्धि तेज होगी तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत को तकनीक हस्तांतरण के क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ मिलेगा। ईएफटीए सदस्य देशों के साथ सहयोग से भारत में उत्कृष्ट तकनीकों व सर्वोत्तम व्यवहारों के हस्तांतरण में सुविधा मिलेगी। ज्ञान और विशेषज्ञता के हस्तांतरण से भारतीय कार्यबल में अनेक क्षेत्रों में कौशल संवर्धन होगा तथा उच्च-मूल्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में एसएमई का बड़ा हिस्सा है, ऐसे में उनकी बिजनेस कार्रवाइयों में वृद्धि से अपरिहार्य रूप से जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन होगा। प्राविधानों का संबंध कृषि व्यापार तथा बाजार पहुंच से है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहु-प्रतीक्षित बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कृषि, कृषि-बिजनेस और संबंधित उद्योगों का विकास तेज होगा। लेकिन समझौते का सफल क्रियान्वयन प्रभावी नीतिगत समन्वय, संस्थागत निर्माण क्षमता तथा सभी पक्षों के बीच संबंधों पर निर्भर होगा। समझौते से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए लाजिस्टिक चुनौतियों को संबोधित करना, नियामक मानकों का पालन करना तथा समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके साथ ही समझौते के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आंकलन करना जरूरी है ताकि इससे होने वाले लाभों का समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके। समझौते से संकटग्रस्त समूहों पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने तथा टिकाऊ व समावेशी विकास सुनिश्चित करने के प्रयास होने चाहिए।

# एमएसएमई क्षेत्र का सशक्तीकरण

एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तीकरण की आवश्यकता अनुभव कर सरकार ने अनेक खोजी उपाय किए हैं। इनसे यह क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

**मनोज कुमार आनन्द**
(लेखक, चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं)

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें सेवा व विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। भारत की जीडीपी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार निकट भविष्य में इसका योगदान 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई को उचित ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह लाखों अकुशल व अर्धकुशल कामगारों को रोजगार देकर भारत के विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। वे जीडीपी में 29 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं और देश के कुल निर्यात में लगभग आधे के जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही वे भारत के कुल विनिर्माण में एक तिहाई का योगदान करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान समय में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ा कर 15 करोड़ करने के प्रयास जारी हैं। एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने एमएसएमई उद्यमों की सहायता के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं।

कुछ उल्लेखनीय पहलों में 'एमएसएमई समाधान', 'उद्योग आधार', 'मुद्रा', 'जेड योजना', 'मेक इन इंडिया' तथा 'स्टैंड अप इंडिया' शामिल हैं। माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ डेवलपमेंट-एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के प्राविधानों के बावजूद एमएसएमई को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें खासकर बड़े उद्यमों से समय पर भुगतान की समस्या है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस एक्ट, 2023 में धारा 43बीएच जैसा महत्वपूर्ण प्राविधान शामिल किया था। इस प्राविधान का लक्ष्य खरीदारों से समय पर भुगतान सुनिश्चित कर एमएसएमई को मजबूत करना है। इससे अर्थव्यवस्था की संचालक शक्ति के रूप में उनका महत्व रेखांकित होता है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एमएसएमई को कर्ज व्यवस्था संकुचित होने का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा था। महामारी के पश्चात उनकी बहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लगातार भारत में एमएसएमई इकोसिस्टम मजबूत करने के प्रयास किए हैं। फाइनेंस एक्ट, 2023 की धारा 43बीएच का विस्तार कर इसमें एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत भुगतानों को शामिल किया गया। इस कदम का उद्देश्य एमएसएमई की कर्ज व्यवस्था मजबूत कर बिजनेस सुगम बनाना था।

एमएसएमईडी एक्ट की धारा 15 खरीदारों द्वारा एमएसएमई के भुगतान की समयसीमा निर्धारित करते हुए समय पर समाधान पर जोर देती है। लेकिन अतीत में इन प्राविधानों को लागू न करने के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जोखिम मझोले व बड़े उद्यमों की तुलना में बढ़ी है। इस विसंगति को दूर करने का प्रयास धारा 43बीएच द्वारा किया गया है। इसमें समय पर भुगतान करने तथा निर्धारित सीमा के भीतर भुगतान न करने पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है। इस प्राविधान के अंतर्गत सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारणकर्ता द्वारा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 द्वारा तय भुगतान समय सीमा के बाद न करने पर उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसके साथ ही विलंबित भुगतान पर ब्याज को रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट-आरबीएलआर का तीन गुना किया गया है। एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 15 के अंतर्गत यह हर महीने चक्रवृद्धि हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत खरीदार का पंजीकरण जरूरी है जो धारा 43बीएच के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन इस प्राविधान का विस्तार व्यापारियों को बकाये तक नहीं किया गया है जिनको एमएसएमडी एक्ट में उद्यम की परिभाषा में शामिल किया गया है।

धारा 43बीएच का व्यावहारिक प्रभाव बहुआयामी है। पहला, इससे एमएसएमई को सहज भुगतान चक्र सुनिश्चित होता है जिससे बड़े उद्यमों को निर्धारित समय में भुगतान से प्रोत्साहन मिलता है। इससे न केवल वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी सहायता मिलती है। दूसरा, इससे एमएसएमई का सशक्तीकरण होता है और वह भुगतान की शर्तें तय करने के समय बेहतर लेनदेन की स्थिति में होता है। इससे विवाद और विधिक जटिलतायें भी कम होती हैं। एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु या मझोले उद्यम के रूप में योग्य होने के लिए प्लांट एवं मशीनरी में शुद्ध निवेश तथा उसके शुद्ध टर्नओवर पर ध्यान दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि धारा 43बीएच के अंतर्गत केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ही सप्लायर के रूप में शामिल किया जा सकता है, जबकि मझोले उद्यमों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 43बीएच के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनेक आयाम जरूरी हैं। इनमें खरीदारों और सप्लायरों के बीच स्पष्ट संवाद, भुगतान शर्तों पर दृढ़ रहना तथा नियामक आवश्यकताओं का पालन करना शामिल हैं।

इसके साथ ही यह प्राविधान समय पर खुलासे और आडीटरों की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य करता है ताकि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। कुल मिला कर कहा जाए तो धारा 43बीएच भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत की जाती है। लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग, सक्रिय परिपालन तथा जीवन्त क्रियान्वयन व्यवस्थायें जरूरी हैं। एमएसएमई के फलने-फूलने का समुचित परिवेश बना कर भारत आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन के इंजन के रूप में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट, 2023 में धारा 43बीएच जैसे प्रगतिशील प्राविधान शामिल करने के बावजूद इसके समग्र क्रियान्वयन तथा प्रभावी लागू करने वाली व्यवस्थाओं के क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं। यह सभी हितधारकों के लिए जरूरी है कि वे इन चुनौतियों से निपटने के लिए निकट सहयोग करें तथा एमएसएमई क्षेत्र की पूरी क्षमता का लाभ उठाएं। इन हितधारकों में एमएसएमई के साथ बड़े उद्यम, नियामक संस्थायें तथा आडीटर शामिल हैं। इसके साथ ही उद्योग आधार मेमोरैंडम-यूएएम से उद्यम पंजीकरण में परिवर्तन महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तन है जिसका प्रभाव एमएसएमई पर पड़ता है। उद्यम पंजीकरण में पंजीकरण के अनिवार्य प्राविधान के पीछे सरकार की प्रतिबद्धता पंजीकरण प्रक्रियाओं को सहज बनाना तथा एमएसएमई इकोसिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करना तथा इसका सहज व निर्बाध क्रियान्वयन जरूरी है।

एमएसएमई की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए उपयुक्त वित्तीय विकल्पों की आवश्यकता एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। जहां 'मुद्रा योजना' जैसी पहलों का उद्देश्य एमएसएमई की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करना है, वहीं वित्तीय उपकरणों में लगातार खोज और विस्तार की आवश्यकता है ताकि वे प्रभावी रूप से विकास महत्वाकांक्षाओं को संबोधित कर सकें। खोज और तकनीकी स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वाला इकोसिस्टम विकसित करना तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एमएसएमई की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। 'मेक इन इंडिया' तथा 'जेड योजना' जैसी पहलें इस संबंध में घरेलू विनिर्माण तथा गुणवत्ता मानक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में कहा जाए तो भारत ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लगातार ऐसे सकारात्मक प्रयासों की जरूरत है जो बदलती चुनौतियों का सामना करते हुए इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को सामने ला सकें। तकनीक के प्रयोग, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तथा सक्षम बनाने वाली नियामक व्यवस्था की स्थापना से भारत अपने एमएसएमई इकोसिस्टम को और मजबूत कर आर्थिक प्रगति तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है।

# सेमीकंडक्टर चिप्स का महत्व

**ईशू रतन श्रीवास्तव**
(लेखक, रेलवे विभाग में इंजीनियर हैं)

कुछ लोगों द्वारा सेमीकंडक्टर चिप्स को नए तेल के रूप में देखा जाता है; कुछ लोग इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरे के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इन्हें आर्थिक समृद्धि के पासपोर्ट के रूप में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड की कंपनियों के प्रभुत्व वाले सेमीकंडक्टर उद्योग को नए तेल के रूप में देखा जाता है, जो इन देशों के लिए भविष्य की भू-राजनीतिक ताकत के आधार के रूप में काम करता है। इसी तरह, पारंपरिक सैन्य युद्ध का एआई-सक्षम मिसाइल हमलों, क्वांटम कंप्यूटर-संचालित निर्णय लेने, ड्रोन झुंड और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स द्वारा संचालित साइबर हमलों से कोई मुकाबला नहीं है, जिनकी विनिर्माण क्षमताएं शक्ति और प्रभाव प्रदान करती हैं।

मैकिन्से के अनुसार, कॉफी मशीन और मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन और स्वास्थ्य उपकरण तक, वे हमारे जीवन में अंतर्निहित हैं, जो 2030 तक खरबों डॉलर की उद्योग क्षमता प्रदान करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स सहित उन्नत प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करके वैश्विक महाशक्तियों के शीर्ष क्रम पर चढ़ने की भारत की महत्वाकांक्षा उपयुक्त रूप से एक साहसिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे साकार करने के लिए निम्नलिखित के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और एटीपी के तीन मुख्य क्षेत्र दुनिया में सबसे विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में से एक बनाते हैं, जो उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले 70 सीमाओं को पार करती है। अमेरिकी कंपनियाँ उन्नत चिप्स के डिज़ाइन पर हावी हैं और मूल्य का 947 प्रतिशत हासिल करती हैं। फाउंड्रीज़ उप-परमाणु-स्तर की परिशुद्धता पर काम करते हुए डिज़ाइन किए गए चिप्स का निर्माण करते हैं, जो मूल्य का 924 प्रतिशत प्राप्त करते हैं। एटीपी एक अपेक्षाकृत स्वचालित और कम मूल्य वाला व्यवसाय है लेकिन अब उन्नत पैकेजिंग तकनीकों के साथ इसमें बदलाव आ रहा है। परिशुद्धता 7 नैनोमीटर (एनएम) से नीचे बेंचमार्क किए गए उन्नत चिप्स, प्रौद्योगिकी निर्माण क्षमताओं का सच्चा परीक्षण हैं, जो वर्तमान में बड़े पैमाने पर ताइवान और दक्षिण कोरिया के पास हैं। इन फाउंड्रीज़ को अस्पताल के सर्जिकल रूम की तुलना में 10,000 गुना अधिक स्वच्छ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और एक उन्नत अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए आवश्यक 300 विभिन्न सामग्रियों में से कुछ की शुद्धता के मानक सौर ऊर्जा पैनलों की तुलना में 1,000 गुना अधिक हैं। अमेरिका ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख अवरोध बिंदुओं को नियंत्रित करना जारी रखा है और विनिर्माण प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता बरकरार रखी है। वियतनाम में अपने विनिर्माण में विविधता लाने का सैमसंग का निर्णय चीन के साथ तकनीकी अलगाव से अन्य देशों के लिए अवसरों के खुलने का संकेत देता है।

दक्षिण कोरिया और ताइवान की तकनीकी पकड़ बीस वर्षों से भी कम समय में, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने जर्मनी जैसे प्रौद्योगिकी नेताओं को विस्थापित कर दिया और नब्बे के दशक के अंत में अर्धचालकों पर पेटेंट चार्ट पर क्रमशः शून्य से 386 और 267 तक चढ़ गए। दक्षिण कोरिया में, चेबोल्स ने डिजाइन से लेकर चिप्स के परीक्षण तक ऊर्ध्वाधर एकीकरण का नेतृत्व किया और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया, जबकि विशेष फर्मों और सरकार समर्थित संस्थानों के एक नेटवर्क ने अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का विकास किया और ताइवान में विदेशी प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया। यद्यपि उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में अलग-अलग विकासवादी पथों का पालन किया, दोनों ने विशेषज्ञों की अंतर-देशीय गतिशीलता का लाभ उठाया, जिसमें विदेशी-शिक्षित नागरिकों की वापसी ने सर्वोत्तम प्रथाओं और अत्याधुनिक ज्ञान का महत्वपूर्ण हस्तांतरण प्रदान किया।

सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में भारत की उपलब्धि: सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम, पीएलआई योजना और अलग डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत 10 बिलियन डॉलर का हालिया वादा सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की ताकत बनाने की आकांक्षा रखता है। क्वाड, भारत-अमेरिका द्वष्टश्वञ्ज के हिस्से के रूप में इसकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी और माइक्रोन जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के निवेश हितों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्रतिभा और अनुसंधान में अवसरों का दोहन करना है। हालाँकि, सेमीकंडक्टर्स जैसे जटिल उद्योग में, केवल औद्योगिक सहयोग ही इतना कुछ कर सकता है। प्रतिभा को उद्योग के लिए शीर्ष तीन जोखिमों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, जबकि भारत का कुशल कार्यबल चिप डिजाइन में विशेषज्ञता का दावा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत चिप वक्र से दो दशक पीछे है, और उन्नत विनिर्माण में कुछ सबसे विकसित देशों ने इस क्षेत्र में प्रमुखता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है।

इसलिए भारत के आकर्षण को सस्ती जमीन और पूंजी की उपलब्धता से आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके बजाय यह अत्यधिक विशिष्ट वैश्विक ज्ञान कार्यकर्ताओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरने की जरूरत है जो अपने परिवारों के साथ स्थानांतरित होते हैं और देश की विकास की महत्वाकांक्षी यात्रा में भाग लेते हैं। डिकम्प्लिंग द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को पकड़ना भी महत्वपूर्ण है जो भारत को मूल्य-संरेखित अंतरराष्ट्रीय साझेदार ढूंढने की अनुमति देता है, जो सम्मानजनक सह-अस्तित्व और बढ़ती आर्थिक प्रमुखता के इतिहास को जानते हुए, अनुसंधान एवं विकास और निष्पादन अंतराल को पाटते हैं। चंद्रयान-3, 5जी और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ भारत की सफलता इसकी दुर्जेय दृष्टि को साकार करने की क्षमता के संबंध में आशावाद प्रदान करती है।

## आप की बात

### नागरिकता संशोधन कानून

**लोकसभा चुनाव** से पहले केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून-सीएए को लागू करने के आदेश से इसके पक्ष-विपक्ष में बहस तेज हुई है। दिसंबर, 2019 में लोकसभा व राज्यसभा से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कानून से पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्राविधान किया है। इसके अंतर्गत इन तीनों देशों से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने पर फौरन विचार किया जाएगा। भाजपा का दावा है कि इससे किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता खतरे में नहीं है। भाजपा के सहयोगी दलों ने इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की ध्रुवीकरण राजनीति का हिस्सा बताया है। केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। पिछले चार साल में देश में माहौल हिंदूवाद के पक्ष में बदला है और अब कोई राजनीतिक दल व्यापक हिंदू समर्थन खोने की जोखिम पर ही इसका विरोध कर सकता है। उनके इशारे पर कुछ कट्टरपंथी मौलाना जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब शाहीन बाग जैसे विरोध की आशंका नहीं है।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

### अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

**अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव** पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं! आखिरकार यह मुकाबला डेमोक्रेटिक जो वायडेन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने जा रहा है। दोनों पूर्व राष्ट्रपतियों के बीच होने वाले इस मुकाबले में कोई भी जीते अमेरिका को एक वृद्ध राष्ट्रपति ही मिलने जा रहा है। विश्व के शक्तिशाली देशो में प्रमुख अमेरिका जैसे देश को एक मजबूत युवा राष्ट्रपति की जरूरत थी। अत्यधिक बुजुर्ग लोगों के सत्ता से चिपके रहने के कारण इतने बड़े पद के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, वह ऊर्जा उनमें नहीं रह पाती। इससे देश के युवाओं को सर्वोच्च पद पर पहुंचने में बाधा आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसी हालत में तो और भी और जवान व्यक्ति की जरूरत है जो पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ कर दुनिया की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त निर्णय ले सके। जहां तक भारत-अमेरिकी संबंधों का सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत को दुनिया की उभरती शक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाइडेन और ट्रंप, दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। मोदी के अगले प्रधानमंत्री कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

### चुनाव बांड

**चुनाव बॉन्ड** की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग को एसबीआई पूरी जानकारी देगा जिसे आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इस पर कांग्रेस सहित सारा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगा है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि काजल की कोठरी से कोई बेदाग नहीं निकल सकता है। विपक्ष भले ही बहुत खुश हो रहा है कि अब सरकार का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहा है कि भ्रष्टाचार का भूत हमें भी नहीं छोड़ने वाला है। अगर पिछली सरकारों ने भयानक घोटाले नहीं किये होते तो आज उसके अनेक नेता जेल के सीखचों के पीछे न होते या जमानत पर समय न काट रहे होते। मजेदार बात है कि राहुल गांधी जिन पूंजीपतियों का नाम ले-ले कर लगातार कोसते रहते हैं, उनके अपने राज्यों के मुख्यमंत्री इन पूंजीपतियों की चरण-वंदना में कसर नहीं छोड़ते रहे हैं। चुनाव बांड पर चर्चा के समय दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका की चुनावी फंडिंग पर भी गौर करना चाहिए जहां आम आदमी का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना असंभव है। चुनाव बांड विपक्ष के लिए डूबते को तिनके का सहारा की तरह है।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

### जल संकट

**दुनिया** की सबसे कीमती चीज़ जल है जिसके बिना एक मिनट के लिए भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी पर प्रकृति का सबकुछ निर्भर करता है। इससे प्यास बुझती है, सिंचाई से खेत लहलहाते हैं तथा नदी एवं जलमार्ग बनते हैं। वर्तमान समय में कर्नाटक भयानक जल-संकट का सामना कर रहा है। गर्मी की शुरुआत में ही वहां लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बेंगलुरु में पानी की भारी कमी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा है कि राज्य ने पिछले तीन-चार दशक में इतना भीषण सूखा नहीं देखा है और अगले दो महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक ने 240 तालुकों में से 223 में सूखा तथा 196 को गंभीर सूखा प्रभावित घोषित किया है। ऐसे में कावेरी का पानी तमिल नाडु को छोड़े जाने को लेकर दक्षिण के दोनों राज्यों में संघर्ष बढ़ना तय है। दोनों राज्यों में विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, ऐसे में राहुल गांधी, सिद्धारमैया व स्टालिन जैसे नेताओं को चुनावी राजनीति के साथ ही जल-संकट के समाधान पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। तत्काल समाधान न खोजने पर जल-संकट उनकी चुनावी पराजय का कारण बनेगा।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

**पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से**
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
**पर भी भेज सकते हैं।**

# महिला सशक्तिकरण व विकास का नया अध्याय लिख रहा यूपी: योगी

## सीएम ने नगर विकास विभाग की 11 हजार करोड़ रुपए की 3419 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

● शक्ति रसोई का किया शुभारंभ, कई योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**मुख्यमंत्री** योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो विकास भी करता है और विरासत को संरक्षित भी करता है। युवाओं के आजीविका की व्यवस्था करता है और आमजन की आस्था को सम्मान भी देता है। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल देता है तो प्रदेश को समृद्धि के नित नए सोपान की ओर से अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य भी करता है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की इस गति में जब प्रदेश का हर नागरिक सहभागी बनता है, तब पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। 2017 में 24 फीसदी आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहती थी, आज यह आबादी 30 फीसदी है और आने वाले पांच वर्ष में उप्र में यह आबादी 40 फीसदी पहुंचने वाली है। सीएम ने कहा कि पहले लोग केवल मनुष्य को कहते थे कि बड़ा स्मार्ट बन रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिटी को भी 'स्मार्ट' बना दिया।

सीएम ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नगर विकास विभाग की 11 हजार करोड़ रुपये की 3419 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। सीएम ने यहां प्रदर्शनी-स्टॉल का अवलोकन कर नगर विकास विभाग की मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि पहली बार नगर विकास विभाग की ओर से इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास हो रहा है। सात साल पहले नगर विकास विभाग का जितना बजट था, उसका तीन गुना केवल एक साथ लोकार्पित-शिलान्यास हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य नगरीय विकास अधिकरण सूडा द्वारा संचालित दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित होने वाली शक्ति रसोई योजना का भी शुभारंभ किया।

सीएम ने बताया कि 112 नए नगर निकायों का गठन हुआ। तीन नए नगर निगम भी बनाए गए। नगर पालिका परिषद व नई नगर पंचायतें गठित हुईं। उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी व अमृत मिशन के साथ ही ऐसी तमाम स्कीमें लाई गईं, जिनकी ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका है। पहले लोग केवल मनुष्य को कहते थे कि बड़ा स्मार्ट बन रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिटी को भी %स्मार्ट% बना दिया। भारत सरकार के सहयोग से 10 और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सात नगर निगम समेत यूपी के कुल 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। उप्र देश का पहला राज्य है, जो सभी नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़कर काम कर रहा है। सीएम ने कहा कि हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए। जब हम चुनते हैं तो बिना किसी खर्चे, अतिरिक्त प्रयास के चेयरमैन-पार्षद के रूप में हर वार्ड में स्वच्छता समिति का गठन करके उनके माध्यम से सुबह-शाम आधा-एक घंटे घूम लें तो स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जाने प्रयासों में सहभागी बन जाएं। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले जब नगरों में निकलते थे तो बिजली आती नहीं थी। यदि आती भी थी तो स्ट्रीट लाइट आधी-अधूरी जलती थी, कोई पीली तो कोई सफेद जलती थी। लाइट इतनी कम रहती थी कि स्ट्रीट लाइट ठीक ढंग से काम नहीं करती थी।

हम लोगों ने प्रदेश में फ्री में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। दूधिया लाइट से आज सभी नगर निकाय क्षेत्र चमकते हैं। स्ट्रीट लाइट के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन व बिजली के खपत को कम किया गया। एक जैसी स्ट्रीट लाइट होने के कारण स्मार्ट सिटी के मिशन को पूरा करने व पीएम के विजन के अनुरूप कम से कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नगर निकाय योगदान दे रहे हैं।

सीएम ने कहा कि पहले शहरी क्षेत्र कूड़े से लदे होते थे। आज पहले की तुलना में सफाई बहुत अच्छी हुई है, फिर भी अच्छे कार्य को और अच्छा करना चाहिए। शहर में जलजमाव न हो, सड़कें अच्छी हों, अभी से पांच वर्ष की कार्ययोजना बनाकर काम करें, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर बने। इसके लिए निकाय की आय को भी बढ़ाएं। सात वर्ष में केंद्र व राज्य सरकारों ने काफी बड़े लक्ष्य को हासिल किया। नगर विकास के अंदर आज प्रदेश में 15 लाख गरीबों को 3500 करोड़ से अधिक की राशि वितरित हो चुकी है और प्रदेश में 56 लाख गरीबों को पीएम आवास मिला। तीन करोड़ लोगों को शौचालय मिला। 15 करोड़ लोग फ्री राशन की सुविधा पा रहे, 19 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पा रहे। 762 नगर निकायों में बिना भेदभाव के साथ शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। सीएम ने कहा कि पीएम की मंशा के अनुरूप एक्सप्रेशनल विकास खंड की तर्ज पर नए व पिछड़े नगर निकायों को आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में चिह्नित करके वहां सीएम अर्बन फेलो की तैनाती करें। 100 अर्बन फेलोज को आज टैबलेट दिया गया। इंडीकेटर तय किए गए हैं, टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग होगी, यहां से मॉनीटरिंग व फिजिकल वेरीफिकेशन होगा। फिर हम उनकी रैंकिंग तैयार करेंगे। अच्छा कार्य करने वाले को इंसेंटिव देंगे। कार्य न कर पाने वाले को प्रोत्साहित करेंगे। 100 प्रतिशत सेच्युरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सभी सहभागी बनें।

### नगर विकास के कार्यों का सबने माना लोहा

**सीएम** ने कहा कि अयोध्याधाम में प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नगर विकास के कार्यों का सबने लोहा माना है। अगले वर्ष प्रयागराज कुंभ होना है, 2025 महाकुंभ में नगर विकास विभाग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। भारत की अध्यक्षता में जी-20 के सफल आयोजन में नगर विकास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नगर विकास नए इनोवेशन के साथ प्रदेश में अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, यह देश के लिए नजीर बन सकता है। सीएम ने कहा कि 11 हजार करोड़ की यह परियोजना पीएम के विकसित भारत के संकल्प की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। विकसित भारत के लिए विकसित उप्र और विकसित उप्र के लिए हर नगर निकाय आत्मनिर्भरता व ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करे। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, एके शर्मा, राज्यमंत्री राकेश राठौर 'गुरु', महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, उमेश द्विवेदी, मोहसिन रजा, विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र आदि मौजूद रहे।

# यूपी को तीन नई वंदे भारत की सौगात, एक को विस्तार, सीएम योगी ने जताया आभार

● पीएम मोदी ने लखनऊ-देहरादून, पटना-लखनऊ और रांची-वाराणसी के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

● इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लखनऊ-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संगमनगरी प्रयागराज तक किया विस्तार

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**मंगलवार** को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे की 85 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में तीन नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने के साथ ही लखनऊ-गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को प्रयागराज तक विस्तार देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। इनमें पीएम ने लखनऊ-देहरादून, पटना-लखनऊ और रांची-वाराणसी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन प्रयागराज तक किया गया है।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज राष्ट्र के विकास को रफ्तार देतीं 85 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से सहभाग किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पटना-लखनऊ, लखनऊ-देहरादून, रांची-वाराणसी सहित देश के लिए 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ के साथ ही गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रयागराज तक विस्तार प्रदान किया। देश में माल परिवहन की सुगमता के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की माल गाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाई। 'विकसित भारत' के नवनिर्माण को विस्तार देतीं इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री का आभार। माना जा रहा है कि पीएम द्वारा यूपी के लिए रेलवे से संबंधित शुरू की गई इन परियोजनाओं से प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने से इन स्थानों पर यात्री अब और अधिक सुविधा के साथ अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। इसमें भी 85 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार वंदे भारत ट्रेनों की संख्या के साथ ही इनके रूट का भी विस्तार कर रही है। इसी क्रम में गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो इसका और भी महत्व बढ़ जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विरासत भी और विकास भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आस्था से जुड़े हुए पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है।

## 'पीएम सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल के लांच कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**रक्षा** मंत्री एवं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह 13 मार्च बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री का बुधवार अपराह्न ढ़ाई बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर आगमन होगा। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर जाएंगे और वहां आयोजित 'पीएम सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के उपरांत शाम 5 बजे टी एन वाजपेई चौक आलमबाग जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

शाम पौने छह बजे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम छह बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन योजना घोटाला काण्ड

# कुसुमा सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

**विधि संवाददाता।** लखनऊ

**स्वच्छ** भारत मिशन योजना में सफाई के लिए खरीदे गए कूड़ेदान में लाखों रुपए का घोटाला करने के मामले में वांछित आरोपी कुसमा सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गंभीर करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार त्रिपाठी ने इसकी अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए कूड़ेदान में लाखों रुपए का घोटाला सामने आने पर जिला पंचायत राज विभाग द्वारा विजिलेंस जांच के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था। यह जांच हरदोई के तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध थी। जांच के दौरान पता चला कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 20 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसके संबंध में छह दिसंबर 2015 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अवशेषों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, हाट बाजारों एवं धार्मिक स्थलों पर कूड़े करकट के लिए निर्धारित स्थल पर डस्टबिन की व्यवस्था करने को कहा गया था। इस काम के लिए मेसर्स एसएससीओ मैनेजमेंट सर्विसेज विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ को काम सौपा गया था। जिसमें नीलकमल एवं सुप्रीम कंपनी के डस्टबिन खरीद गए थे। लेकिन यह निर्धारित मानक से हटकर अधिक मूल्य पर खरीदा गया था। जिसकी वजह से भारत सरकार को पांच लाख 87 हजार 163 रुपए की हानि हुई। जिसमें अभियुक्ता कुसुमा सिंह की भी संलिप्तता पाई गई थी।

# यूपी में वेंटिलेटर पर हैं स्वास्थ्य सेवाएं: अखिलेश

**पायियनर समाचार सेवा।** लखनऊ

**समाजवादी** पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट है। भाजपा सरकार में इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर हैं। अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को न दवा मिल पा रही हैं और न हीं इलाज हो पा रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण जनता मलेरिया बुखार, टाईफाइड, डेंगू आदि अनेक बीमारियों से परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। अखिलेश ने कहा कि सुल्तानपुर में गर्भवती महिला को एम्बूलेंस न मिलने से पिकअप डाले में ले जाना पड़ा, जिससे सीएचसी केन्द्र पहुंचते ही प्रसव हो गया। कभी गवर्नर हाउस के सामने तो कभी अस्पतालों के बाहर गेट पर और गाड़ियों पर प्रसव हो रहे हैं। महिला अस्पतालों में तो अक्सर डॉक्टर रात में अपनी ड्यूटी पर ही नहीं मिलते है। उन्होंने कहा कि अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों को भी गैरसरकारी अस्पताल मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्र गर्भवती की मुफ्त जांच के लिए राजी नहीं है। लखनऊ शहर में करीब 200 निजी केन्द्रों पर गर्भवती का अल्ट्रासाउंड होता है। 140 केन्द्र सरकार की योजना में शामिल नहीं हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य की राज्य सरकार को कितनी परवाह है इससे स्पष्ट है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षकों के 300 पदों पर भर्ती होनी है। पीजीआई में 1803 पदों पर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में 93 विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती होनी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बना तो दी पर अभी तक उस यूनिवर्सिटी का विस्तार नहीं हो सका है।

# सीतापुर से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में हुए शामिल

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**भारतीय** राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों एवं उसकी समावेशी विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनपद सीतापुर से प्रमोद कुमार वर्मा के साथ उनके समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष, प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह के समक्ष कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर दिनेश कुमार सिंह ने आए हुए सभी लोगों को स्वागत करते हुए उनके गले में तिरंगा पट्टिका पहनाकर पार्टी का सदस्यता कार्ड देकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से उमेश कुमार वर्मा, शशि प्रकाश वर्मा, आलोक आनंद सिंह, अंकुश कुमार वर्मा, आशुतोष सिंह, अभिषेक कुमार वर्मा, मनोज कुमार, मो. नूर आलम, अंकुर वर्मा, सर्वेश कुमार यादव, पप्पू अली, आसिफ खां, मो. फहीम खां, शिवराम भारती, भगवंत सिंह, राहुल सिंह, देवेंद्र सिंह, रमेश सिंह, दिनेश कुमार सिंह, श्रीष कुमार, अनुज कुमार यादव आदि शामिल रहे।

# जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों से ही आता है बदलाव: आनंदीबेन पटेल

● राज्यपाल ने केजीएमयू को अनुदानित दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**राज्यपाल** आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजभवन से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को कोटेक महिंद्रा बैंक से अनुदान में प्राप्त दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटेक महिंद्रा बैंक के सीएसआर फंड से इनीशिएट ये दोनों एम्बुलेंस ट्रॉमेटिक कार्डियक एम्बुलेंस हैं, जो कि एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा से सम्पन्न हैं।

इस अवसर पर कोटेक महिंद्रा के अधिकारियों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने एम्बुलेंस के लाभार्थियों का विवरण रखने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवर्तन के लिए में काम जरूरी है। जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों से ही बदलाव आता है। इसी क्रम में उन्होंने कोटेक महिंद्रा बैंक के सीएसआर फंड से स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों में सहयोग हेतु भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि बहुत से स्कूलों में प्रयोग के लिएलैब, कम्प्यूटर सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को सीखने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। राज्यपाल ने बैंक के अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे उत्तर प्रदेश के पिछड़े और सीमावर्ती इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं, इण्टरनेट सुविधाओं के विकास में सहायता दें। उन्होंने सीएसआर फंड से आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा आठ तक की कक्षाओं का एक ही परिसर में संचालित करने वाले शिक्षा संकुल के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के स्वास्थय परीक्षण, चिकित्सा, शिक्षा और पोषण व्यवस्था पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो बच्चो कुपोषित, अंडर वेट और अस्वस्थ होता है, प्राय: उसके मां-बाप को ये जानकारी नहीं होती है कि बच्चे को चिकित्सा के लिए कहा ले जाएं, जिससे उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। इसी क्रम में उन्होंने पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं के समुचित विकास को प्राथमिकता देने, बड़ी संस्थाओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थय केंद्रों तथा सिटी हेल्थ सेण्टर्स पर बिजली, पानी तथा गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं होंगी तो बच्चे स्वत: सीख लेंगे।

# हिट साबित हो रहे यूपी के नए एयरपोर्ट फुल होकर चल रहीं सभी फ्लाइट्स

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

● हवाई सफर के प्रति लोगों के उत्साह को लेकर सीएम योगी ने भी जाहिर की खुशी

**उत्तर** प्रदेश के लोग अब हवाई सफर कर रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के लोगों के हवाई सफर का सपना पूरा कर रही है। 10 मार्च को ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों (आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़ और मुरादाबाद) में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और दो दिनों में ही यहां सारी फ्लाइट फुल होकर जा रही हैं। इस पर सीएम योगी ने भी खुशी जाहिर की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक क्रियाशील एयरपोर्ट वाला प्रदेश है और ये 5 नए एयरपोर्ट यहां पर लोगों उड़ान की चाहत को नए पंख देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को इन्वेस्ट यूपी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए नए एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। सोमवार से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स पर प्रारंभ हो चुकी है और यह पूरी तरह फुल होकर जा रही है। मालूम हो कि इन शहरों से 19 सीटर विमान उड़ान भर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन सभी विमानों की सीटें फुल होकर जा रही हैं। जो फ्लाइट इन नए एयरपोर्ट्स से अब तक शुरू की गई हैं, उनमें लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से अलीगढ़, अलीगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से लखनऊ, लखनऊ से चित्रकूट और चित्रकूट से लखनऊ की फ्लाइट्स शामिल हैं। ये सभी फ्लाइट्स निर्धारित यात्रियों को लेकर रवाना हो रही हैं। हवाई सफर के लिए इन जिलों के लोगों के उत्साह को देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री भी उत्साहित है और जल्द ही डिमांड के अनुसार इन जिलों से कुछ और नई फ्लाइट्स का भी संचालन किए जाने की संभावना है।

# विकसित भारत-मोदी की गारंटी के अन्तर्गत तैयार हो रहा भाजपा का संकल्प पत्र: खन्ना

**पायनियर समाचार सेवा।** लखनऊ

**वित्त** एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तथा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा का संकल्प पत्र विकसित भारत-मोदी की गारन्टी अभियान के अन्तर्गत तैयार कर रही है। सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को जन आकांक्षाओं के अनुरूप तय करती है और भाजपा सरकारें उन संकल्पों को पूर्ण करती है। जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है, इसलिए विकसित भारत-मोदी की गारंटी अभियान से इसे जन आन्दोलन का रूप दे रही है।

इस अभियान का शुभारम्भ 25 फरवरी 2024 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई पार्टी के नई दिल्ली मुख्यालय से किया था। अभियान में विकसित भारत के लिए सुझाव भारत के जन-जन से एकत्र किया जा रहा है। इन सुझावों के आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। सुझाव आपका संकल्प हमारा इस अभियान का मंत्र है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 26 फरवरी 2024 को किया था। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अभियान के अन्तर्गत हर लोकसभा में 2 एलईडी वैन चल रही है। कुल 160 एलईडी वाहन चल रहे हैं। जो प्रत्येक लोकसभा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में पहुंच रहे है। इन एलईडी वैन के साथ सुझाव पेटिकायें है जिनमें आम जन के सुझाव एकत्र किये जा रहे है। भारी संख्या में लोग इन पेटियों में अपने सुझाव डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी 431 पेटिकायें विभिन्न विधानसभाओं में भेजी गई है।

सुझाव कोहोर्ट कार्यक्रमों के माध्यम से भी एकत्र किया जा रहे है। कोहोर्ट के अन्तर्गत विशेष समूहों का कार्यक्रम होता है। पूरे देश में ऐसे कुल 125 कार्यक्रम होने है। जिनमें से उत्तर प्रदेश में 9 कार्यक्रम हो चुके है। यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किये जा रहे हैं। पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ जिले और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे है, जिनमें भारी संख्या में सुझाव आ रहे है। सभी जिलों में कुल 180 कार्यक्रम हुए है। मिस्डकॉल नं. 9090902024 पर लोग अपने सुझाव रिकार्ड करा रहे हैं।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 13 मार्च 2024



# सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन

**फर्रुखाबाद।** सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन, एडीजी आईजी जोन कानपुर आलोक सिंह, आईजी जोगेंद्र सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे। एडीजी व आईजी ने डीएम एसपी के साथ कार्यक्रम स्थल क्रिश्चियन ग्राउंड का जायजा लिया। एडीजी आलोक सिंह ने एग्जिट पॉइंट व एंट्री पॉइंट की जानकारी ली। पार्किंग के संबध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी ने आने वाले भीड़ को देखते हुए गेट की दीवारों को हटाने के दिए। निर्देश एडीजी ने सभा स्थल के लिए आस पास की छतों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के दिया आदेश दिया। सभा स्थल से हेलीपेड को जाने बाली सड़क को जल्द बनवाने कराने के एडीजी ने आदेश दिए। हेलीपेड के चारों तरफ डबल बैरिकेटिंग की जाए, पानी की उचित व्यवस्था रखी जाए। एडीजी ने कहा हैलीपैड को पक्का बनाया जाएए ईटो के ऊपर साइमेंटेड घोल डाला जाए। आईजी जोगेंद्र कुमार ने आवास

विकास में बनने वाली पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया को लाने बाली बसों में एडीजी ने एसपी को पुलिस कर्मियों को तैनात करने के आदेश दिए। हेलीपैड व सभा स्थल पर लगातार लिस कर्मियों की तैनाती रखने के एडीजी ने आदेशदिए।

### मुख्यमंत्री 1.15 घंटे रुककर कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे

**फर्रुखाबाद।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन का कार्यक्रम जारी हो गया है। कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी जनपद में कुल एक घंटा 15 मिनट रुकेंगे। अधिकारी दिन भर तैयारियों जायजा लेते रहे। सीएम योगी शहर के सातनपुर खैराताल में बने हैलीपेड पर हेलीकॉप्टर से दोपहर 1. 50 उतरेंगे। इसके बाद वह वह दोपहर 1. 55 बजे क्रिश्चियन कालेज मैदान में आयोजित जनसभा में पंहुचेंगे, जहाँ दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जनपद की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करें। शाम 3. 05 बजे वह हैलीपेड से पुलिस लाइन बरेली के लिए रवाना होंगे।

### मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय विद्यालय रहेंगे बंद

**फर्रुखाबाद।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार 13 फरवरी को जनपद में आगमन प्रस्तावित है। लिहाजा सुरक्षा के लिहाजा से उनके कार्यक्रम को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद के अंतर्गत आने वाले विद्यालय बंद रखनें के आदेश दिये गये हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद ने संयुक्त रूप से जारी किये गये आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से नगर पालिका फर्रुखाबाद के तहत आने वाले सभी बोर्ड के सभी नर्सरी, प्राथमिक, माध्मिक, उच्च माध्यमिक संस्थानों में 13 मार्च को अवकाश रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित परीक्षाओं को यथावत संचालित किया जायेगा।

### इनामिया अभियुक्त को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

**बांदा।** 50 हजार के इनामिया शातिर अभियुक्त को थाना बबेरु व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। अवैध गांजे की तस्करी के मामले में वांछित चल रहा था अभियुक्त। वांछित अभियुक्त मनीष पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम किया गया था घोषित। आपको बताते चलें कि पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री अजय कुमार सिंह के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बबेरु व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 50 हजार के इनामिया एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 16ण07ण2023 को थाना बबेरु क्षेत्र में ओडिशा से लाई जा रही अवैध गांजे की खेप बरामद की गई थी।

# केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण

### ● विधानसभा प्रभारी अरविंद गुप्ता की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम

**निघासन खीरी।** नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि ने विस्तार पूर्वक भारत सरकार द्धारा किए गए विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि आप सब की बदौलत इतने विकास कार्य हुए हैं आप लोग इसी तरह समर्थन करते रहिए मैं निरंतर आप लोगों की सेवा में इसी तरह खरा उतरूंगा। इस बैठक में भाजपा विधानसभा निघासन प्रभारी अरविन्द गुप्ता ने पिछली सरकारों की अराजकता और लचर कानून व्यवस्था पर जमकर बरसे। और बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली का हफ्ता चलता था अब पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। भाजपा सरकार में अमन.चैन कायम है गुंडे माफ्रिया सब जेल में हैं। चोरी छिनैती जैसी घटनाएं खत्म हो गई है। लोग अमन.चैन की जिंदगी जी रहे हैं।और विधानसभा संयोजक निघासन दयाशंकर मौर्य ए महेश गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संगम लाल मिश्रा ने किया। इस दौरान पूर्व जिला महामंत्री व सांसद प्रतिनिधि अरविन्द सिंह संजय ने, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा कनक पाल राना जी एपूर्व मण्डल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह सेंगर वीरेन्द्र मिश्र, निघासन चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, संजय गिरि, विपिन मौर्य, ब्लॉक प्रमुख अमनदीप सिंह, कमला देवी, सदा प्यारी, प्रांजल शुक्ला, मुकेश मिश्रा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

# एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जिले के उत्पाद पाएंगे पहचान

### ● प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

**फतेहपुर।** एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टाल का जनपद के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिले के उत्पाद अब राष्ट्र स्तर पर पहचान पाएंगे ये हमारे जनपद के लिए गर्व की बात होगी। अब वोकल फार लोकल अभियान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के संदेश को सजीव प्रसारण में सुनाया गया। रेलवे के सहायक मंडल अभियंता अर्चित जैन की अध्यक्षता व युवा विकास समिति के प्रवक्ता आलोक गौड़ के सफल संचालन में आयोजित कार्यक्रम में यशराज म्युजिकल ग्रुप द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मां गायत्री फूड प्रोडक्ट की मालविका सिंह ने बताया उनके द्वारा एक साल से यहां स्टाल संचालित किया जा रहा है। आचार, मुरब्बा, जैम, जैली, स्कावायस, बुकनु एवं तमाम प्रकार के आवला उत्पाद मिलेंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद में ये उत्पाद अब स्थानीय व्यापारियों, शिल्पकारों को रोजगार व स्वरोजगार के मार्ग खोलेंगे। मुख्य रूप से मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा व दिनेश बाजपेई, समाजसेवी लक्ष्मीचंद्र ओमर मोना व अशोक तपस्वी, कुलदीप भदौरिया, अरविंद तिवारी, आशीष तिवारी, केशवराम त्रिपाठी, दिनेश तिवारी, प्रदीप गर्ग, शिवप्रसाद त्रिपाठी, संजय गुप्ता, सोनू तिवारी, सुनिधि तिवारी, प्रदीप सिंह आदि रहे।

# इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक संपन्न प्रत्याशी को जिताने का लिया संकल्प

**फर्रुखाबाद।** आज ढिलावाल तिराहा के निकट आर पी गेस्ट हाउस में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें आम आदमी पार्टी,भीम आर्मी, सीपीआई, सीपीआईएम के पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आने वाले चुनाव को लेकर गठबंधन के सभी घटक दलों को साथ लेकर कैसे चुनाव में उतरा जाए व चुनाव संचालन को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के सभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी कमेटी के साथ मौजूद रहे।

सर्वप्रथम समस्त घटक दलों के जिला अध्यक्षों को समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा डॉक्टर नवल किशोर से योग्य प्रत्याशी फर्रुखाबाद को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में प्रत्याशी को जाना होगा उससे दो दिन पूर्व सपा के के पदाधिकारी वहां का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा हर बूथ पर जिम्मेदार पदाधिकारियों को लगाकर उसे जिताने का काम करेंगे।

आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ने गरीबों का पिछले 10 सालों ने बहुत उत्पीड़न किया अब समय आ गया है कि इन्हें फर्रुखाबाद से हटाकर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को इस जनपद का सांसद हमारे क्षेत्र की जनता इस बार बनाए। अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश चंद्र शाक्य ने कहा इस बार वह पूरे शाक्य समाज से अपील करते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को एक जुट होकर जिताएंगे। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शहजाद मंसूरी ने कहा वह भीम आर्मी की ओर से भरोसा दिलाते हैं कि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जी जान लगा देगा। प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा विनीत कुशवाहा ने कहा सेक्टर, जोन और बूथ स्तर का प्रत्येक पदाधिकारी अगर मेहनत से लग जाए तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को कोई नहीं हरा सकता।

### कार्ड धारकों को अब गेंहूँ-चावल के साथ मक्का व ज्वार-बाजरा भी लेना पड़ेगा

**घाटमपुर।** अन्योदय और पात्र ग्रहस्थी के कार्ड धारकों को माह मार्च के राशन बितरण में गेंहूँ चावल के साथ मोटा अनाज जैसे मक्का, ज्वार और बाजरा भी दिया जायेगा। प्रदेश के आयुक्त खाद्य तथा रशद बिभाग की ओर से प्रदेश भर के जिला अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है। कि अन्योदय और पात्र ग्रहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत माह मार्च के सापेक्ष आवंटित खाद्यान चायनित जनपदों में मक्का, ज्वार और बाजरा का भी बितरण किया जाय, इसके अलावा अन्योदय कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी प्रति कार्ड भी बितरित करना संनिश्चित किया जाय। प्रेषित पत्र में ये भी कहा गया है कि अनयोदय कार्ड धारक को तीन किलो प्रति कार्ड चीनी के अलावा 14-14 किलो गेंहूँ-चावल व 5 किलो बाजरा तथा एक-एक किलो मक्का व बाजरा भी शामिल किया जाय।

## क्विक न्यूज

### भव्य व दिव्य कलश यात्रा के साथ विष्णु महायज्ञ का शुभारम्भ

**रूरा, कानपुर देहात।** थाना ग्राउण्ड में भव्य व दिव्य कलश यात्रा के साथ 30वें श्री विष्णु महायज्ञ, विशाल मानस संगीत सम्मेलन का शुभारम्भ किया गया। कलश यात्रा थाना ग्राउण्ड में स्थित यज्ञशाला से भटौली व मिनी अण्डरपास होते हुये नहर पुल पर पहुँची जहाँ महिलाओं ने अपने हाथ में लिये कलश में जल भरकर वापस यज्ञशाला पहुँची। कलश यात्रा के वापस पहुँचने पर भव्य झाँकियों की उपस्थिति में भजनों व सँगीत के माध्यम से आकर्षक मँचन किया गया, इस दौरान रजोल शुक्ला, राजू भदौरिया, विनोद सक्सेना, महेश गुप्ता मुनीम जी, रामबाबू शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, शरद शुक्ला, उमेन्द्र शुक्ला, शशिकान्त शुक्ला, बबलू कुशवाहा, पूर्व चैयरमैन संदीप कश्यप, रामकुमार शुक्ला, आशुतोष मिश्रा, छोटे भईया सभासद, सुरेश कुमार सभासद, अनुराग यादव सँजय सभासद, अंशुल बाजपेई सभासद, रविशशि द्विवेदी, आशीष पाण्डेय, राजू यादव, देवेश दीक्षित, व्यापार मण्डल के आशीष गुप्ता दुर्गेश दीक्षित, अवधेश शुक्ला सहित भारी सँख्या में महिलायें व भक्तगण मौजूद रहे।

### केंद्रीय राज्यमंत्री ने बांटे अन्न योजना के कैरी बैग

**फतेहपुर।** जिले की सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 10 किलोग्राम के कैरी बैग का निःशुल्क वितरण कार्यकम आयोजित किया। कार्यकम में केंद्रीय मंत्री ने पात्र गृहस्थी योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को बैग का वितरण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी 24 से अगामी 05 वर्ष तक भारत सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। समस्त व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित होंगे।

### चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन का डीएम ने किया शुभारंभ

**फतेहपुर।** आगामी लोकसभा चुनाव के उत्सव की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं एवं उच्चतम मतदान प्रतिशत के लिए शासन व अधिकारी दृढ़ संकल्पित हैं। लोकतंत्र के इस महानतम उत्सव में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के अभियान में जिले के सभी दवा व्यापारी शासन एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दवा व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात की। चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन लिखे बैनर का जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सी. इन्दुमती ने शुभारंभ किया। सभी दवा व्यापारी आम जनमानस के बीच जागरूकता लाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में ऐसा एक बैनर लगाएंगे व अपने ग्राहकों को जागरूक करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी को वोटर हेल्पलाइन एप्प डाउनलोड करवाया। यह एप्प चुनाव और मतदाताओं के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा।

### सपा को सशक्ति बनाने के लिए करेंगे जातिगत सम्मेलनः तिलक

**संडीला (हरदोई)।** विधानसभा बालामऊ से बसपा के प्रत्याशी रहे तिलक चंद पासी ने मीडियाकर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि वे न केवल हरदोई बल्कि अन्य जनपदों में भी जातीय सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को सपा से जोड़ने और पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। युवा सपा नेता अभिषेक दीक्षित एडवोकेट के आवास पर मीडियाकर्मियों से वार्ता करते हुए तिलक पासी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है क्योंकि भाजपा इस देश में बाबा साहब का संविधान समाप्त कर देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है जिसको किसी भी दशा में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल होकर न केवल सपा बल्कि पीडीए को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है और वे इसके लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तिलक पासी के साथ बसपा के कोऑर्डिनेटर रामखेलावन वर्मा, कछौना के जिला पंचायत सदस्य चन्द्रेश वर्मा तथा कछौना के क्षेत्र पंचायत सदस्य रामबिलास वर्मा ने भी सपा की सदस्यता लेने के बाद प्रेस वार्ता में पीडीए को मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

### चोरी किये गये माल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

**फर्रुखाबाद।** पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के मार्गदर्शन एव क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में मुअसं. 60/24 धारा. 380/457/411 भादवि व मुअस. 52/24 धारा. 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त सुरजीत पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नबाबगंज को मय चोरी गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुअस. 60/24 धारा 380/457/411 भादवि से संबंधित वादी मुकदमा भूरे लाल पुत्र स्व0 ब्रजलाल निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नवाबगंज के घर की शेफ्का लॉकर तोडकर उसमें रखे जेवरात चोरी कर लेना तथा मुअस 52/2024 धारा 380/411 भादवि से संबंधित मुकदमा निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरौली से ताला तोड कर सामान चोरी करने के संबंध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरजीत पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नबाबगंज को मय चोरी गये माल सहित गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### सुमेरपुर व मौदहा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की दर्दनाक मौत

**मौदहा (हमीरपुर)।** मौदहा व सुमेरपुर क्षेत्र में मंगलवार को अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवको की दर्दनाक मृत्यु हो गयी। सुमेरपुर क्षेत्र के सुमेरपुर निवासी विन्दा प्रसाद व रामबाबू (45) दोनो ही निजी स्कूटी में बैठकर हमीरपुर आ रहे थे तभी कुंडौरा गांव के पास पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी जिससे रामबाबू की मौके पर मृत्यु हो गयी बिंदा प्रसाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डाक्टरों ने इलाज के लिये कानपुर रिफर कर दिया है इसी प्रकार दूसरी घटना मौदहा क्षेत्र में तीन दोस्त हिमांशु (18) संदीप अनुरागी (20) निवासी मौदहा व सचिन निवासी जौरहा मध्य प्रदेश बाइक में बैठकर बिनय साहू की शादी कार्यक्रम में रायल गार्डन गेस्ट हाउस बाइस से जा रहे थे जैसे ही तीनों मौदहा के देवी चौराहा के पास पहुचे तभी सड़क के किनारे खड़े डीजे के लोडर में टकरा गये और तीनों गंभीर रुप से घायल हो गये।

# मुख्यमंत्री ने किया नगर विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को देखते ईओ व सभासद।

**गुरसहायगंज (कन्नौज)।** नगर पालिका परिषद सभागार में मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को अधिशाषी अधिकारी अनिल पंडित व कर्मियों प्रधान लिपिक आरपी सिंह सहित सभासदों चरणजीत, निर्मल श्रीवास्तव, परमजीत, सुरेन्द्र कुमार, संतोष गुप्ता उर्फ मुल्लू, प्रतिनिधि धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ बडे, सिराज अहमद, आजम सिददीकी सहित समस्त सभासदों ने देखकर मेंज थपथपा कर हर्ष व्यक्त किया।

मंगलवार को स्थानीय नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें वर्चुअल कार्यक्रम में नगर विकास विभाग की 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 3419 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करनें के उपरान्त पीएम मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान उन्होनें अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्य करनें के लिये प्रेरित किया। कहा कि नगरों के समृद्ध विकास के साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिले, उनके जीवनस्तर में सुधार हो, इसके लिए योगी सरकार संकल्पित है।

# 13 मार्च को होगा शिकायती ऋण वितरण कार्यक्रम, डीएम ने ली तैयारी बैठक

### ● कार्यक्रम में होगी पीएम के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग

**लखीमपुर खीरी।** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागए भारत सरकार के तत्वावधान में 13 मार्च को सायं 04 बजे आयोजित शिकायती ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अफसर प्रतिभाग करेंगे। जनपदीय कार्यक्रम आयोजन के संबंध में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में अफसरों की बैठक लेकर संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगमए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लाभार्थियों को 13 मार्च को सायं 04 बजे रियायती ऋण वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम सफल आयोजन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उनके उत्तरदायित्व बताएं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सहायक अनुभाग अधिकारी अंकिता जौंगिड़ ने बताया कि सरकार आर्थिक सशक्तीकरण योजनाओं के तहत जिले के लक्षित समूहों के लाभार्थियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से हाइब्रिड मोड में विस्तृत विचार विमर्श किये जाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) तेजस्वी मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बैठक की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। एसडीएम रेनू मिश्रए राजीव निगमए एलडीएम अजय कुमार पांडेयए डीएसडब्ल्यूओ सुधांशु शेखरए डीएसडब्ल्यूओ (विकास) तेजस्वी मिश्रा, आईटीआई के फेरमैन अवधेश कुमार, संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

# करदाताओं को बताए अग्रिम कर भुगतान के लाभ

### ● सीए एसो., आयकर बार एसो. पदाधिकारियों, ट्रेड यूनियन, भारतीय चिकित्सक संघ व आयकर करदाताओं के साथ संगोष्ठी का हुआ आयोजन

**सीतापुर।** आयकर जागरूकता अभियान के तहत 12 मार्च को सीतापुर में चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) जमा करने के संबंध में सीए एसो., आयकर बार एसो. पदाधिकारियों, ट्रेड यूनियन, भारतीय चिकित्सक संघ व आयकर करदाताओं के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधान आयकर आयुक्त बरेली राधे श्याम ने बताया कि अग्रिम कर की चतुर्थ किश्त के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। अनुमानित कर 10,000 रूपये या उससे अधिक है तो उसके लिए यह अग्रिम कर के लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि अग्रिम कर के भुगतान से सरकार और इसका भुगतान करने वाले व्यक्ति या संगठन दोनों को लाभ होता है। यह पूरे वर्ष आय का निरंतर प्रवाह प्रदान करता है, व्यक्ति संगठन की दृष्टि से यह एकमुश्त कर भुगतान साल के अंत के बोझ को कम करता है। अग्रिम कर का भुगतान करने से करदाताओं को धन की कमी या आयकर विवरण दाखिल करते समय एकमुश्त कर भुगतान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह कर संग्रह की प्रक्रिया को गति देता है। सभी से राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान हेतु अधिक से अधिक अग्रिम कर जमा करने का आग्रह किया है। आयकर अधिकारी प्रीत चड्ढा ने भी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 100 प्रतिशत तक कर का भुगतान 15 मार्च तक करना होगा तथा ऐसा नहीं करने पर 12 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा। आयकर अधि. की धारा 210 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। सभी करदाताओं से एडवांस टैक्स किश्त समय पर अधिक से अधिक जमा करने का अनुरोध किया। प्रीत चड्ढा, आयकर अधिकारी सीतापुर, सचिन कुमार आयकर अधिकारी (टीडीएस) सीतापुर, शिवदीप सिंह, आयकर निरीक्षक, ज्ञानेश वर्मा, आयकर निरीक्षक राजीव मिश्रा, आयकर निरीक्षक विक्रम सिंह मीना, आयकर निरीक्षक रवि रत्न, हरीश शाह, तुषार सहनी, हर्शल जायसवाल, भगवती गुप्ता, डॉ. तरुण सैगल, डॉ. राज कुमार श्रीवास्तव, डॉ आर. एस. टंडन, ओम सिंघानिया, अजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

### पुलिस ने बड़े भाई के हत्यारे छोटे भाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल

**फर्रुखाबाद।** कायमगंज कोतवाली पुलिस ने बड़े भाई के धारदार हथियार से हत्या करने वाले छोटे भाई को गिरफ्तार कर आज मंगलवार को जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस ने आज बताया कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रजपालपुर का निवासी बड़ा भाई रंजीत उम्र करीब 25 वर्ष के सगे छोटे भाई गोलू और गोयल उम्र करीब 23 वर्ष से किसी न किसी बात को लेकर आये दिन झगड़ा फिसाद हुआ करते थे। घटना वाले दिन 11 मार्च 2024 को सायंकाल करीब 6.00 बजे छोटे भाई गोलू उर्फ गोयल ने शराब पी रखी थीए इसी दौरान घर के अंदर बड़े भाई रंजीत और गोलू उर्फ गोयल में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर छोटे भाई गोलू ने धारदार हथियार गढ़ासे से काटकर अपने बड़े भाई रंजीत की निर्मम हत्या कर दी और और गढ़से को छुपा दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राम अवतार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे।

# जिला उद्योग बंधुः उद्यमियों की समस्याओं का समय से कराएं निस्तारणः डीएम

### ● खीरी के 43 निवेशक उद्यमियों को डीएम ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित

**लखीमपुर खीरी।** जिले के उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक हुई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों, व्यापारियों, निर्यातकों की जायजा समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाए। जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने किया।

सर्वप्रथम राजधानी लखनऊ में आयोजित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय उद्घाटन, सीएम.इन्वेस्टर संवाद की एलईडी स्क्रीन के जरिए कलेक्ट्रेट में लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिस दम महेंद्र बहादुर सिंह सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने उद्यमियों संग देखा और सुना। इसके बाद हाल ही में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिले के 10 करोड़ से ऊपर निवेश करने वाले 13 और 10 करोड़ से नीचे निवेश करने वाले 30 उद्यमियों को डीएम ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ प्रदेश सरकार के स्तर से उपलब्ध कराए गए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण करना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। समस्याओं के तत्परतापूर्वक निदान से उद्यमियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। व्यापारियों द्वारा उठाई समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उद्यमियों के हर समस्या के निदान हेतु प्रशासन तत्पर है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बैठक की आवश्यकता व प्रासंगिकता पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। सीडीओ ने व्यापारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

### जाम को लेकर प्रभारी निरीक्षक ने लोक निर्माण को लिखा पत्र

**संडीला (हरदोई)।** जर्जर सड़क के कारण लगने वाले जाम को लेकर प्रभारी निरीक्षक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। बस अड्डा चौराहा संडीला से कासिमपुर औरास की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण न होने के कारण तथा बारिश में मिट्टी बह जाने के कारण एक से डेढ़ फुट गहराई के जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण जन सामान्य को आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जन सामान्य अपने दो पहिया और चार पहिया बड़े वाहनों को सड़क से नीचे उतारकर खड़ा नही कर पा रहे हैं जिसके कारण सड़क पर वाहन खड़े करने के लिए लोग विवाश होते हैं। इसी कारण भयंकर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसी तरह से इमलियाबाग तिराहे, बेनीगंज तथा अतरौली रोड पर भी इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

# पिछले चार साल के तनाव से ना भारत को कुछ हासिल हुआ, न ही चीन को : जयशंकर

**भाषा।** नई दिल्ली

**पूर्वी** लद्दाख में चीन के साथ लगभग चार साल से जारी सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि इस अवधि के दौरान तनाव से दोनों देशों में से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जयशंकर ने कहा कि भारत निष्पक्ष और उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह ऐसा समाधान होना चाहिए, जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने सोमवार शाम को एक कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा से लौटे जयशंकर ने नई दिल्ली में एक्सप्रेस अड्डा के दौरान कूटनीति की बदलती प्रकृति से लेकर बदल रही वैश्विक व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बाद में, उन्होंने राजनयिकों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, पत्रकारों और विदेश नीति के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के एक वर्ग के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब उनसे सवाल किए गए कि सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए चीनी पक्ष ने अतीत में किन प्रस्तावों की पेशकश की और क्या कभी ऐसी स्थिति बनी जब उन्हें ऐसा लगा कि इस मुद्दे को वास्तव में सुलझाया जा सकता है, तो मंत्री ने कहा, सीमा संबंधी विवादों को लेकर वार्ता कर रहे हर देश को यह मानना होता है कि इसका कोई समाधान अवश्य होगा। यह पूछे जाने पर कि यदि वर्तमान सरकार को (संसद में) और सीट मिलती है तो क्या वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अधिक सशक्त हो जाएगी , केंद्रीय मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मेरे लिए, भारत की जमीन और सीमा समाधान की निष्पक्षता

विदेश मंत्री जयशंकर बेलारूस के अपने समकक्ष से मिलते हुए

का सीट की संख्या से कोई लेना-देना नहीं है...या तो कोई समझौता अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता। आज मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास राजनीतिक बहुमत है या नहीं। मुद्दा यह है कि वार्ता की मेज पर आपके पास उचित समझौता है या नहीं। पूर्व विदेश सचिव जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों पर कुछ श्रोताओं के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इतनी अधिक संख्या में बल नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि हमें उन समझौतों का पालन करना चाहिए जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। पिछले चार साल से हमने जो तनाव देखा है, उससे हम दोनों देशों में से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जयशंकर ने कहा, इसलिए, मेरा वास्तव में मानना है कि हम जितना जल्द इसे सुलझाते हैं, हमारे लिए यह उतना ही अच्छा होगा। मैं अब भी निष्पक्ष, उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हूं लेकिन यह समाधान ऐसा होना चाहिए जो समझौतों का सम्मान करता हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो और यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता हो। मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पांच मई, 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हुआ था। जयशंकर ने भारत-पाकिस्तान संबंधों से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान संपर्क करता है तो क्या भारत बातचीत के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। सवाल यह है कि किस बारे में बात की जानी है... अगर किसी के पास इतनी अधिक संख्या में आतंकवादी ठिकाने हैं... तो वही बातचीत का केंद्र होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सेना के साथ बातचीत हो सकती है, तो उन्होंने कहा, चीजें ऐसे काम नहीं करतीं। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए... लेकिन बातचीत के केंद्र में स्पष्ट रूप से आतंकवाद का मुद्दा होना चाहिए। यह प्रमुख मुद्दा है... मैं यह नहीं कह रहा कि कोई अन्य मुद्दे नहीं हैं लेकिन मैं केवल बात करने के लिए इस मुद्दे को टालने वाला नहीं हूं। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या अमेरिका के प्रति भारत की नीति का चीन के प्रति रूस की नीति पर कोई प्रभाव पड़ा है। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा, अगर रूस और चीन करीब आ गए हैं तो यह कोई मसला नहीं है... इससे भारत का लेना-देना नहीं है। यह उस स्थिति का परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी, जिसमें रूस खुद को पश्चिम की तुलना में पाता है... रूस के प्रति हमारी नीति बहुत निष्पक्ष, बहुत उद्देश्यपूर्ण रही है। उन्होंने म्यांमा की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, अगर कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता और बहुत खंडित प्रणाली होती है, तो कई अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। यह स्थिति कई अवैध गतिविधियों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है...।

## क्विक न्यूज

### नवी मुंबई में अवैध रूप से रहने के आरोप में आठ बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

**ठाणे।** महाराष्ट्र के नवी मुंबई मे पुलिस ने भारत मे अवैध रूप से रहने के आरोप मे आठ बंग्लादेशी नागरिको को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने सोमवार सुबह बेलापुर इलाके के शाहबाज गांव मे एक फ्लैट पर छापेमारी की। एनआरआई सागरी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्हे फ्लैट मे बांग्लादेश की पांच महिलाएं और तीन पुरुष मिले।

### ईडी ने झारखंड में कांग्रेस विधायक, अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे

**रांची।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड मे कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनसे कथित तौर पर जुड़े कुछ अन्य लोगो के परिसरो पर धनशोधन संबंधी एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रो ने यह जानकारी दी। सूत्रो ने बताया कि रांची और राज्य के कुछ अन्य शहरो मे लगभग 17-18 परिसरो पर छापे मारे जा रहे है। अंबा (36) हजारीबाग जिले की बड़कागांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती है। सूत्रो ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय कथित अवैध रेत खनन, जबरन वसूली और कुछ अन्य अपराधो से संबंधित कई प्राथमिकियो के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानो के तहत कार्रवाई कर रहा है।

### दिसंबर तिमाही में जीडीपी के 1.2% पर पहुंच सकता है चालू खाते का घाटा

**मुंबई।** चालू खाते का घाटा (कैड) चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही मे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.2 प्रतिशत यानी 11 अरब डॉलर तक जा सकता है जबकि इससे पहले की तिमाही मे यह एक प्रतिशत था। एक रिपोर्ट मे यह अनुमान जताया गया है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही मे चालू खाते का घाटा जीडीपी का दो प्रतिशत था। किसी देश को वस्तुओ और सेवाओ के निर्यात से होने वाली आय से उसका आयात व्यय अधिक होने पर चालू खाते का घाटा होता है। इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही मे कैड 1 प्रतिशत मे कमी आ सकती है।

## भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाऊंगा : हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू

**शिमला (भाषा)।** हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाएगी। कांगड़ा जिला और चंबा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सुक्खू ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में सत्ता छीनने की इसकी कोशिशें सफल नहीं होंगी, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाएगी। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि सुक्खू ने फतेहपुर के लोगों के लिए 232 करोड़ रुपए की और चंबा के लोगों के लिए 275 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया।

हालिया राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर प्रहार किया और पूछा कि पंचकूला के एक पांच सितारा होटल और उत्तराखंड के ऋषिकेश में महंगे रिजॉर्ट में इनके ठहरने के लिए कौन पैसे दे रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व की मदद से यह सब कर रही है। लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत होगी और राज्य के लोग खरीद-फरोख्त की राजनीति को कभी माफ नहीं करेंगे।

सुक्खू ने कहा, भाजपा ने पैसों का इस्तेमाल कर हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं यहां हूं भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में, कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था, जिसके चलते सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे।

## सीएए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने संबंधी याचिका शीर्ष अदालत में दायर

**भाषा।** नई दिल्ली

**उच्चतम न्यायालय में** मंगलवार को एक अर्जी दायर कर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित रहने तक नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के अमल पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। इकत्तीस दिसंबर, 2014 से पहले बिना दस्तावेज के भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए त्वरित नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों को अधिसूचित करके नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू किए जाने के एक दिन यह अर्जी दायर की गई है। नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने अदालत से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि पूर्व में दायर रिट याचिकाओं का निपटारा किए जाने तक मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सीएए के तहत मुसलमान भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने की अस्थाई अनुमति दी जाए और उनकी पात्रता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी एक पृथक याचिका दायर करके नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

शीर्ष अदालत पहले से ही सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है। आईयूएमएल ने अपनी अर्जी में अदालत से नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के विवादित प्रावधानों के निरंतर क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। इस नियम के परिणामस्वरूप मूल्यवान अधिकार तैयार किए जा रहे हैं और केवल कुछ विशेष धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई है। नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि सीएए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 250 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।

## केंद्र केरल को 31 मार्च तक एकमुश्त पैकेज देने पर विचार करे: उच्चतम न्यायालय

**भाषा।** नई दिल्ली

**उच्चतम** न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए केरल सरकार को 31 मार्च तक एकमुश्त पैकेज देने पर विचार करे।

केरल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपने लंबित मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को जरूरी राशि नहीं जारी कर रही है। पीठ ने राज्य सरकार की याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र थोड़ा उदार रुख अपनाते हुए केरल को विशेष मामले के रूप में एकमुश्त पैकेज दे सकता है। पीठ ने कहा कि आने वाले बजट में अधिक कठोर शर्तें रखी जा सकती हैं लेकिन 31 मार्च से पहले राज्य को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वह वित्तीय समस्याओं से निपट सके। इस पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि ऑफसेटिंग बैलेंस का केरल के वित्त पर असर पड़ रहा है और राज्य ने राजकोषीय सशक्तीकरण को दो बार टाल दिया है। ऑफसेटिंग बैलेंस वह न्यूनतम राशि होती है जिसे ऋण देने की एक शर्त के रूप में उधारकर्ता को जमा रखने की जरूरत होती है। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार पर कर्ज लेने की सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए अपनी विशेष, स्वायत्त और पूर्ण शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है।

### ईडी ने लालू प्रसाद यादव परिवार के करीबी के खिलाफ छापे मारे

**नई दिल्ली।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल द्वारा प्रवर्तित एक रियल्टी और शराब कंपनी के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। कात्याल को पिछले वर्ष ईडी ने कथित नौकरी के बदले रेलवे भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी एवं सांसद मीसा भारती एवं कुछ अन्य कथित रूप से संलिप्त हैं। दिल्ली, गुरूग्राम और सोनीपत में कृष्ण बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के कुल 27 परिसरों की धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी की जा रही है। इस कंपनी के प्रवर्तक अमित कात्याल और राजेश कात्याल हैं। यह कंपनी हरियाणा से संचालित होती है।

## थर्मोन्यूक्लियर अनुसंधान, उत्तरी सागर की पारगमन क्षमता पर चर्चा कर रहे भारत और रूस : रोसातोम सीईओ

**भाषा।** तिरुवनंतपुरम

**भारत और** रूस नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर संलयन (फ्यूजन) पर अनुसंधान और उत्तरी सागर मार्ग की पारगमन क्षमता को संयुक्तरूप से विकसित करने सहित कई गतिविधियों पर सहयोग के लिए चर्चा कर रहे हैं। मास्को में सरकारी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रोसातोम के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।रोसातोम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ए.ई. लिखाचेवा ने कहा कि भारत के साथ चर्चा का मुख्य विषय परमाणु प्रौद्योगिकियों और गैर-ऊर्जा व गैर-परमाणु क्षेत्रों में भावी सहयोग की संभावनाओं को तलाशना है।तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएनपीपी) का पिछले महीने दौरा करने वाले लिखाचेवा ने कहा कि दोनों पक्षों ने केएनपीपी की पहली इकाइयों के निर्माण के दौरान सहयोग में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। लिखाचेवा ने ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, भारत के साथ हमारा सहयोग पहले ही सीमाओं के परे पहुंच चुका है। बांग्लादेश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर एनपीपी बनाने के लिए भारतीय कंपनियां रोसातोम की परियोजना में भागीदारी कर रही हैं। इसके अलावा, रोसातोम गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में नए क्षेत्र विकसित करने में जुट है। इनकी संख्या 80 के आस-पास है। इनमें से कई में विकास गतिविधियों को वह अपने मित्र देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। इस प्रकार, हम भारतीय पक्ष को कम-शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में अपनी दक्षताओं की पेशकश कर सकते हैंलिखाचेवा का मानना है कि दोनों देशों में नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर संलयन के विषय सहित वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।

## जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कालरॉक को सौंपे जाने का फैसला बरकरार

**भाषा।** नई दिल्ली

**राष्ट्रीय कंपनी** विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखा और इसके स्वामित्व को जालान कालरॉक समूह को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी। अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ ने जेट एयरवेज की निगरानी समिति को 90 दिन के भीतर मालिकाना हक हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पीठ जेट एयरवेज के ऋणदाताओं को प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में समूह की तरफ से दिए गए 150 करोड़ रुपए को समायोजित करने का भी निर्देश दिया है। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान और सफल बोली लगाने वाले जालान कालरॉक गठजोड़ (जेकेसी) के बीच बंद पड़ी विमानन कंपनी के प्रबंधन के हस्तांतरण को लेकर एक साल से अधिक समय से कानूनी विवाद चल रहा है। इससे पहले, कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। एनसीएलएटी ने प्रबंध समिति को सफल समाधान आवेदक जालान कालरॉक गठजोड़ को प्रस्तावित अचल संपत्तियों को लेकर 30 दिन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। समिति में एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाता शामिल हैं। ऐसी सुरक्षा के निर्माण पर संबद्ध वित्तीय संस्थानों को सफल समाधान आवेदनकर्ता से समान राशि के भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रदर्शन बैंक गारंटी को समायोजित करने का निर्देश दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि सुरक्षा सृजित करने के 30 दिन के भीतर ऋणदाता जेट एयरवेज के शेयर सफल बोलीदाता को देंगे और कंपनी की जिम्मेदारी सौंपेंगे। एनसीएलएटी ने कहा कि स्वामित्व हस्तांतरण की तारीख से 30 दिन के भीतर स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार बकाएदारों को सभी भुगतान पूरे करने होंगे। सफल बोलीदाता को सौंपने के बाद जेट एयरवेज कामकाज और परिचालन शुरू कर सकती है। यह नियामकीय मंजूरी पर निर्भर करेगा। जेट एयरवेज ने बयान में कहा, एनसीएलएटी ने बिना किसी बदलाव के मूल रूप से स्वीकृत समाधान योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है और ऋणदाताओं को तत्काल क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं। जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल, 2019 से बंद है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि नए प्रस्तावित प्रवर्तकों-जालान-कालरॉक गठजोड़ ने विमानन कंपनी में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश पूरा कर लिया है।

लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरुमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

## पेज 1 का शेष

### नायब सैनी...

इससे पहले कि गठबंधन टूटने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा होती, भाजपा ने मुख्यमंत्री खट्टर का इस्तीफा दिला दिया और विधायक दल के नए नेता का चयन कर लिया। वर्तमान में, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। इस गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त था। आंकड़ों के लिहाज से, भाजपा सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है। हरियाणा में हुए इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बाद जेजेपी ने दिल्ली में अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि हरियाणा के उसके पांच विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे पार्टी में संभावित टूट का संकेत माना जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर एक पोस्ट में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जनता का आभार जताया और कहा कि राज्य का हित और जनता के कार्यों के लिए उनका समर्थन और सहयोग उनके लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा है। उन्होंने कहा, सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम सरकार में करवाए हैं। उन्होंने जनता से कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए, मैं हरियाणा और हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। जेजेपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष निशान सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पार्टी नेताओं के बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने की और इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है और इस अवसर पर हिसार में आयोजित नव संकल्प रैली में पार्टी के आगामी रुख की घोषणा की जाएगी। जजपा के कुछ विधायकों के भाजपा संग जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिसार की रैली में ही सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। हरियाणा निवास में जहां भाजपा की बैठक हो रही थी, उसमें खट्टर सरकार में गृह मंत्री का पद संभालने वाले वरिष्ठ नेता अनिल कुमार विज भी मौजूद थे। हालांकि वह बैठक जारी रहने के दौरान वहां से निकल गए। इसकी वजह पूछे जाने पर वह सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा, जो लोग दिल्ली से आए हैं, वे बताएंगे।

### एसबीआई ने...

सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा। राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉण्ड पेश किया गया था। चुनावी बॉण्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाने थे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इन बॉण्ड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा चुनावी बॉण्ड केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाते थे। चुनावी बॉण्ड भारतीय नागरिकों या देश में पंजीकृत या स्थापित संगठनों द्वारा खरीदे गए थे। ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र थे, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मतदान का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया था।

### जैसलमेर...

तेज आवाज हुई। दमकल वाहनों को आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। पायलट को अस्पताल ले जाया गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित तेजस विमान को हवाई युद्ध और आक्रामक वायु सहायता मिशनों के लिए शक्तिशाली हथियार माना जाता है। तेजस विमान भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। इसमें शुरुआती संस्करण के लगभग 40 तेजस पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। पिछले नवंबर में मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस जेट के एक अतिरिक्त बैच की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी थी।

### भारत ने...

सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएगी। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने यहां कहा कि चीनी पक्ष को कई मौकों पर इस 'सुसंगत स्थिति' से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के दौरे या राज्य में भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। चीन ने सोमवार को कहा कि उसने पिछले सप्ताह मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया था और इस क्षेत्र पर अपना दावा दोहराते हुए कहा कि भारत के कदम अनसुलझे सीमा प्रश्न को 'केवल जटिल' करेंगे। जायसवाल ने कहा कि ऐसी यात्राओं पर चीन की आपत्ति इस वास्तविकता को नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश 'भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।' उन्होंने कहा, भारतीय नेता समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जैसे वे भारत के अन्य राज्यों का दौरा करते हैं। ऐसे दौरों या भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है। जायसवाल ने कहा, इसके अलावा, यह इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, चीनी पक्ष को कई अवसरों पर इस सतत स्थिति से अवगत कराया गया है। जायसवाल मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्ति पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। जिसके तहत वह नियमित रूप से भारतीय नेताओं के राज्य के दौरों पर आपत्ति जताता है। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि सेला सुरंग हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और तवांग के लोगों के लिए यात्रा की आसानी में सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई सुरंगों पर काम चल रहा है। सेला सुरंग का निर्माण नई ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज़ और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी बल्कि देश के लिए रणनीतिक महत्व की है। सुरंग की आधारशिला 09 फरवरी, 2019 को प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी और निर्माण 01 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था। कठिन इलाके और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए सुरंग केवल पांच वर्षों में पूरी हो गई है। सीमा क्षेत्रों के विकास में बीआरओ सदैव अग्रणी रहा है। पिछले तीन वर्षों में, बीआरओ ने 8,737 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रिकॉर्ड 330 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है। सेला परियोजना में दो सुरंगों और 8 किमी से अधिक लंबी संपर्क सड़कें शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 12 किमी है। पहली सुरंग 980 मीटर तक फैली एक एकल-ट्यूब सुरंग है, जबकि दूसरी आपातकालीन निकास मार्ग के रूप में कार्य करती है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है।

### सांप काटने...

हेल्पलाइन उन्हें आश्वासन, भावनात्मक समर्थन और मुकाबला करने के बारे में सलाह दे सकती है। सर्पदंश हेल्पलाइन सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समय पर हस्तक्षेप की कमी के कारण किसी की जान न जाए और उसकी सुरक्षा की जा सके। कर्नाटक सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित करके, निजी सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों (शिक्षण अस्पतालों) को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (आईएचआईपी) पर सभी सर्पदंश के मामलों और मौतों को अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है।

# सीएए के विरोधियों पर पर बरसे अमित शाह

**● कहा, प्रधानमंत्री ने सीएए के जरिए हिंदू, जैन और सिख शरणार्थियों को सम्मानित किया**



भाषा। हैदराबाद

**केंद्रीय गृह मंत्री** अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। यहां भाजपा सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण सीएए का विरोध किया। शाह ने सीएए लागू करने को जायज ठहराते हुए कहा, हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों-करोड़ों लोग अपनी आस्था और सम्मान को बचाने के लिए भारत आए लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा, नागरिकता नहीं मिलने से उन्होंने अपने देश में खुद को अपमानित महसूस किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देकर उनका सम्मान किया है। शाह ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, तीन तलाक को खत्म करने और देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने जैसी मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के कारण राम मंदिर मुद्दे को 70 वर्षों तक लटकाया और प्राण प्रतिष्ठा समोराह का बहिष्कार किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित किया।

## सरकार ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वालों के लिए शुरू किया पोर्टल

**नई दिल्ली।** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल लॉन्च किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, सीएए-2019 के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिए गए हैं और एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रवक्ता ने कहा सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप सीएए-2019 भी जारी किया जाएगा। केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए।यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

# बीजू जनता दल ने सीएए लागू किए जाने का समर्थन किया

भाषा। भुवनेश्वर

**ओडिशा में सत्तारूढ़** बीजू जनता दल (बीजद) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) लागू किए जाने का मंगलवार को समर्थन किया, जबकि राज्य में विपक्षी दलों ने आम चुनाव से पहले इसे लागू किए जाने को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की। बीजद विधायक परशुराम ढाडा ने कहा, बीजद सीएए का स्वागत करता है, क्योंकि यह लोगों को नागरिकता प्रदान करता है और किसी की देश में रहने का अधिकार नहीं छीन रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने 17 दिसंबर 2019 को कहा था, सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, यह केवल विदेशियों से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा में बीजद सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) का समर्थन नहीं करते। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने आम चुनावों से पहले सीएए लागू करने को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की है। ओडिशा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से सोमवार को कहा कि सीएए का देश की एक बड़ी आबादी ने कड़ा विरोध किया, जिसके चलते इसे लागू करने में देर की गई। उन्होंने आरोप लगाया, अब, चूंकि चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार ने समाज के एक वर्ग के वोट को एकजुट करने के लिए देश में शायद अव्यवस्था पैदा करने के एकमात्र इरादे से अधिसूचना जारी की है। सपा की ओडिशा इकाई के प्रमुख रवि बेहरा ने आरोप लगाया कि रमजान का महीना शुरू होने की पूर्व संध्या पर सीएए ध्रुवीकरण करने के इरादे से लागू किया गया। माकपा नेता सुरेश पाणिग्रही ने कहा, हम सीएए का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, जो न केवल भेदभाव पैदा करेगा, बल्कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का भी हनन करेगा।

## तमिलनाडु सरकार सीएए लागू नहीं करेगी : स्टालिन



**चेन्नई।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को विभाजनकारी और बेकार बताते हुए मंगलवार को इसे खारिज कर दिया और कहा कि इसे उनके राज्य में लागू नही किया जाएगा। स्टालिन ने लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बीच सीएए लागू करने के लिए नियमो को जल्दबाजी में अधिसूचित करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएए और इसके नियम संविधान की मूल संरचना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, सीएए से कोई लाभ नही होने वाला है। यह भारतीय जनता के बीच सिर्फ फूट डालने का रास्ता तैयार करेगा। उनकी सरकार का रुख यह है कि यह कानून पूरी तरह अनुचित है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्टालिन ने कहा, इसलिए, तमिलनाडु सरकार राज्य मे सीएए लागू करने का किसी भी तरीके से कोई अवसर नही देगी। राज्य मे सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष स्टालिन ने दोहराया कि सीएए बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के खिलाफ है।

## सीएए की अधिसूचना को अन्नाद्रमुक ने बताया ऐतिहासिक भूल

**चेन्नई।** ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव ए के पलानीस्वामी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के लागू होने की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने इसके कार्यान्वयन के साथ एक ऐतिहासिक भूल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया है। अन्नाद्रमुक इस कदम की कड़ी निंदा करती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को विभाजित करना है। जबकि इसे पिछले पांच वर्षों से लागू नहीं किया गया था। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, केंद्र सरकार ने इसे लाकर एक ऐतिहासिक भूल की है।

## ईईएसएल का छह वाट का एलईडी बल्ब 30 प्रतिशत बिजली बचाएगा

**नई दिल्ली।** ऊर्जा बचत समाधान मुहैया कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ईईएसएल ने मंगलवार को छह वाट के एलईडी बल्ब की पेशकश के साथ अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा भी की। कंपनी ने कहा कि इस बल्ब से बिजली की खपत में लगभग 30 प्रतिशत की बचत होगी। एक बयान के अनुसार, एलईडी बल्ब किफायती प्रकाश योजना उजाला के तहत उपभोक्ताओं को मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने कहा कि ऊर्जा-कुशल उत्पादों तक व्यापक पहुंच के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और बीएलडीसी पंखों की निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ईईसीएल बिजली मंत्रालय के तहत एक संयुक्त उद्यम है। ए उत्पाद ईईएसएल मार्ट के जरिए उपभोक्ताओं को मिलेंगे, जो टिकाऊउत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक ऑनलाइन मंच है।

## नई तकनीकी से बढ़ेगी स्पीड

**मुंबई।** टेक कंपनी नथिंग की फोन (2ए) अब फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स और अन्य प्रमुख आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। मीडियाटेक के साथ मिलकर तैयार किया गया डाइमेंशन 7200 प्रो प्रोसेसर की खूबी वाला फोन (2ए) रैम बूस्टर तकनीक के साथ 20 जीबी (12 जीबी 8 जीबी) रैम एवं बेमिसाल पावर दक्षता और शानदार स्पीड सुनिश्चित करता है। स्मार्ट क्लीन और एडेप्टिव एनटीएफएस जैसे ऑप्टीमाइजेशन के साथ, नथिंग और मीडियाटेक ने बिजली की खपत को 10प्रतिशत तक कम कर दिया है। डिवाइस में अधिक समय तक चलने वाली 5,000 एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो रेपिड पावर-अप के लिए 45वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

## वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनियों का भर्ती परिदृश्य सबसे मजबूत

**नई दिल्ली।** भारत मे नियोक्ता आगामी जून तिमाही मे तेजी से भर्ती की योजना बना रहे है। मैनपावरग्रुप के नवीनतम रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत मे 36 प्रतिशत कंपनियां अगली तिमाही मे और अधिक कर्मचारियो को भर्ती करने की योजना बना रही है। इस सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। इसमें लगभग 3,150 नियोक्ताओ के साथ बातचीत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 42 देशो के बीच सबसे मजबूत नियुक्ति परिदृश्य भारत का है। समीक्षाधीन अवधि में 50 प्रतिशत नियोक्ताओ ने वेतन वृद्धि की बात कही, 14 प्रतिशत ने कमी की आशंका जताई, जबकि 33 प्रतिशत कोई बदलाव नही होने की उम्मीद कर रहे है। मैनपावरग्रुप ने बयान मे कहा, भारत 36 प्रतिशत के शुद्ध रोजगार परिदृश्य के साथ दुनियाभर के देशो की सूची मे शीर्ष पर है। कंपनियां भर्ती के दौरान प्रतिभाओ की कमी से जूझ रही है।

## सीएए के खिलाफ एलडीएफ, यूडीएफ का प्रदर्शन तेज

**तिरुवनंतपुरम।** केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानूनसे जुड़े नियमो को अधिसूचित किए जाने को लेकर केरल मे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए है और राज्य सरकार सीएए लागू करने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी मंथन कर रही है। हालांकि, भाजपा ने इसका पुरजोर बचाव करते हुए कहा है कि यह कानून मुस्लिमों को निशाना नही बनाता है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित केरल सरकार ने कहा कि वह सीएए से जुड़ी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर विचार कर रही है।केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा, राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है।

## मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सीएए का समर्थन किया

**नई दिल्ली।** कई मशहूर मुस्लिम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को समर्थन दिया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करन की सुविधा प्रदान करता है।बरतिया सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा, संशोधित नागरिकता कानून के कई उद्देश्यों में से एक अवैध अप्रवासियों की आमद को रोकना है, जो करदाताओं का पैसा खा रहे हैं। सीएए तीन इस्लामिक देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को देशीयकरण की प्रक्रिया के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान करता है और यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है।

# शाहनवाज ने सीएए को लेकर अफवाहों से प्रभावित न होने का आग्रह किया

भाषा। किशनगंज



**भाजपा के** वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को लोगों से आग्रह किया कि वे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर अफवाहों से प्रभावित न हों। अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए हुसैन ने कहा, यह केवल बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन मूल निवासियों को नागरिकता देने के लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण इन देशों से पलायन किए थे। किशनगंज में पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद हुसैन ने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, रमजान के पहले दिन किशनगंज के लोगों को इस उपहार के लिए धन्यवाद मोदी भाई जान। भाजपा नेता हुसैन ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उन्हें फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में उतारे जाने की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया। हुसैन पहली बार 1999 में मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से राजनीति के मैदान मे उतरे थे। हुसैन ने कहा, चर्चा तो बहुत से नाम की रहती है, पर्चा किसके नाम का निकलना है कौन जाने। उनकी इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को यह सीट दे दी है।

## सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे : ओवैसी

**हैदराबाद।** एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के संविधान के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किए जाने के मद्देनजर वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और इसपर उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय भी हैं।ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से कहा, ...यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप प्रत्एक धर्म के लोगों को (नागरिकता की) अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को यह नहीं दे रहे हैं।

## सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने पर जोधपुर में पाक हिंदू शरणार्थियों ने जश्न मनाया

**जोधपुर।** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) संसद से पारित होने के चार साल से अधिक समय बाद अधिसूचित किए जाने से उत्साहित यहां रह रहे पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी ने कहा कि उनके लिए यह वास्तविक राम राज्य की तरह है। इकत्तीस दिसंबर, 2014 से पहले बिना दस्तावेज के भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए त्वरित नागरिकता प्रदान करने से संबंधित कानून के अधिसूचित किए जाने के उपरांत पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों की बस्तियों में सोमवार रात को दीपक जलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। पाकिस्तानी शरणार्थी दिनेश भील ने कहा, हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके (सीएए) वास्तविकता बनने के साथ, नागरिकता के लिए कतार में खड़े कई लोग जल्द ही भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद कर सकते हैं। इस घटनाक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, एक अन्य प्रवासी पेरूमल ने कहा कि इससे (भारतीय) नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होगा और परेशान प्रवासियों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। भारत में छह साल रहने के बाद हमें नागरिकता मिल सकती है। इससे उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं।

# करदाताओं की संख्या बढ़ाने को परामर्श का सहारा लेना चाहिए: जगदीप धनखड़

भाषा। नई दिल्ली



**उपराष्ट्रपति** जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को करदाताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान करने के साथ ही कहा कि यह काम आक्रामक तौर-तरीकों के बजाय परामर्श के जरिए अंजाम दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि नागरिक-केंद्रित पहल ने कर प्रशासन में लोगों का भरोसा बढ़ाया है। धनखड़ ने यहां भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह में तीन गुना वृद्धि देखी गई है और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या लगभग ढाई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के साथ कर प्रशासक का रिश्ता अब एकजुटता और सर्वसम्मति का है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आयकर विभाग के पास अब लोगों के पुराने लेनदेन के बारे में जानने, जागरूकता बढ़ाने और कर अनुपालन के लिए एक तंत्र है। उन्होंने कहा कि विभाग व्यक्तियों तक पहुंचने और आसान कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से भी सुसज्जित है।

# अगर एनआरसी के लिए आवेदन न करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिली तो इस्तीफा दे दूंगा: हिमंत

भाषा। गुवाहाटी



**असम के मुख्यमंत्री** हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनकी यह टिप्पणी सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने पर विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना और पूरे असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है।नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री ने शिवसागर में एक कार्यक्रम से इतर कहा, मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होउंगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीएए लागू होने पर लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे। शर्मा ने कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जो लोग 2014 के बाद भारत आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी और ऐसे आवेदकों की संख्या "नगण्य" होगी।

# आंकड़ों की कमी से किसानों की आय का पता लगाना मुश्किल: रमेश चंद

**नई दिल्ली।** नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के रास्ते में कृषकों और अन्य स्रोतों से उनकी आय को लेकर आंकड़ों की कमी बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान गैर-कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे हैं। रमेश चंद ने यह भी कहा कि कृषि वस्तुओं की कीमतें किसी कानून के जरिए तय नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव हैं। यह न तो कृषि क्षेत्र और न ही किसानों के हित में हैं। उन्होंने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था ताकि हम इसके लिए और अधिक प्रयास करें। इस लक्ष्य के हिसाब से हम कहां हैं, इसका आकलन करने की जरूरत है। लेकिन आवश्यक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2016 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों के बारे में सुझाव देने को लेकर अप्रैल, 2016 में अंतर-मंत्रालई समिति बनाई गई थी। समिति ने सितंबर, 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सरकार ने प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना की है।

## क्विक न्यूज

## प्रधानमंत्री ने मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया

**मुंबई।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी राष्ट्र को समर्पित की और महाराष्ट्र में कई अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई), मनमाड (नासिक), पिंपरी, सोलापुर और नागभीड़ (चंद्रपुर) में पांच जन औषधि केंद्रों (सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए) का भी उद्घाटन किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नासिकरोड, अकोला और मुंबई के अंधेरी व बोरीवली स्टेशन पर चार रेल कोच रेस्तरां का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी, बडनेरा में रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए एक कार्यशाला और पुणे में वंदे भारत चेयर कार रखरखाव-सह-कार्यशाला डिपो सहित 506 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य रेलवे (सीआर) के अधिकारियों ने बताया कि मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी अपने प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर भारतीय रेलवे को वंदे भारत ट्रेन सेट (16 डिब्बे) की आपूर्ति करेगी। उन्होंने बताया कि कारखाने के सभी विभाग नई मशीनों और संयंत्रों से लैस है। रेलवे द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, फैक्टरी शुरू होने से पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में विकास होगा और विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति के लिए कई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कारखाना के शुरू होने से लगभग ,300 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 10 हजार से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी के अनुसार, रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए बडनेरा कार्यशाला भुसावल और नागपुर में मध्य रेलवे के दो प्रमुख माल डिब्बे की जरूरतों को पूरा करेगी और रेल डिब्बों की उपलब्धता बढ़ाएगी।

## मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए सिडबी ऋण योजना की शुरुआत की

**नई दिल्ली।** केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि जन औषधि केंद्रों के संचालकों के लिए सिडबी की ऋण सहायता योजना इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने और मजबूती देने में मददगार साबित होगी। मांडविया ने ऋण सहायता योजना और इसके लिए एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत करने के बाद कहा कि जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के सिडबी से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिडबी की इस योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी। ऐसे कर्ज पर गारंटी, चाहे कार्यशील पूंजी हो या सावधि ऋण को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इस साल जनवरी तक देशभर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्रों का संचालन हो रहा था। इन जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1,965 जेनेरिकदवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में इन केंद्रों के जरिए 1,235.95 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई थी जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपए की बचत हुई।

## एयर इंडिया समूह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

**मुंबई।** लैंगिक समानता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एयर इंडिया समूह ने कई गतिविधियों के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया। महिला दिवस पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रीजन में कुल 15 पूर्णतः महिला चालक दल उड़ानें संचालित की गईं। एयर इंडिया के कॉकपिट क्रू में 15 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं यानी यह महिला पायलटों की सबसे बड़ी संख्या वाली एयरलाइन है। एयर इंडिया के कार्यबल में 51 फीसदी महिला कर्मचारी हैं। एयर इंडिया की टाटा समूह में वापसी के बाद से पिछले दो वर्षों में, एयरलाइन की गतिविधियों के हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में, 13 फीसदी से अधिक पायलट महिलाएं हैं और कार्यबल में लगभग 50 फीसदी महिला कर्मचारी शामिल हैं।एयर इंडिया समूह ने व्यापक जागरूकता और प्रेरणा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और रोल मॉडल के साथ वेबिनार और लाइव सत्र के माध्यम से पूरे नेटवर्क में महिला कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं।ग्राहकों के लिए एक विशेष संकेत के रूप में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने महिला दिवस के दिन अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सभी महिला यात्रियों को मुफ्त सीट सलेक्शन और प्रायोरिटी बोर्डिंग सर्विसेज दी।

## विदेश सचिव क्वात्रा को मिला छह माह का सेवा विस्तार

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल मंगलवार को छह माह के लिए बढ़ा दिया। एक आधिकारिक आदेश मे यह जानकारी दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने लिया। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1988 बैच के अधिकारी क्वात्रा ने 30 अप्रैल, 2022 को विदेश सचिव के रूप मे कार्यभार संभाला था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी क्वात्रा की विदेश सचिव के रूप मे सेवा अवधि छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इसके साथ ही विदेश सचिव क्वात्रा का कार्यकाल इस साल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। बुनियादी नियम (एफआर) 56 (डी) के तहत, सरकार रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो निदेशक, रॉ प्रमुख, सीबीआई निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख को एक उचित अवधि के लिए सेवा विस्तार दे सकती है।करीब 34 वर्षों से अधिक के अनुभव वाले राजनयिक क्वात्रा ने नेपाल मे राजनयिक पोस्टिंग से पहले अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस मे भारत के राजदूत के रूप मे कार्य किया। उन्होंने अक्टूबर 2015 और अगस्त 2017 के बीच दो वर्षों के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) मे संयुक्त सचिव का पद भी संभाला।

## संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है सीएए: माकपा

**नई दिल्ली।** मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमो को अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हुए मंगलवार को दावा किया कि यह नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतो का उल्लंघन करता है।वामपंथी दल ने एक बयान मे यह आरोप भी लगाया कि नियमो का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरएसी) से जुड़ा हुआ है। उसने यह यह आशंका भी जताई कि मुस्लिम नागरिको को निशाना बनाया जाएगा।पार्टी ने एक बयान मे कहा, माकपा पोलित ब्यूरो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमो को अधिसूचित किए जाने का कड़ा विरोध करता है। सीएए नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान मे निहित नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है। माकपा महासचिव सीताराम एचुरी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमो को अधिसूचित करने का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को तेज करना है। केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियमो को अधिसूचित कर दिया।

## तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा : सिद्धरमैया

**चामराजनगर (कर्नाटक)।** कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस आरोप को झूठ बताया कि कावेरी नदी का पानी ऐसे समय तमिलनाडु के लिए छोड़ा जा रहा है जब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिद्धरमैया ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नही दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारो से कहा, यह सब झूठ है। पानी कौन जाने देगा, वह भी इस स्थिति मे? हम अपने उपभोग के लिए पानी बचाए बिना तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नही देंगे। उन्होंने कहा कि न तो तमिलनाडु ने इसके लिए कहा और न ही किसी ने कर्नाटक को पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम उन्हे (तमिलनाडु को) पानी क्यो देंगे, जब उन्होंने पानी मांगा ही नही है? हमारे पास उन्हें देने के लिए पानी कहां है? उन्हें (तमिलनाडु को) पानी देने का कोई सवाल ही नही है, भले ही तमिलनाडु या केंद्र सरकार या कोई और हमे पानी छोड़ने का निर्देश दे। नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ना बंद कर दे और बेंगलुरु के लोगो की दुर्दशा पर ध्यान दे।

## भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में पाकिस्तानी नाव पकड़ी, 480 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त

**नई दिल्ली, अहमदाबाद।** गुजरात मे पोरबंदर के निकट अरब सागर में भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) की अगुवाई में एक बहु-एजेंसी दल ने एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा, जिसमें से 480 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को जब्त किया गया। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, इस अभियान में नाव पर मौजूद पाकिस्तानी चालक दल के छह सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात को अभियान मे तटरक्षक बल के साथ समन्वय किया। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि आईसीजी ने खुफिया जानकारी के आधार पर चालक दल के छह सदस्यों और मादक पदार्थों से भरी एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। बयान मे कहा गया है, भारतीय तटरक्षक जहाजो और डोर्नियर विमानो के जरिए समुद्री-हवाई समन्वित अभियान में अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर दूर नाव को पकड़ लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि आईसीजी, एनसीबी और गुजरात एटीएस के बीच अच्छे समन्वित प्रयासो से अभियान सफल रहा।मंत्रालय के मुताबिक, एजेंसियो से विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय तट रक्षक ने 11 मार्च को ही अपने जहाजों को अरब सागर में तैनात कर दिया था। आईसीजी ने अपने डोर्नियर विमान को संभावित क्षेत्रो मे नाव की पहचान करने और उसका पता लगाने का काम भी सौपा।

# डोभाल ने नेतन्याहू से गाजा में युद्ध, मानवीय सहायता पर चर्चा की

**भाषा।** यरूशलम

**राष्ट्रीय सुरक्षा** सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर भीषण खाद्य संकट से जूझ रहे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की।

इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में जारी युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर सात अक्टूबर, 2023 को हमला कर दिया था जिसमें करीब।,200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान है।

हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्वाई की जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। गाजा में इजराइल के हमलों में 30,000 से अधिक फलस्तीनियों के मारे जाने का अनुमान है।

नेतन्याहू ने कहा, दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की।

इजराइल-हमास संघर्ष के कारण पैदा हुआ मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा पट्टी में कम से कम 5,76,000 लोग यानी कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा खाद्य संकट से जूझ रहा है।

डोभाल ने अपने इजराइली समकक्ष तजाखी हानेग्बी से भी मुलाकात की, जो नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक के दौरान भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

भारत ने गाजा में फलस्तीनी आबादी को जरूरी वस्तुओं की खेप भेजकर आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों में मदद की है।

# सीएए काफी समय से लंबित था: भारतीय अमेरिकी समूह

**भाषा।** वाशिंगटन

**अमेरिका के** हिंदू संगठनों ने कहा है कि भारत में सोमवार को अधिसूचित किया गया नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) काफी समय से लंबित था और यह अमेरिका में धार्मिक शरणार्थियों के लिए लागू किए गए लॉटेनबर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है।

भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम -2019 के नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी की। इस कानून को पारित किए जाने के चार साल बाद उठाए गए केंद्र सरकार के इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) की कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा, भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम काफी समय से लंबित था और यह कानून आवश्यक है। यह भारत में कुछ सबसे कमजोर शरणार्थियों की रक्षा करता है। यह उन्हें वो मानवाधिकार प्रदान करता है जिनसे उन्हें उनके देश में वंचित कर दिया गया था। यह उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक नागरिकता का स्पष्ट और त्वरित मार्ग प्रदान करता है।

एचएएफ ने एक बयान में कहा कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों में बदलाव नहीं करता और न ही यह सामान्य आव्रजन के लिए किसी धार्मिक जांच की व्यवस्था करता है तथा न ही मुसलमानों को भारत में रहने से रोकता है, जैसा कि गलत तरीके से प्रचारित किया गया था। उन्होंने कहा, सीएए 1990 से अमेरिका में लंबे समय से प्रभावी लॉटेनबर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है, जिसने उन चुनिंदा देशों से भाग कर आए लोगों के लिए एक स्पष्ट आव्रजन मार्ग प्रदान किया जहां धर्म के आधार पर उत्पीड़न बड़े पैमाने पर होता है।

कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की सदस्य पुष्पिता प्रसाद ने कहा कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न का शिकार हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की एक बड़ी जीत है।

लोकप्रिय अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने इसे शांति की ओर जाने वाला मार्ग बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह सच्चा लोकतांत्रिक कदम है।

दूसरी ओर, भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (आईएएमसी) ने भारत द्वारा सीएए लागू किए जाने की घोषणा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया।

आईएएमसी अध्यक्ष मोहम्मद जवाद ने कहा, यह कानून भेदभावपूर्ण इरादे को प्रमुखता से दिखाता है। इसे भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव करने, उन्हें बेदखल करने और मताधिकार से वंचित करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाया गया है।

# रमजान की शुरुआत के बीच गाजा में कम से कम 67 फलस्तीनियों की मौत

**एपी।** रफह

**गाजा में** रमजान के अवसर पर युद्ध विराम की धराशाई हुई उम्मीदों के बीच पिछले 24 घंटे में इजराइली हमलों के कारण कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ फलस्तीन में जारी युद्ध में अब तक मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

युद्ध समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आने के बीच, गाजा में फलस्तीनियों ने सोमवार से रमजान का महीना शुरू होने पर रोजा रखना शुरू किया। फलस्तीन में इजराइली हमलों के कारण मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है।

अमेरिका, कतर और मिस्र को उम्मीद थी कि रमजान से पहले युद्ध विराम समझौता हो जाएगा जिसके तहत इजराइली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली संभव हो सकेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जा सकेगी, लेकिन इस समझौते को लेकर वार्ता पिछले सप्ताह रुक गई।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बतया कि इजराइली हमलों में मारे गए 67 लोगों के शव पिछले 24 घंटों में अस्पतालों में लाए गए और इसी के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है।

मंत्रालय अपनी गणना में यह नहीं बताता कि कितने आम नागरिक मारे गए हैं और कितने लड़ाकों की मौत हुई है, लेकिन उसने बताया कि मृतकों में दो-तिहाई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर सात अक्टूबर, 2023 को हमला कर दिया था जिसमें करीब।,200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्वाई की जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया।

इस युद्ध के कारण गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 80 प्रतिशत बेघर हो गए हैं।

## यूक्रेन को वैज्ञानिक अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए एक अरब डॉलर से अधिक की जरूरत: यूनेस्को

**एपी।** पेरिस

**संयुक्त राष्ट्र** शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने सोमवार को कहा कि रूस के साथ युद्ध के दो वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए यूक्रेन को एक अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी।

यूनेस्को ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि।,443 से अधिक वैज्ञानिक सुविधाएं जिनमें से ज्यादातर देश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, को क्षति पहुंची है या नष्ट हो गई हैं। इनमें 750 विशिष्ट तकनीकी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनकी अब मरम्मत संभव नहीं है।

रुस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है।

# अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कर्ड आवेदनों की बढ़ती संख्या पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया

**भाषा।** वाशिंगटन

**अमेरिका में** एक आव्रजन शिखर सम्मेलन के दौरान डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों के प्रतिष्ठित सांसदों ने ग्रीन कार्ड आवेदनों की बढ़ती संख्या पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है, जिससे भारतीय पेशेवरों और एच- ।बी वीजा से संबंधित मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं।

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा (एफआईआईडीएस) द्वारा सोमवार को वाशिंगटन में आयोजित अपनी तरह के पहले टेक इमिग्रेशन समिट में, विशेष श्रेणियों में विदेशी कामगारों को ग्रीन कार्ड या कानूनी स्थाई निवास जारी करने के मामले में प्रति देश सात प्रतिशत की निर्धारित सीमा हटाने पर जोर दिया गया।

इस तरह का प्रावधान न होने से भारतीय अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा अवधि 20 वर्ष से अधिक और कई मामलों में 70 वर्ष से अधिक होगी। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर स्थाई निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिका में अप्रवासियों को सबूत के तौर पर जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसके तहत धारक को स्थाई रूप से रहने का विशेषाधिकार होता है।

सांसद रो खन्ना ने कहा, हम जानते हैं कि आप्रवासियों ने सिलिकॉन वैली के निर्माण में मदद की है, बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई हैं, जिन्होंने बहुत सारी नौकरियां सृजित की हैं, बहुत सारे रोजगार सृजित किए हैं, इनकी स्थापना भारत, चीन, एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप से आए आप्रवासियों ने की।

उन्होंने कहा, आप निगमों को एच।-बी धारकों को कम वेतन देने की अनुमति देकर अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप एच।-बी धारक परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमें उन्हें ग्रीन कार्ड और अंततः नागरिकता देने की आवश्यकता है। सांसद एरिक स्वालवेल ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र कैलिफॉर्निया के 40 प्रतिशत लोग अमेरिका के बाहर पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा, अगर हम बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, तो हमें समाधान की आवश्यकता है। अगर हम अमेरिका में केंसर का इलाज करना चाहते हैं, तो हमें खस्ताहाल आप्रवासन प्रणाली को ठीक करना होगा। यदि हम बच्चों की देखभाल पर कम भुगतान करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आव्रजन प्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता है।

भारतीय-अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने कहा कि अमेरिकी आव्रजन प्रणाली टूट-फूट गई है।

उन्होंने कहा, हमें कानूनी आप्रवासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैअ हमारे व्यवसायों को इसकी आवश्यकता है। जब भी मैं कंपनियों के सीईओ से मिलता हूं, वे मुझे बताते हैं कि कुशल कार्यबल ढूंढ पाना कितना महत्वपूर्ण है।

# मोहम्मद इशाक डार पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री

**भाषा।** इस्लामाबाद

**वरिष्ठ राजनेता** और अर्थशास्त्री इशाक डार ने मंगलवार को पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान की नवगठित नई सरकार भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने सहित घरेलू और बाहरी मोर्चों पर अनगिनत समस्याओं से पार पाने का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में 19 सदस्यों को शामिल करते हुए चुनाव के बाद से जारी लंबे इंतजार को समाप्त किया था। पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव हुए थे।

इशाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता हैं। मूल रूप से कश्मीरी डार सनदी लेखाकार (सीए) हैं। वह पार्टी प्रमुख और तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के विश्वासपात्र हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोहम्मद इशाक डार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के 39वें विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

विदेश मामलों के प्रबंधन के कम अनुभव के बावजूद 73 वर्षीय इशाक डार ने विदेशमंत्री का महत्वपूर्ण प्रभार ऐसे समय संभाला है जबकि पड़ोसी भारत और अफगानिस्तान के साथ देश (पाकिस्तान) के संबंध बेहद निम्न स्तर पर हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद अगस्त 2019 में भारत और पाकिस्तान ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। वहीं, राजनयिकों की मौजूदगी भी घटा दी है।

भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ने से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा था क्योंकि पाकिस्तान भारत से सस्ती दरों पर कई वस्तुओं और कच्चे माल का आयात करता था।

डार ने पड़ोसी देश भारत से आर्थिक संबंधों का समर्थन तो किया, लेकिन कश्मीर मुद्दे के कारण वह इस मामले में आगे नहीं बढ़ सके।

कश्मीर मुद्दे पर डार का रुख भी पाकिस्तान के आम रुख कि इस मामले का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत होना चाहिए, से अलग नहीं है।

कश्मीरी एकजुटता दिवस पर इस साल पांच फरवरी को एक ट्वीट में डार ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में निहित आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए अपने कश्मीरी भाइयों के उचित संघर्ष को अपने अटूट राजनीतिक, नैतिक और राजनयिक समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग था, है और हमेश बना रहेगा।

इस बीच, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने अन्य मंत्रियों को सौंपे गए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी।

ख्वाजा मुहम्मद आसिफ को रक्षा, रक्षा उत्पादन और विमानन मंत्री, अहसान इकबाल को योजना, विकास और विशेष पहल मंत्री, आज़म नज़ीर तरार को विधि और न्याय, मानवाधिकार मंत्री, अताउल्लाह तरार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री, कैसर अहमद शेख समुद्री मामलों का मंत्री, मोहम्मद औरंगजेब को वित्त एवं राजस्व मंत्री बनाया गया है।

शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री शाजा फातिमा ख्वाजा को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है।

# राष्ट्रपति मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

**भाषा।** पोर्ट लुइस

**राष्ट्रपति द्रौपदी** मुर्मू ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ पर मंगलवार को यहां मॉरीशस में महात्मा गांधी संस्थान जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि तीन दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचीं 65 वर्षीय मुर्मू ने मॉरीशस के मोका में स्थित महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन में राष्ट्रपिता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को याद किया।

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस मौके पर आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मॉरीशस में अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और भावी पीढ़ियों तक प्रसारित करने के लिए भारतीय प्रवासियों को धन्यवाद दिया।

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं मुर्मू ने मंगलवार को महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की।

विदेश मंत्रालय ने एक अन्य पोस्ट में कहा, महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत वाले दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरीशस के प्रतिष्ठित महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की संक्षिप्त सवारी भी की।

पोस्ट के मुताबिक, मॉरीशस मेट्रो भारत समर्थित एक प्रमुख परियोजना है, जिसका मॉरीशस के लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मेट्रो सेवा और अस्पताल का उद्घाटन किया था।

नमक सत्याग्रह जिसे 1930 के दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, का भारत के आजादी के आंदोलन में प्रमुख स्थान है।

## 200 टन खाद्यान्न सामग्री के साथ पोत गाजा के लिए रवाना

**एपी।** रफह (गाजा पट्टी)

**सहायता** कार्य में लगा एक पोत मंगलवार को लगभग 200 टन खाद्यान्न सामग्री लेकर गाजा के लिए रवाना हुआ जहां पांच महीने से जारी इजराइल-हमास युद्ध के कारण सैकड़ों-हजारों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहां पर हालात बहुत ही खराब हैं और लोग भूखों मर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए एक समुद्री गलियारा खोलने से जुड़े एक पायलट कार्यक्रम के तहत यह पोत गाजा के लिए रवाना हुआ। यह खाद्य सामग्री वर्ल्ड फूड किचन द्वारा एकत्र की गई है। वर्ल्ड फूड किचन जानेमाने शेफ जोस एंड्रेस द्वारा स्थापित एक कल्याणकारी संगठन है। खाद्यान्न सामग्री को एक स्पेनिश सहायता समूह ओपन आर्म्स की नौका के जरिए ले जाया जा रहा है। इसके दो से तीन दिनों में गाजा तट पर किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। एंड्रेस और ओपन आर्म्स की नौका के कप्तान ऑस्कर कैंप्स ने बाताया कि खाद्यान्न सामग्री को उत्तरी गाजा के लिए भेजा गया है।

एन्ड्रेस ने शनिवार शाम को एक संक्षिप्त साक्षात्कार में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वे 29 फरवरी की गाजा शहर की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए स्थान को गुप्त रखना चाहते थे। उक्त घटना में इजराइली सैनिकों ने राहत सामग्री लेकर पहुंचे एक काफिले की ओर दौड़े फलस्तीनियों की एक भीड़ पर गोलीबारी की थी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस घटना में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका ने सहायता पहुंचाने के लिए गाजा के पास एक समुद्री पुल बनाने की योजना की अलग से घोषणा की है, लेकिन इसके चालू होने में कई सप्ताह लगने की संभावना है। इससे और देर होगी।

# नवाज शरीफ के बेटे स्वनिर्वासन के बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे

**भाषा।** लाहौर

**पाकिस्तान के** पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दो बेटे छह साल तक स्वनिर्वासन में रहने के बाद मंगलवार को ब्रिटेन से स्वदेश लौट आए। एक जवाबदेही अदालत ने पनामा पेपर्स घोटाले में उनकी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था जिसके बाद से वे स्वनिर्वासन में रह रहे थे।

वर्ष 2016 के पनामा पेपर्स घोटाले में नाम आने के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 2018 में देश छोड़ दिया था। एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें 2018 में एवेनफिल्ड मामले में अपराधी घोषित किया था और उनके खिलाफ गैर-जमानती स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

यह मामला शरीफ परिवार के पास लंदन में शानदार अपार्टमेंट होने से संबंधित है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी ने एक बयान में कहा, नवाज के बेटे मंगलवार को लंदन से यहां पहुंचे और उन्हें कड़ी सुरक्षा में उनके जाति उमरा लाहौर स्थित उनके घर ले जाया गया।

नवाज शरीफ पीएमएल-एन के प्रमुख हैं। शरीफ परिवार के जाति उमरा आवास को पहले ही मुख्यमंत्री आवास घोषित किया जा चुका है, जहां पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और उनके पिता नवाज शरीफ की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हुसैन और हसन ने अपने वकील के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में आवेदन किया और एवेनफील्ड अपार्टमेंट, अल-अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामलों में उनके खिलाफ जारी वारंट को निलंबित करने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया।

पिछले हफ्ते अदालत ने पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उनके गिरफ्तारी वारंट को 14 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया था।

दोनों भाई ब्रिटिश नागरिक हैं। इन दोनों को 2018 में उनके पिता नवाज शरीफ, बहन मरियम नवाज और उनके पति मुहम्मद सफदर के साथ इन मामलों में फंसाया गया था।

नवाज शरीफ सहित अन्य सभी आरोपियों को सभी मामलों में बरी कर दिया गया है और केवल इन दो भाइयों को अब भी अदालतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण उन पर औपचारिक रूप से मुकदमा नहीं

## इमरान खान जेल में दो सप्ताह तक लोगों से नहीं मिल सकेंगे : रिपोर्ट

**भाषा।** इस्लामाबाद

**पूर्व प्रधानमंत्री** इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में दो सप्ताह तक लोगों से मुलाकात करने से रोक दिया गया है। मीडिया में मंगलवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई।

विभिन्न मामलों में कुल मिलाकर 31 वर्ष जेल की सजा काट रहे खान (71) को सितंबर 2023 में अटक जेल से अडियाला जेल लाया गया था और कैद के दौरान वह लगातार अपने वकीलों, पार्टी नेताओं और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है। इससे पहले, अधिकारियों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान से लोगों के मुलाकात करने के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन तय किया था। जियो न्यूज ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल के अंदर दो सप्ताह तक लोगों से मुलाकात करने से रोक दिया गया है।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

## आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को बाधित करने से दोहरेपन की बू आती है: भारत

**भाषा।** संयुक्त राष्ट्र

**भारत ने** कहा है कि सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित सबूतों पर आधारित प्रस्तावों में अकारण बाधा पैदा करने से इस बुराई से निपटने में (उसके) दोहरेपन की बू आती है।

उसका परोक्ष इशारा चीन की ओर था जिसने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की कोशिशों में अडंगा लगा रखा है। अमेरिका में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र में कहा अब हम ऐसे उपसंगठनों की ओर नजर डालें जो अप्रत्यक्ष रुप से रहकर ऐसी निजी कार्यशैली एवं अस्पष्ट तौर-तरीके अपनाते हैं जिनका चार्टर या परिषद के प्रस्तावों में कोई कानूनी आधार नहीं है। कंबोज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति का जिक्र कर रही थीं। उन्होंने 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्य पद्धतियों पर सोमवार को खुली बहस में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, उदाहरणस्वरूप, हमें किसी को (काली) सूची में डालने के इन समितियों के फैसले का पता चल जाता है लेकिन सूची में डालने के अनुरोध को खारिज करने का निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यह निश्चित ही छद्म वीटो है , उससे भी अधिक गूढ़ है जिसपर वाकई सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा की जरूरत है। कंबोज ने कहा जब आतंकवाद से निपटने की परिषद की कटिबद्धता की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित प्रस्तावों को बिना कोई उचित कारण दिए रोक दिया जाना अवांछनीय है और इससे दोहरेपन की बू आती है । कंबोज की टिप्पणी परिषद के स्थाई और वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य चीन के परोक्ष संदर्भ में प्रतीत होती है, क्योंकि उसने परिषद में पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को काली सूची में डालने के भारत के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध किया है या उन पर तकनीकी रोक लगाई है।

# पंत पूरी तरह फिट, आईपीएल में दिखाएंगे दम

● विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित, दिल्ली के कप्तान के रूप में होगी वापसी

भाषा। नई दिल्ली



**भारतीय** क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को ऋषभ पंत को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया जिससे टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी की उनकी संभावना भी बढ़ गई। पंत को 14 महीने पहले एक दर्दनाक कार दुर्घटना में काफी चोटें लगी थी। पंत आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में वापसी करेंगे और विस्तृत रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद 22 मार्च से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। इससे लीग में उनकी भूमिका को लेकर लग रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। 30 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के रूड़की में पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के बाद 14 महीने के विस्तृत रिहैबिलिटेशन और उबरने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऋषभ पंत को आगामी आईपीएल 2024 के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया गया है। टी20 विश्व कप जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होना है। कुछ हफ्ते पहले पंत ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा था कि उन्हें याद है कि उन्होंने अपने डॉक्टर को कहा था कि वह उनके उबरने के लिए जो भी समय देंगे वह उसमें कम से कम छह महीने की कटौती कर देंगे। पंत ने तब कहा था, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा।

## कोहली की आक्रामकता टीम को जज्बा देती है: कुंबले

**बेंगलुरू।** पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के प्रदर्शन में निरंतरता से हैरान है और उनका मानना है कि मैदान पर उनकी आक्रामकता, वह जिस भी टी20 टीम के लिए खेलते है, उसे जरूरी जज्बा देती है। कुंबले इसे कोहली की सबसे बड़ी विरासत मानते है जो आईपीएल के सभी 16 सत्र में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की ओर से खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। कुंबले ने जियो सिनेमा से कहा, मैं इसे प्रदर्शन में निरंतरता कहूंगा। जब मैं आरसीबी का हिस्सा था तो मैंने उसे आरसीबी में देखा था जहां अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद उसने अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उसकी फिटनेस, वह जिस तरह क्रिकेट खेलना चाहता है उस तरीके और सफेद गेंद के क्रिकेट में उसके प्रदर्शन में बदलाव आया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में हम उसकी महानता के बारे में जानते है। टी20 में भारत के लिए उसके प्रदर्शन की निरंतरता शानदार है। वह जिस तरह की आक्रामकता और रवैया मैदान में लेकर आता है उससे टीम को जज्बा हासिल करने में मदद मिलती है।

## अपने सकारात्मक रवैए के कारण वापसी करने में सफल रहे ऋषभ : धवन

**नई दिल्ली।** पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने खुलासा किया है कि ऋषभ पंत को दिसंबर 2022 में सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के बाद एक समय शौचालय जाने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ रही थी लेकिन अपने सकारात्मक रवैए के कारण यह विकेटकीपर बल्लेबाज वापसी करने में सफल रहा। धवन ने मंगलवार को स्टार स्पोर्ट्स से कहा, उसे इतना दर्द होता था कि वह कुछ महीनों तक कुछ नहीं कर पाता था। यहां तक की शौचालय जाने के लिए भी उसे मदद की जरूरत पड़ती थी। उन बुरे दिनों से लेकर अब तक उसने काफी धैर्य, सकारात्मकता और सहनशीलता दिखाई, और यह बड़ी बात है। इससे निश्चित तौर पर उसे ताकत मिली और मुझे पूरा विश्वास है कि वह आगे देश का नाम रोशन करेगा। मैं ऋषभ की वापसी को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हूं। ईश्वर की कृपा से वह इतनी बड़ी दुर्घटना से उबरने में सफल रहा।

# मुंबई ने विदर्भ को 538 रन का लक्ष्य दिया

भाषा। मुंबई



**युवा मुशीर खान** (136) के शतक के अलावा श्रेयस अय्यर (95) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (73) के अर्धशतकों से मुंबई ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन मंगलवार को यहां विदर्भ को 538 रन का विशाल लक्ष्य देकर अपना पलड़ा भारी रखा। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने बिना विकेट खोए 10 रन बना लिए हैं। ध्रुव शोरे सात जबकि अथर्व ताइडे तीन रन बनाकर खेल रहे है। टीम को जीत के लिए 528 रन और बनाने हैं। मुंबई ने 538 रन का लक्ष्य देकर अपना 42वां रणजी खिताब जीतने का दावा मजबूत कर दिया है। मुंबई के बल्लेबाजों ने दूसरे दिन सतर्क रवैया अपनाया था लेकिन मंगलवार को उसके बल्लेबाज अधिक स्वच्छंद होकर खेले और टीम ने दूसरी पारी में 418 रन बनाए। मुंबई के पहली पारी के 224 रन के जवाब में विदर्भ की टीम पहली पारी में 105 रन ही बना सकी थी और 119 रन से पिछड़ गई थी। मुंबई ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 141 रन से की। रहाणे ने 58 रन से आगे खेलते हुए चौका जड़ा लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे (144 रन पर पांच विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर अक्षय वाडकर को कैच दे बैठे। उन्होंने 143 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा। अय्यर ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने तेज गेंदबाज आदित्य ठाकरे पर छक्के से शुरुआत की और 111 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के मारे। उन्होंने मुशीर के साथ चौथे विकेट के लिए 256 गेंद में 168 रन की साझेदारी भी की। अय्यर हालांकि शतक से सिर्फ पांच रन से चूक गए जब उन्होंने आदित्य ठाकरे (39 रन पर एक विकेट) की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉग ऑन पर अमन मोखाडे को कैच थमाया। मुशीर भी अय्यर के साथ साझेदारी के दौरान अच्छी लय में दिखे।

## फाइनल देखने के लिए पहुंचे तेंदुलकर और रोहित

**मुंबई।** भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने की पहल की एक बानगी मंगलवार को यहां देखने को मिली जब दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई और विदर्भ के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 4-1 से जीत के बाद रोहित सहज नजर आ रहे थे। वह मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए तथा इस बीच उन्होंने शार्दुल ठाकुर सहित मुंबई के अपने साथियों के साथ बातचीत की। उनके हाथ में फोन था और उन्होंने टीम का हिस्सा नहीं होने के बावजूद फोन लेकर ड्रेसिंग रूम में कैसे प्रवेश किया यह बड़ा सवाल है।

## भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की श्रीलंका पर बड़ी जीत

**नई दिल्ली।** अजय कुमार रेड्डी (84) और नकुल बडनायक (65) के अर्धशतकों की मदद से भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने मंगलवार को यहां दूसरे टी20 में श्रीलंका को 134 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 273 रन बनाए। उसकी तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे गुडाडप्पा ने भी 48 रन का योगदान दिया। करनैल सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका की टीम चार विकेट पर 139 रन ही बना पाई।

## जायसवाल आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए

**दुबई।** भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद मंगलवार को फरवरी के लिए आईसीसी महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया। बाएं हाथ के 22 साल के इस खब्बू बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की इस श्रृंखला में 712 रन बनाए, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

## रोनाल्डो के गोल के बावजूद एशियाई चैंपियन्स लीग से बाहर हुआ अल नासर

**रियाद (सऊदी अरब)।** महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल के बावजूद अल नासर की टीम एशियाई चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ बाहर हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन के खिलाफ पहले चरण के मुकाबले में 0-1 की हार के बाद अल नासर ने सोमवार को दूसरे चरण का मुकाबला 4-3 से जीता। कुल स्कोर पर मुकाबला 4-4 से बराबर होने के बाद पेनल्टी शूट आउट में हालांकि अल नासर को 1-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। शूट आउट में मेजबान टीम की ओर से सिर्फ रोनाल्डो ही गोल कर पाए।

## उडिनेस ने सिरी ए में लाजियो को हराया

**रोम।** उडिनेस ने सिरी ए फुटबॉल टूर्नामेंट में सोमवार को यहां लाजियो को 2-1 से हराया। उडिनेस की यह साल की सिर्फ दूसरी जीत है लेकिन इसकी बदौलत वह निचली लीग में खिसकने वाली टीमों के समूह से बाहर आ गया है। टीम ने इस साल इससे पहले सिर्फ यूवेंटस को हराया था और संभावित 27 में से सिर्फ सात अंक जुटा पाई थी। इस जीत से उडिनेस चार स्थान के फायदे से 13वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि लाजियो नौवें स्थान पर है।

## शबीर और तेनजिन ने स्नो मैराथन जीती

**कुल्लू (हिमाचल)।** लद्दाख स्काउट के शबीर हुसैन और स्थानीय दावेदार तेनजिन डोल्मा ने रविवार को यहां तीसरी स्नो मैराथन का क्रमशः पुरुष और महिला पूर्ण मैराथन (42 किमी) का खिताब जीता। कोर्स पर बर्फ और शून्य से कम तापमान के बीच 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इस स्नो मैराथन में हिस्सा लिया। नियमित आयोजन स्थल पर भारी हिमस्खलन के कारण मैराथन को सिस्सू से मनाली के जना झरना मार्ग पर स्थानांतरित करना पड़ा।

## चेल्सी ने ईपीएल में न्यूकासल को हराया

**लंदन।** कोल पाल्मर ने एक गोल करने के अलावा एक गोल करने में मदद की जिससे चेल्सी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल टूर्नामेंट में न्यूकासल को 3-2 से हराया। इंग्लैंड के मैनेजर गैरेथ साउथगेट की मौजूदगी में 21 साल के पाल्मर सोमवार को चेल्सी के लिए लगातार पांच मैच में गोल करने वाले छठे खिलाड़ी बने। पाल्मर ने 57वें मिनट में गोल दागा जो उनका मौजूदा सत्र का 11वां गोल है। इसके अलावा निकोलस जैक्सन (छठे मिनट) और मिखाइलो मुद्रिक (76वें मिनट) ने भी चेल्सी की ओर से गोल किए।

## इंग्लैंड के बल्लेबाज कुलदीप के रहस्य को सुलझाने में विफल रहे: बॉयकॉट

**लंदन।** महान बल्लेबाज ज्योफ बॉयकॉट ने कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव से निपटने में विफलता हालिया टेस्ट श्रृंखला में भारत के खिलाफ टीम की करारी हार के मुख्य कारणों में से एक थी। इंग्लैंड ने पांच मैचों की श्रृंखला की शुरुआत हैदराबाद में जीत के साथ की लेकिन इसके बावजूद श्रृंखला 1-4 से हार गया। कुलदीप ने आखिरी चार मैच में 19 विकेट चटकाए। बॉयकॉट ने द टेलीग्राफ में अपने कॉलम में लिखा, मैं हैरान था कि उनमें से कितने (बल्लेबाज) कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को नहीं पढ़ सके और श्रृंखला के अंत तक भी समझदारी नहीं दिखा रहे थे। एक गेंदबाज आपके लिए शुरुआती कुछ मौकों पर ही एक रहस्य बन सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों को उनसे निपटने का तरीका ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। बहुत से खिलाड़ी उसके खिलाफ कभी भी सहज नहीं दिखे और पिच पर ध्यान दिए बगैर उसका सामना करने का प्रयास किया। बॉयकॉट ने श्रृंखला में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अत्यधिक आक्रामक रवैए की भी आलोचना की।

# आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह पक्की की

● मुंबई इंडियंस को हराया

भाषा। नई दिल्ली



**ऑस्ट्रेलिया** की दिग्गज एलिस पेरी (15 रन पर छह विकेट और नाबाद 40 रन) के हरफनमौला खेल के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने मंगलवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 में मुंबई इंडियन्स को सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। मुंबई की पारी को 19 ओवर में 113 रन पर समेटने के बाद आरसीबी ने 15 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर ग्रुप चरण में अपने अभियान का अंत तीसरी स्थान पर किया। टीम की यह आठ मैचों में चौथी जीत है। मुंबई की टीम पांच जीत के साथ अभी दूसरे स्थान पर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स सात मैच में इतने ही अंक के साथ पहले स्थान पर है। इन तीनों टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं।प्लेयर ऑफ द मैच पेरी ने चार ओवर में 15 रन पर छह विकेट चटकाकर डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाने के बाद 38 गेंद में पांच चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 40 रन बनाने के साथ ऋचा घोष के साथ 53 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की जीत पक्की की। ऋचा 28 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से नाबाद 36 रन का योगदान दिया।मुंबई के लिए हेली मैथ्यूज (26) और संजीवन संजना (30) ने छह ओवर में 43 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन पेरी ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी कर मैच पर आरसीबी की पकड़ बना दी।लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति ने मैथ्यूज और शबनम इस्माइल के खिलाफ चौके जड़े। इस बीच सोफी मोलिन्यू (नौ रन) को जीवनदान मिला लेकिन वह इसका फायदा उठाने में विफल रही। मैथ्यूज ने उन्हें जबकि नेट सिवर ब्रंट ने स्मृति को आउट मैच में मुंबई की वापसी कराई। दोनों का कैच चोटिल यास्तिका भाटिया की जगह खेल रही विकेटकीपर प्रियंका बाला ने लपका।गेंद से कमाल करने के बाद पेरी छठे ओवर में नैट सिवर ब्रंट के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर पावरप्ले में टीम का स्कोर दो विकेट पर 39 रन पहुंचाने में सफल रही। अगले ही ओवर में शबनिम इस्माइल ने सोफी डिवाइन को चलता किया। पेरी और ऋचा घोष ने अगले कुछ ओवरों में सभल कर बल्लेबाजी की। इस दौरान नौवें ओवर में इस्माइल की गेंद पर ऋचा को जीवनदान मिला। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 11वें ओवर में सिवर ब्रंट के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर रनगति को तेज किया।

## भारत के खिलाफ श्रृंखला में भी पारी का आगाज कर सकते हैं स्मिथ

**क्राइस्टचर्च।** सलामी बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्र्यू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिया कि यह दिग्गज बल्लेबाज कम से कम इस साल के अंत में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला में अपनी यह भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखने के लिए इस साल नवंबर से जनवरी 2025 के बीच ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा। भारत ने 2018-19 और 2020-21 में यह ट्रॉफी बरकरार रखी। मैकडोनाल्ड ने क्रिकेट.कॉम.एयू से कहा, वह (भारत के खिलाफ चुनौतियों का) इंतजार कर रहा है और मुझे लगता है कि यह उसके लिए आंतरिक प्रेरणा होगी। वह पारी का आगाज करना चाहता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसके लिए वह हमारे पास आया और हमें लगता है कि वह इस पर सफल हो सकता है। डेविड वार्नर के पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस साल जनवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला से स्मिथ को पारी का आगाज करने का मौका मिला।

## इंग्लैंड की टीम धर्मशाला में स्वदेश जैसे हालात का फायदा नहीं उठा सकीः धूमल

**धर्मशाला।** भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कोषाध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का कहना है कि उन्हे उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट में तीन दिन के अंदर ही ढेर हो जाएगी क्योंकि उन्हें पिच, आउटफील्ड और मौसम के मामले में इंग्लैंड जैसी परिस्थितियां मिली थी। मेहमान टीम से अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी क्योंकि शहर में परिस्थितियां उनके लिए स्वदेश जैसी थी। धूमल ने कहा, यह एक शानदार श्रृंखला रही। आपने देखा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यह 1-1 से बराबरी पर थी और फिर जिस तरह से यह आगे बढ़ी, टीम इंडिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह शानदार है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार नहीं खेल पाए, भले ही हमने पिच, आउटफील्ड, मौसम के मामले में उन्हें इंग्लैंड जैसी परिस्थितियां दी थी। दुर्भाग्य से वे इसका फायदा नहीं उठा सके लेकिन यह किसी भी खेल में होता है और मुझे यकीन है कि वे वापसी करेंगे।

## गो कम्युनिटी डे पर जुटेंगे ट्रेनर

**मुंबई।** पोकेमॉन गो कम्युनिटी डे शनिवार, 16 मार्च, 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस कम्युनिटी डे के दौरान, अपने आस-पास के प्रशिक्षकों के साथ रेड, ट्रेड और एक्सप्लोर करें, जिसमें लिटन को विशेष रूप से फीचर किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। वर्चुअल ट्रेनर मीटअप भारत के सत्रह शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली का लोधी गार्डन, मुंबई का हॉर्निमन सर्कल गार्डन, पुणे का सारस बाग, गुरुग्राम का लेजर वैली पार्क, जयपुर का जवाहर सर्कल, बेंगलुरु का कब्बन पार्क में स्थित एडवर्ड की प्रतिमा, कानपुर का कारगिल पार्क, वडोदरा का कामतीबाग, इंदौर का लालबाग गार्डन, कोलकाता का रवीन्द्र सरोवर झील में लायंस सफारी पार्क, वाराणसी का शहीद उद्यान नगर निगम, पटना का विज्ञान केंद्र, चेन्नई का अन्ना नगर में स्थित टॉवर पार्क, हैदराबाद का इंदिरा पार्क, लखनऊ का लोहिया पार्क, अहमदाबाद का परिमल गार्डन, और तिरुवनंतपुरम का नेपियर संग्रहालय शामिल हैं।

## कसरत से बढ़ती है फिटनेस व ताकत

**कानपुर।** एक सर्वे के मुताबिक, 2 में से लगभग 1 भारतीय ने कोविड-19 महामारी के बाद से अपना कसरत करने का समय बढ़ा दिया है। नियमित रूप से व्यायाम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है। लेकिन संतुलित आहार लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शीला कृष्णास्वामी, न्यूट्रीशन एवं वेलनेस कंसल्टेन्ट ने कहा जो नियमित रूप से कसरत करते हैं, उन्हें प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। ऐसे में बादाम बड़े काम आ सकती है। बादाम को खाने से संतुष्टि मिलती है और उसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यह सभी सेहत के लिये काम करते हैं और मांसपेशियों की टूट-फूट को ठीक करने में सहायक होते हैं। आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा वित्तपोषित हाल में किया गया अध्ययन बताता है? कि बादाम खाने से मांसपेशियों की कार्यात्मकता सुधर सकती है और कसरत के बाद सामान्य स्थिति पाने में मदद मिलती है। द विटार्ड स्टडी नामक इस अध्ययन ने खुलासा किया है कि इसमें भाग लेकर बादाम खाने वाले लोगों को एक वर्टिकल लीप चैलेंज के दौरान कंट्रोल ग्रुप के लोगों की तुलना में मांसपेशियों का दर्द 25 प्रतिशत कम हुआ। बादाम पोषक-तत्वों से भरपूर होती हैं, उनमें जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं। एक औंज बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन और 14 ग्राम मोनोअनसैचुरेटेड तथा पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। इसके अलावा, हर सर्विंग में बादाम 3.5 ग्राम डाइटरी फाइबर देती हैं। कुल मिलाकर, तंदुरुस्ती के शौकीनों और नियमित रूप से कसरत करने वालों के लिये अपने आहार में बादाम को शामिल करना अच्छा है। बादाम प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन और मिनरल से प्रचुर होते हैं।

## योग से समग्र कल्याण को बढ़ाया

**नई दिल्ली।** होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी होमियो अमीगो ने 3 मार्च को नोएडा के सेक्टर 91 में बायोडायवर्सिटी पार्क के शांत वातावरण के बीच होमियो अमीगो के साथ योग नामक एक उत्कृष्ट कल्याण अनुभव का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य होम्योपैथी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था और यह कैसे समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योग जैसी अन्य कल्याण प्रथाओं के साथ एकीकृत होता है। बायोडायवर्सिटी पार्क की शांत सेटिंग प्रतिभागियों के लिए अनुभवी योग गुरु ऐश्वर्या चुन्नी के नेतृत्व में योग सत्र में शामिल होने के लिए आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में काम करती है। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए योग और होम्योपैथी के बीच तालमेल का पता लगाने के अवसर का लाभ उठाते हुए आसपास के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए, प्रतिभागियों में से एक, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित लेवल 3 प्रमाणित योग शिक्षक और मूल्यांकनकर्ता सुश्री इना अरोड़ा ने टिप्पणी की। मैं लंबे समय से होम्योपैथी का एक उत्साही प्रशंसक रहा हूं। होमियो अमीगो जैसे ब्रांडों को देखना बहुत अच्छा है जो आगे आ रहे हैं और होम्योपैथी के कल्याण को फैलाने का दायित्व ले रहे हैं।

## नार्डी ने जोकोविच को हराकर उलटफेर किया

**इंडियन वेल्स (अमेरिका)।** लुका नार्डी ने अपने बचपन के आदर्श और शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच को बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर उलटफेर किया। दुनिया के 123वें नंबर के खिलाड़ी नार्डी ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया। इटली के 20 साल के नार्डी ने ऐस के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने लकी लूजर के रूप में टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी। लकी लूजर वह खिलाड़ी होता है जो क्वालीफाइंग के अंतिम दौर में हार जाता है लेकिन पहले दौर से पूर्व हटने वाले चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर उसे मौका मिलता है। नार्डी ने मुख्य ड्रॉ में दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचवेरी की जगह ली थी और उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी। नार्डी ग्रैंडस्लैम या एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर के टूर्नामेंट में जोकोविच को हराने वाले सबसे अधिक रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं।

## सहवाग और शोएब सुनाएंगे किस्से

**मुंबई।** सिख्या एंटरटेनमेंट डॉक्युमेंट्री यो यो हनी सिंह के साथ नेटफ्लिक्स पर वापसी की है। जिसमें हनी सिंह जीवन की एक्सक्लूसिव एवं विस्तृत झलक पेश की गई है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर जैसे जाने माने क्रिकेटरों के साथ बातचीत में दर्शकों के प्रिय खेल से जुड़े गरमा गरम किस्से सामने आएंगे। डायरेक्टर निशा पाहुजा की ऑस्कर.नॉमिनेटेड डॉक्युमेंट्री टू किल ए टाइगर अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। इस डॉक्युमेंट्री में अपनी 13 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न के बाद न्याय के लिए एक पिता के संघर्ष और अटूट साहस की कहानी है। फैन्स के पसंदीदा शो की वापसी नेटफ्लिक्स अपने फैन्स के पसंदीदा शो वापस लेकर आ रहा हैए जो लगातार कई हफ्तों तक नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में रहे हैं। इनमें कोटा फैक्ट्री सीजन 3 मिस मैच्ड सीजन 3 ये काली काली आँखे सीजन 2 फेबल्स लीव्स और वालीवुड वेव्स शामिल हैंए जो एक नई कहानीए नए ड्रामा और नई किरदारों के साथ वापस आ गए हैं।2024 लाइनअप में नेटफ़्लिक्स विभिन्न शैलियों और भावनाओं के बेहतरीन संग्रह लाया हैए जिसमें हर पसंद और मूड के लिए एक फ़िल्म और सीरीज़ उपलब्ध है। सही मायनों में . यह एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल है।

# निशांत देव क्वार्टर फाइनल में हारे

● ओलंपिक क्वालीफायर से खाली हाथ लौटा भारत



**बुस्तो अर्सिजियो (इटली)।** निशांत देव 71 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूक गए जबकि यहां पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर से सभी भारतीय मुक्केबाजी खाली हाथ लौटे। निशांत को सोमवार देर रात हुए लाइट मिडिलवेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता अमेरिका के ओमारी जोन्स के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। विश्व चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता निशांत अगर अंतिम आठ चरण का मुकाबला जीत लेते तो पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लेते। यहां हिस्सा ले रहे नौ भारतीय मुक्केबाजों में से कोई भी मुक्केबाजी में देश के चार ओलंपिक कोटा में इजाफा नहीं कर पाया। एशियाई खेल और पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर के रूप में दो क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी कोई भारतीय पुरुष मुक्केबाज ओलंपिक में जगह नहीं बना पाया है। भारत ने अपने चारों ओलंपिक कोटा महिला वर्ग में हासिल किए हैं। दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), परवीन हुड्डा (57 किग्रा) और तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। भारतीय मुक्केबाजों को 23 मई से तीन जून तक बैंकॉक में होने वाले दूसरे विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर से पेरिस की टिकट कटाने का अंतिम मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता से 45 से 51 मुक्केबाजों के पास पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का मौका होगा। भारत के नौ मुक्केबाजों ने तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था जिसमें सिर्फ लवलीना (कांस्य) पदक जीत पाईं थी।

## बेंगलुरु में जल संकट का असर आईपीएल के पहले चरण के तीन मैचों पर नहीं पड़ेगा : केएससीए

**बेंगलुरु।** कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरु में जल संकट का असर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शुरूआती चरण के तीन मैचों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीवेज संयंत्र का पानी मैदान के आउटफील्ड और पिच के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंगलुरु पिछले चार दशक के सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। इस दौरान आगामी आईपीएल में इस शहर में होने वाले मैचों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग उठ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल के पहले चरण में यहां 25 मार्च, 29 मार्च और दो अप्रैल को क्रमशः पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ खेलना है। केएससीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभेंदु घोष ने पीटीआई-भाषा से कहा, फिलहाल हम किसी संकट का सामना नहीं कर रहे हैं। हमें पानी के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मिल गई है और हम (केएससीए पदाधिकारी) दिशानिर्देशों का पालन करने के बारे में लगातार बैठक कर रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बागवानी या वाहन धोने जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। घोष ने उम्मीद जताई कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का पानी आउटफील्ड और पिच को पानी देने जैसे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा, हम पहले से ही एसटीपी संयंत्र से पानी का उपयोग आउटफील्ड, पिच और स्टेडियम के अन्य प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।

# भारतीय पुरुष हॉकी टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसकी

● महिला टीम नौवें स्थान पर

**नई दिल्ली।** भारतीय पुरुष हॉकी टीम मंगलवार को जारी एफआईएच विश्व रैंकिंग में एक पायदान नीचे चौथे स्थान पर खिसक गई जबकि हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर्स में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली जर्मनी की टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत के 2761 रैंकिंग अंक हैं। उसने पिछले साल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर पेरिस ओलंपिक में जगह बना दी थी और इस कारण ओलंपिक क्वालीफायर्स में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ जर्मनी (2786 अंक) ओमान में खेले गए ओलंपिक क्वालीफायर्स में अजेय रहा था, जिससे वह विश्व रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ने में सफल रहा। नीदरलैंड (3060 अंक) पहले की तरह शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद बेल्जियम (2848 अंक), जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया (2757 अंक) का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड (2720 अंक) को पीछे छोड़कर पांचवा स्थान हासिल किया। अर्जेंटीना (2524 अंक) और स्पेन (2296 अंक) पहले की तरह सातवें और आठवें स्थान पर बने हुए हैं। फ्रांस (2085 अंक) और न्यूजीलैंड (2025 अंक) शीर्ष 10 में शामिल दो अन्य टीम हैं। महिलाओं की रैंकिंग में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही भारतीय टीम 2215 अंक के साथ नौवें स्थान पर है। महिला वर्ग में भी नीदरलैंड (3422) शीर्ष पर काबिज है। उसके बाद अर्जेंटीना (2827), जर्मनी (2732), ऑस्ट्रेलिया (2678), बेल्जियम (2499), इंग्लैंड (2304), स्पेन (2244) और चीन (2226) का नंबर आता है।

# ली के हटने पर सिंधू दूसरे दौर में



● ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप

भाषा। बर्मिंघम

**दो बार की** ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधू ने मंगलवार को यहां जर्मनी की यिवोनी ली के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हटने पर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। पूर्व विश्व चैंपियन और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने पहला गेम 21-10 से जीता जिसके बाद दुनिया की 26वें नंबर की खिलाड़ी ली ने मुकाबले से हटने का फैसला किया। हैदराबाद की 28 साल की सिंधू अगले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीय आन से यंग से भिड़ेंगी जिनके खिलाफ उन्होंने अब तक सभी छह मुकाबले गंवाए हैं। सिंधू दुनिया की नंबर एक कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ सिर्फ एक बार गेम जीतने में सफल रही हैं और उन्होंने पिछले साल दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच पिछली बार हुए मुकाबले में ऐसा किया था। दाएं घुटने की चोट से उबर रहीं आन से ने रविवार को फ्रेंच ओपन के रूप में सत्र का अपना दूसरा खिताब जीता था।

## लक्ष्य की पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने की उम्मीद बढ़ी, 15वें स्थान पर पहुंचे

**नई दिल्ली।** राष्ट्रमंडल खेलो के चैंपियन लक्ष्य सेन पिछले सप्ताह फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण ओलंपिक खेल क्वालिफिकेशन रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंच गए है जिससे उनकी पेरिस में होने वाले खेलो में जगह बनाने की उम्मीद बढ़ गई है। अल्मोड़ा का यह 22 वर्षीय खिलाड़ी नवंबर 2022 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ छठी रैंकिंग पर पहुंचा था लेकिन पिछले साल अप्रैल में उनकी रैंकिंग गिरकर 25 हो गई थी। इसके बाद अगस्त में वह 11वें स्थान पर पहुंच गए थे लेकिन लगातार कई टूर्नामेंट में पहले दौर में बाहर होने के कारण वह इस साल के शुरू में शीर्ष 20 से बाहर हो गए थे। सेन मंगलवार को जारी बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गए। भारतीय खिलाड़ियों में एचएस प्रणय पिछले सप्ताह पहले दौर में हार के बाद विश्व रैंकिंग के साथ-साथ ओलंपिक खेल क्वालिफिकेशन रैंकिंग में आठवें स्थान पर खिसक गए।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादकः प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5 ,बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।